



# श्रीमद् अमरसूरि काव्यम्

रचयिता

राजस्थानकेसरी अध्यात्मयोगी उपाध्याय  
श्री पुष्कर मुनिजी महाराज

सम्पादक

पं० रमाशंकर शास्त्री

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, उदयपुर



## प्रकाशकीय

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय साहित्य की विविध विधाओ में नित नूतन ग्रन्थ प्रकाशित कर साहित्यिक क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साहित्य की हर विधा में—उसने, उत्कृष्ट ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं जिनकी विज्ञो ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है और भावुक भक्तों ने उसे प्रेम से अपनाया है। इसके फलस्वरूप हमारे मन में अभिनव जागृति का संचार हुआ और हमने उत्साह के साथ एक के बाद एक ग्रन्थ प्रकाशित कर यह बताने का प्रयास किया कि लगन के साथ कोई भी कार्य किया जाय तो उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है।

“श्रीमद् अमरसूरि काव्यम्” श्रद्धेय उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी की एक मौलिक कृति है जो विविध छन्दों में रचित है। यह काव्य सन् १९३८ में प्रकाशित हुआ था और उसी समय प्रस्तुत काव्य की प्रतियाँ समाप्त हो गईं। इसे पुनः प्रकाशित करने की चिरकाल से इच्छा थी, पर गुरुदेवश्री चाहते थे कि इस काव्य को जो बहुत ही संक्षेप में है, इसलिए इसका पुनर्लेखन किया जाय। पर समयाभाव से इस कार्य में विलम्ब होता गया। सन् १९७६ (रायचूर), १९७७ (बेगलोर), १९७८ (मद्रास) वर्षोंवासी में पुनः उसका नवीन दृष्टि से लेखन हुआ और गुरुभक्त प० प्रवर रमाशंकर जी शास्त्री ने ग्रन्थ का संपादन किया। इस प्रकार हमारी वर्षों की मंगल कामना पूर्ण हुई।

ग्रन्थ का मुद्रण कलात्मक दृष्टि से सम्पन्न करने का श्रेय हमारे परम स्नेही श्रीचन्द्रजी सुराना को है। ग्रन्थ प्रेस में जाने पर भी लम्बे समय तक विद्युत् सिकट के कारण मुद्रित नहीं हो सका। ग्रन्थ का ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। जैन संस्कृति के ज्योतिर्धर आचार्य अमरसिंह जी महाराज की पावन-गाथा पर यह काव्य आधृत है। संस्कृत भाषा में जैन मूर्धन्य मनीषियों ने विपुल साहित्य का सृजन किया है। उसी परम्परा में प्रस्तुत काव्य भी है। श्रद्धेय सद्गुरुवर्य उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी महाराज संस्कृत भाषा के अधिकारी विद्वान् हैं। उनके द्वारा

निर्मित प्रस्तुत ताव्य विज नमाज में पूर्ण रूप में समाहित होगा—ऐना हमें  
 'गत्मविज्ञान' है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ पर अद्वैत गुरुदेवश्री के श्रुतिप्य देवेन्द्र मुनि गाम्त्री ने  
 शिखर में प्रस्तापना निवृत्त ग्रन्थ को शोभाश्री में अभिवृद्धि की है ।  
 श्रुति, हम उनका आभार मानते हैं ।

जिन दानी महानुभावों ने उदारतापूर्वक प्रकाशनार्थ अर्थ-सहयोग  
 प्रदान किया उनके फलस्वरूप ग्रन्थ के प्रकाशन में सहनियत रही, एतदर्थ  
 उनके महानुभावों को भी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, और सदा  
 उनका स्नेहपूर्ण सहाय निरन्तर रहेगा ऐसी आशा है ।

—मन्त्री

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय  
 उदयपुर

# समालोचक

गीर्वाण गिरा के यशस्वी कवि और सफल समालोचक मङ्गल ने समालोचक के सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए लिखा है— किसी भी कवि के काव्य के मर्म को समझने की योग्यता समालोचक में होती है। सफल साहित्यकार ही कवि के कमनीय सद्गुणों को सौरभ दिग्दिगन्त में फैला सकता है। जैसे एक तैलबिन्दु बिना जल के विस्तार नहीं पाता वैसे ही समालोचक के अभाव में कवि के काव्य का रहस्य जनता समझ नहीं पाती। समालोचक कवि के काव्य की कसौटी करता है। वह सहृदयी होता है। उसका मानस उदात्त और हृदय विराट् होता है।

आचार्य राजशेखर ने “काव्य मीमासा” में, आचार्य रुचक ने “साहित्य मीमासा” में, पण्डित विश्वनाथ ने “साहित्य दर्पण” में काव्य के समस्त अंगों पर चिन्तन-मनन किया है। काव्य एक कला है। उसमें उदात्त भावानुभूति और रसानुभूति होती है। वह बुद्धि और तर्कप्रधान नहीं, अपितु अनुभूतिप्रधान होता है। उसमें कवि के अन्तःकरण का अनन्त आनन्द अठखेलियाँ करता रहता है। एतदर्थ ही महाकवि भवभूति के हत्तन्त्री के सुकुमार तार ज्ञानज्ञानाये हैं कि मैं उस विमल वाणी को वन्दना करता हूँ जिसमें आत्मा की दिव्य और भव्य कला अमृत रूप में विद्यमान है। कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी कहा है—काव्य में कलाकार अपने को अभिव्यक्त करता है।

समवायाग, नायाधम्मकहा, राजप्रश्नीय, औपपातिक, जवूद्धीपप्रज्ञप्ति, कल्पसूत्र और उनकी वृत्तियों में कला के सम्बन्ध में गहराई से विश्लेषण किया गया है। पुरुषों के लिए बहत्तर कलाएँ और महिलाओं के लिए चौसठ कलाओं का विधान है। उन कलाओं में ‘काव्य कला’ भी एक कला है। ‘ललित विस्तर’ ग्रन्थ में काव्य करण विधि को कला में परिगणित किया है। भर्तृहरि ने तो काव्य कला रहित व्यक्ति को पशु की सजा प्रदान की है।<sup>1</sup> कलाओं में काव्यकला श्रेष्ठ

१ साहित्य सगीत कला विहीन  
साक्षात् पशु पुच्छविषाणहीन ॥

कला है। 'काव्यालंकार' ग्रन्थ में आचार्य भामह ने स्पष्ट रूप से लिखा है—ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई वाक्य नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं और ऐसी कोई कला नहीं जो काव्य का अंग होकर न आये।

काव्य क्या है ? इस प्रश्न पर अतीत काल से ही चिन्तन चलता रहा है। विभिन्न मनीषियों ने विभिन्न दृष्टियों से उत्तर देने का प्रयत्न किया है। किन्तु काव्य की सर्वसम्मत परिभाषा अभी तक निश्चित नहीं हो सकी। आचार्य भामह ने "काव्यालंकार" में शब्द और अर्थ को काव्य कहा है।<sup>1</sup> आचार्य दण्डी ने "काव्यादर्श" में शब्दार्थ तृपी शरीर को अलङ्कृत करने वाले अलंकारों को सर्वाधिक महत्त्व देकर उसे काव्य की सज्ञा से अभिहित किया है।<sup>2</sup> आचार्य कुन्तक ने "वक्रोक्ति जीवितम्" में साहित्य उभे माना है जिसमें शब्द और अर्थ का शोभाशाली सम्मिलन होता है जब कवि अपनी प्रकृष्ट, प्रतिभा से उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त शब्द समाविष्ट करता है। जो कुछ भी लेखवद्ध हो जाय वह साहित्य नहीं है, अपितु साहित्य वह है जिसमें हृदय की निर्मल भावना का विस्फोट होता है। साहित्य का श्रेष्ठतम रूप काव्य है। क्योंकि काव्य सुन्दर, सरस और मधुर होता है। उसमें व्याकरणशास्त्र की तरह नीरमता नहीं होती, दर्शन और तर्कशास्त्र की तरह गभीरता नहीं होती, और गणितशास्त्र की तरह जटिलता नहीं होती। काव्य में लोकोपजीवन का मगल और अखण्ड आनन्द का पयोधि उछाले मारता है। विदग्धता और सौन्दर्यपूर्ण अभिव्यञ्जना शैली काव्य का प्राण है।<sup>3</sup> आनन्दवर्द्धन के अनुसार—काव्य वह है जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता हो।<sup>4</sup> धामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है।<sup>5</sup> आचार्य मम्मट ने दोषरहित गुणयुक्त अलंकार से समलङ्कृत शब्दार्थमयी रचना को काव्य की अभिधा दी है।<sup>6</sup>

२. शब्दाद्यौ महिती काव्यम्।

३. नै शरीर च काव्यालामलकाराण्य दजिता ।

शरीर तावद्विष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ॥

—दण्डी, काव्यादर्श

४. वक्रोक्ति काव्य जीवितम् ।

—कुन्तक, वक्रोक्ति जीवितम्

५. काव्यस्यात्मा ध्वनि ।

—ध्वन्यालोक

६. रीतिरिन्मा काव्यम् ।

—धामन, अलंकार सूत्र

—मम्मट, काव्यप्रकाश

विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है ।<sup>८</sup> पंडित जगन्नाथ ने 'रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहा है ।<sup>९</sup> इसी तरह अग्निपुराणकार,<sup>१०</sup> तथा रुद्रट,<sup>११</sup> भोज,<sup>१२</sup> जयदेव,<sup>१३</sup> आचार्य हेमचन्द्र,<sup>१४</sup> वाग्भट,<sup>१५</sup> आदि ने भी काव्य की परिभाषाएँ निर्माण की हैं ।

आचार्य राजशेखर ने लिखा है शास्त्र को समझने के लिए शब्द की अभिधा शक्ति पर्याप्त है, किन्तु काव्य को समझने के लिए केवल अभिधा ही पर्याप्त नहीं है, कही अभिधा, कही व्यंगना और कही लक्षणा आवश्यक है । काव्य में शब्द और अर्थ दोनों रहते हैं । वे दोनों एक दूसरे पर आधृत हैं । शब्द बिना अर्थ के नहीं रह सकता और अर्थ की अभिव्यक्ति शब्द के बिना संभव नहीं है । शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव ही काव्य नहीं है । काव्य में रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष-शून्यता आवश्यक है । काव्य में रसात्मकता होती है । सासारिक जितने भी आनन्द हैं, वे क्षणिक हैं । प्रथम क्षण में उनकी जैसी अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति बाद में नहीं होती । पर काव्य के आनन्द को देश-काल की सकीर्ण सीमा बाध नहीं कर सकती । उस आनन्द की तुलना पुत्रजन्म, घनागमन, पद-प्राप्ति, प्रतिष्ठा की उपलब्धि और प्रमदा की उपलब्धि से भी कही अधिक है ।

८ वाक्य रसात्मक काव्यम् ।

—विश्वनाथ, साहित्यदर्पण

९ रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम् :

—जगन्नाथ, रसगंगाधर

१० सक्षेपाद्वाक्यमिष्टार्थ-व्यवच्छिन्ना पदावली ।  
काव्य स्फुरदलंकार गुणवद्दोषवर्जितम् ॥

—अग्निपुराण

११ ननु शब्दाथौ काव्यम् ।

—रुद्रट, काव्यालंकार

१२ निर्दोष गुणवत् काव्यमलंकारैरलंकृतम् । रसान्वितम् ।

—भोज, सरस्वती कण्ठाभरण

१३ निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषिता ।  
सालंकाररसानेकवृत्तिवर्क् काव्यनामभाक् ॥

—जयदेव, चन्द्रालोक

१४ हेमचन्द्र, काव्यानुशासन ।

१५ वाग्भट, काव्यानुशासन ।



आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने काव्य के मुख्य रूप से माधुर्य, ओज और प्रसाद ये तीन गुण माने हैं। [भरत और वामन ने दस गुणों का उल्लेख किया है। पर वे सभी गुण इन तीन गुणों में समाविष्ट हो जाते हैं। काव्य की आत्मा रस है। जिसके कारण रस में बाधा उपस्थित होती हो वह दोष है। मम्मट ने पद-दोष, पदाश-दोष, वाक्य-दोष, अर्थ-दोष और रस-दोष ये पाँच दोष के प्रकार बताये हैं। 'काव्य प्रकाश' के सप्तम उल्लास में उन्होंने उनका विस्तार से विवेचन भी किया है।

काव्य के प्राणतत्त्व के सम्बन्ध में काव्य-मनीषियों ने अत्यन्त गभीरता से चिन्तन करते हुए रसवादी, अलंकारवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी, वक्रोक्तिवादी और औचित्यवादी इन छह सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। हम यहाँ पर सभी का विस्तार से विश्लेषण न कर सक्षेप में यही कहना चाहेंगे कि काव्य के विविध रूप, विविध अंग, विविध विधा के सम्बन्ध में हजारों वर्षों से उस पर चिन्तन किया जा रहा है।

भारतीय चिन्तकों ने काव्य के मुख्य दो भाग किये हैं—प्रेक्ष्यकाव्य और श्रव्यकाव्य। जो काव्य रगमच पर अभिनय करने योग्य हो वह प्रेक्ष्यकाव्य है।<sup>16</sup> ऐसे काव्यों की पूर्ण आनन्द की उपलब्धि आँखों से देखने पर ही हो सकती है। श्रव्यकाव्य वह है जो कानों से सुना जाय।<sup>17</sup> मधुर स्वर से जो गाया जाता है और जिसे सुनकर आनन्द की अनुभूति होती है वह श्रव्यकाव्य है। प्राचीन काल में लेखन की परम्परा कम थी। इसलिए स्मृति के सहारे ही काव्य को स्मरण रखा जाता था, इसलिए वह श्रव्यकाव्य कहलाता था। आज श्रव्यकाव्य को अधिकांश रूप में पढ़ा ही जाता है, पर उसे पाठ्यकाव्य न कहकर श्रव्यकाव्य ही कह जाता है। प्रेक्ष्यकाव्य भी पढ़े जाते हैं, किन्तु उसका वास्तविक आनन्द देखने में आता है। आचार्य हेमचन्द्र ने प्रेक्ष्यकाव्य के<sup>18</sup> पाठ्य और गेय ये दो भेद किये हैं—पाठ्य में नाटक, प्रकरण, नाटिका, समवकार, ईहामृग, व्यायोग, डिम, उत्सृष्टिकाग, प्रहसन,

१६ प्रेक्ष्यमभिनेयम् ।

—काव्यानुशासन ८-१ की वृत्ति (आ० हेमचन्द्र)

१७ श्रव्यमभिनेयम् ।

—वही० ८-१

१८ प्रेक्ष्य पाठ्य गेय च ।

—हेमचन्द्र, काव्यानुशासन ८-२

भाण, वीथी तथा सट्टक आदि है ।<sup>19</sup> और गेय मे डोम्बिका, प्रस्थान, शिगक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, श्रीगदित और राग काव्य आदि हैं ।<sup>20</sup> यहाँ पर हम उन सभी के भेद और प्रभेदों पर चिन्तन न कर, श्रव्य-काव्य के तीन भेद है—गद्य, पद्य और मिश्र<sup>21</sup> उस पर विचार करते हुए मूल विषय पर प्रकाश डालेंगे ।

गद्य वह है जो आवश्यक काव्य गुणों से अलंकृत हो । साथ ही उसमें छन्द योजना का अभाव होता है ।<sup>22</sup> गद्यकाव्य को कथा और आख्यायिका इन दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं । आचार्य हेमचन्द्र के मतानुसार आख्यायिका गद्य-मय रचना होती है । जिसमें धीरोद्गात्त नायक अपने जीवनवृत्त को अपने मुँह से अपने मित्र आदि को बताता है । उसमें रोमाचक तत्त्व कन्यापहरण, सग्राम आदि होते हैं । संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “हर्ष चरित्र” को इसमें लिया जा सकता है ।<sup>23</sup>

कथा वह है जहाँ कवि स्वयं नायक के जीवनवृत्त का वर्णन गद्य में करता है । जैसे दशकुमार चरित्र, पचतत्र, कादम्बरी आदि ।<sup>24</sup> कथा में भी रोमाचक तत्त्व की प्रधानता रहती है ।

छन्दोबद्ध रचना पद्य है । छन्दोबद्ध होने से उसमें सगीत की सरसता रहती है जिससे सुनने में वह बहुत मधुर लगती है । पद्य के भी दो विभाग हैं—प्रबन्ध-काव्य और मुक्तककाव्य ।<sup>25</sup> प्रबन्धकाव्य में एक कथा रहती है और सभी पद्य एक दूसरे से संबन्धित होते हैं । उसमें वर्णन भी होता है, प्राक्कथन भी होता है,

१९ पाठ्य नाटकप्रकरणनाटिकासमवकारेहामृगडिमव्यायोगोत्सृष्टिकाकप्रहसन भाण-वीथी सट्टकादि ।

—वही० अध्याय ८ सूत्र ३

२० गेय डोम्बिकाभाणप्रस्थानशिगकभाणिकाप्रेरणरामाक्रीडहल्लीसकरासगोष्ठी श्रीगदितरागकाव्यादि ।

—वही० अध्याय ८, सूत्र-४

२१ तच्च गद्य-पद्य-मिश्रभेदैस्त्रिधा ।

—वाग्भट, काव्यानुशासन

२२. गद्यमपाद-पदसन्तानच्छन्दो रहितो वाक्यसदर्भ ।

—वाग्भट, काव्यानुशासन

२३ काव्यानुशासन ८-१० वृत्ति हेमचन्द्र ।

२४ वही० ८-८ वृत्ति ।

२५ वही० पृ० १७ ।

पारस्परिक सम्बन्ध होने के कारण प्रभाव का प्राधान्य रहता है। किन्तु मुक्तककाव्य स्वतन्त्र सत्ता लिये हुए होता है। उसके पद्य एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। वे पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होते हैं।

प्रबन्धकाव्य के भी महाकाव्य और खण्डकाव्य ये दो प्रकार हैं। महाकाव्य में सर्वांगीण जीवन का चित्र होता है। वह सर्गवद्ध, विशाल, अलकारयुक्त श्लिष्ट भाषा का प्रयोग, राज दरवार, दूतप्रेषण सैन्यप्रयाण, युद्ध, जीवन के विविध रूपों व अवस्थाओं का चित्रण, महाकाव्य का नायक, कुलीन, वीर, विद्वान्, उसके उदात्त गुणों का वर्णन, होता है। उसमें ममस्त रसों का परिपाक होता है और लोक स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है। चार पुरुषार्थों को स्थान दिया जाता है। इस प्रकार भामह ने 'काव्यालकार'<sup>26</sup> में, दण्डी ने 'काव्यादर्श' में<sup>27</sup>, रुद्रट ने 'काव्यालकार' में<sup>28</sup> और वाग्भट,<sup>29</sup> आचार्य हेमचन्द्र,<sup>30</sup> आचार्य अमरचन्द्र,<sup>31</sup> विश्वनाथ<sup>32</sup> प्रभृति विद्वानों ने महाकाव्य के स्वरूप पर विभिन्न दृष्टियों से चिन्तन किया है।

भारतीय चिन्तकों ने महाकाव्य को सर्गवद्ध होना आवश्यक माना है। आचार्य हेमचन्द्र और वाग्भट के अभिमतानुसार वह आश्वासकवद्ध भी हो सकता है। सर्ग न अधिक बड़े होने चाहिए न अत्यन्त लघु ही। विश्वनाथ ने सर्गों की संख्या के सम्बन्ध में चिन्तन किया है, पर अन्य आचार्यों ने नहीं। कथानक के सम्बन्ध में रुद्रट का मानना है कि वह महती घटना होनी चाहिए। उसमें पाँच नाट्य-संघियों की योजना होनी चाहिए जिसमें कथानक विस्तृत हो सके। कथानक ऐतिहासिक या पुराण पर-आधृत होना चाहिए। रुद्रट की दृष्टि से कल्पना प्रधान भी हो सकता है। रुद्रट और हेमचन्द्र के मतानुसार महाकाव्य में अवान्तर कथाएँ होनी चाहिए जिससे गम्भीर और व्यापक अनुभवों का परिज्ञान हो सके। महाकाव्य में प्राकृतिक सौन्दर्य सुपमा का सजीव चित्रण होता है। आचार्य हेमचन्द्र का मानना है 'यदि मूलकथा में प्राकृतिक सौन्दर्य आदि पर चिन्तन न हो सके तो अवान्तर कथाओं में इसका समावेश करना चाहिए।' भोजदेव का अभिमत है 'इन सभी विषयों का समावेश करना कठिन है। किन्तु यदि कवि काल का वर्णन कर देता है

२६ काव्यालकार, परि० १, श्लो० १६-२३ ।

२७ काव्यादर्श परि० १, श्लो० १४-१६ ।

२८ काव्यालकार अ० १६, श्लो० २-१६ ।

२९ काव्यानुशासन ।

३० काव्यानुशासन अ० ८ ।

३१ काव्यकल्पलता वृत्ति ।

३२ साहित्य दर्पण परि० ६, श्लोक ३१५-३२८ ।

तो देश का वर्णन करना उतना आवश्यक नहीं है। कालवर्णन आवश्यक है। अमरचन्द्र ने पट्कृतुओ का वर्णन और अन्य वर्णन विस्तार से करने का सूचन किया है। रुद्रट और विश्वनाथ का मानना है अतिप्राकृतिक और अलौकिक तत्त्वों का होना आवश्यक है।

महाकाव्य का आरम्भ किस प्रकार करना चाहिए इस सम्बन्ध में भामह और भोजदेव ने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है। दण्डी का मन्तव्य है महाकाव्य में आशीर्वचन, नमस्कार, वस्तुनिर्देशन आदि होना चाहिए। वाग्भट, हेमचन्द्र और विश्वनाथ इसके साथ ही खल-निन्दा और सज्जन-प्रशंसा भी आवश्यक मानते हैं। महाकाव्य के उपसंहार के सम्बन्ध में अन्य सभी आचार्य मौन रहे हैं किन्तु रुद्रट और हेमचन्द्र ने लिखा है कि कवि को अपना उद्देश्य प्रकट करना चाहिए, अपने आराध्य देव का भी स्मरण करना चाहिए तथा मंगलप्रद शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। रुद्रट का मानना है 'अन्त में नायक का अशुद्ध्य दिखाना चाहिए।'

सर्ग समाप्ति के सम्बन्ध में विश्वनाथ का कहना है कि अन्त में अगले 'सर्ग' की सूचना देनी चाहिए। वाग्भट का मानना है प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद में कवि द्वारा अभिप्रेत शब्द, 'श्री', 'लक्ष्मी' आदि का प्रयोग होना चाहिए। नामकरण के सम्बन्ध में विश्वनाथ का मानना है कि कि कथावस्तु या चरित्रनायक के नाम पर होना चाहिए। दण्डी, भोज, वाग्भट और हेमचन्द्र के अनुसार नायक चतुर और उदात्त होना चाहिए। भामह की दृष्टि से नायक कुलीन, वीर और विद्वान् हो। विश्वनाथ की दृष्टि से नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त, उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए। रुद्रट का मन्तव्य है कि महाकाव्य में नायक के समान प्रतिनायक भी आवश्यक है जो नायक की क्रोधान्ति को भडका सके। प्रतिनायक के अतिरिक्त भामह, दण्डी, रुद्रट, वाग्भट, हेमचन्द्र और विश्वनाथ का मानना है कि मन्त्री, दूत, सैनिक, कुमार, कुमारपत्नी, राजकन्या आदि भी आवश्यक हैं। महाकाव्य में नवों रसों को आवश्यक माना है। विश्वनाथ का मानना है कि शृंगार, वीर और शान्त में से कोई एक रस प्रमुख होना चाहिए, अन्य गौण। सभी आचार्यों ने रस के साथ अलंकार भी आवश्यक माने हैं। कितने ही विज्ञ अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए अलंकारों का प्रदर्शन करते थे। इसलिए रुद्रट, वाग्भट और विश्वनाथ का मन्तव्य था कि अलंकार आवश्यक तो हैं किन्तु अनिवार्य नहीं। महाकाव्य का छन्दोबद्ध होना आवश्यक है। दण्डी का मानना है महाकाव्य का छन्द-अत्यन्त श्रुति-मधुर होना चाहिए और सर्ग के अन्त में भिन्न छन्द का प्रयोग होना चाहिए। आचार्य हेमचन्द्र का मन्तव्य है अर्थ के अनुकूल छन्द का प्रयोग होना चाहिए। यदि समस्त काव्य में एक छन्द भी हो तो एतर्गज नहीं है। विश्वनाथ और दण्डी यह भी मानते हैं कि एक ही सर्ग में विविध छन्दों का प्रयोग भी हो सकता है।

महाकाव्य मे प्रसंग के अनुसार माधुर्य, प्रसाद और ओज गुणवाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भामह का मानना है महाकाव्य मे साहित्यिक भाषा अपेक्षित है। उसमे ग्राम्य शब्दो का प्रयोग नही होना चाहिए। दण्डी और हेमचन्द्र की दृष्टि से भाषा सरल, सरस और बोधगम्य होनी चाहिए। रति के प्रकर्ष के लिए कोमलकान्त पदावली का प्रयोग ही। उत्साह के प्रकर्ष के लिए प्रौढ और क्रोध के लिए कठोर शब्दो का प्रयोग आवश्यक है। कवि को भाषा पर असाधारण अधिकार होना चाहिए जिससे वह अपने मन्तव्य को साधिकार व्यक्त कर सके।

विश्वनाथ के अतिरिक्त सभी आचार्यों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की उपलब्धि महाकाव्य का उद्देश्य माना है। विश्वनाथ किसी एक पुरुषार्थ को भी महाकाव्य का उद्देश्य मानते हैं।

भारतीय मूर्धन्य मनीषियो ने जिस प्रकार महाकाव्य के बारे मे चिन्तन किया है। उसी तरह पाश्चात्य विज्ञो ने भी उस पर चिन्तन किया है। लार्ड केम्स के अनुसार<sup>33</sup> वीरतापूर्ण कार्यों का उदात्त शैली मे वर्णन महाकाव्य है। लवस्सू<sup>34</sup> (फ्रेंच विद्वान्) के अनुसार महाकाव्य ऐसा रूपक है जिसमे प्राचीन महत्त्वपूर्ण घटनाओ का वर्णन पद्यवद्ध रूप से किया जाय। हाव्स<sup>35</sup> की दृष्टि से वीरतापूर्ण समाख्यानात्मक कविता महाकाव्य है। लैफकैडियो हर्न<sup>36</sup> का मन्तव्य है कि महाकाव्य सपूर्ण जाति के आदर्शों की पद्यवद्ध अभिव्यक्ति करने वाला काव्य है। विलियम रोज वेनिट<sup>37</sup>, वालटेयर<sup>38</sup>, एवर क्रोम्बी<sup>39</sup>, वाल्टर पेपर<sup>40</sup>, सी० एम० वावरा<sup>41</sup>, डब्ल्यू० पी० केर<sup>42</sup>, एम० डिवसन<sup>43</sup>, टिलयार्ड<sup>44</sup> प्रभृति पाश्चात्य

३३ M. Dixon, English Epic & Heroic Poetry, Page 18

३४ Ibid, Page 2

३५ Ibid, Page 22

३६. हिन्दी महाकाव्य एव महाकाव्यकार, ले० श्री रामचरण महेन्द्र पृ० १४ से उद्धृत।

३७ Mr William Rose Benit "The Reader's Encyclopedia" Page 345

३८ डा० शम्भुनाथसिंह कृत 'हिन्दी महाकाव्य के स्वरूप-विकास' से उद्धृत, पृ० १०४।

३९ Abercrombie, The Epic, Page 40-41

४० Appreciation, Page 36

४१ C M Bowara, From Virgil to Milton', Page 1.

४२ W P Ker 'Epic & Romance' Page 17

४३. M Dixon — 'English Epic & Heroic Poetry', Page 9.

४४ सरम्बती मवाद, महाकाव्य विशेषांक पृ० ३६-४०।

चिन्तको ने महाकाव्य के विविध पहलुओं पर गहराई से अनुचिन्तन किया है। विस्तार भय से हम उन सब पर यहाँ चिन्तन न कर सक्षेप में यही कहना चाहेंगे कि प्रायः सभी सूर्धन्य मनीषियों ने मूलतत्त्व एक सदृश माना है, यत्किञ्चित् अन्तर महाकाव्य के बाह्य रूप को लेकर ही है। मुख्य तथ्य पाश्चात्य और पौवत्य दोनों में समान है।

अतीतकाल से ही जैन मनीषीगण गीर्वाण गिरा में काव्यों का सृजन करते रहे हैं। क्योंकि अनुयोगद्वार<sup>मे</sup> प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषाओं को समान रूप से महत्त्व दिया है। इसलिए जैनाचार्यों की लेखनी दोनों भाषाओं में अविराम गति से चलती रही। [ईसवी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों में संस्कृत भाषा का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक माना जाने लगा। विज्ञो की मान्यता है एकादश अगो की भाषा अर्धमागधी थी और पूर्वों की भाषा संस्कृत थी। इस दृष्टि से संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाओं को जैन साहित्य में गौरवपूर्ण पद मिला है। जैन मनीषियों ने प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में विराट साहित्य का सृजन किया तो संस्कृत भाषा में भी विपुल साहित्य सृजन कर अपनी प्रकृष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। यह सत्य है कि जैन ऋम्परा अध्यात्मप्रधान रही है। उसका मुख्य लक्ष्य मोक्ष रहा है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धार्मिक साधना आवश्यक है। इस दृष्टि से जैन साहित्य में त्याग, वैराग्य के स्वर अधिक मुखरित हुए हैं।

जैन काव्य साहित्य की अनेक विशेषताएँ हैं। इसकी कथावस्तु में विस्तार की अपेक्षा गहनता अधिक होती है। सूक्ष्म भावों का आख्यान और वर्णन के साथ ही विश्लेषण प्रधान होता है। कथाओं में पूर्व जन्मों की कथाएँ चमत्कार उत्पन्न करने वाली होती हैं जो किसी पक्ष का मार्मिक उद्घाटन करती हैं। श्रृंगारिक जीवन का वर्णन करने पर भी वासना का विरेचन, प्रशम और निर्वेद पर अधिक बल दिया गया है। भोग पर त्याग की विजय, राग पर विराग की विजय बताई गई है। चरित्र में प्रेम, विवाह, मिलन, युद्ध, सैनिक अभियान, दीक्षा, तपश्चरण, विविध उपसर्ग पर विजय वैजयन्ती फहराते नायक आध्यात्मिक उत्क्रांति की ओर आगे बढ़ता है। काव्य का मूल उद्गम स्रोत आगम, प्रागैतिहासिक व ऐतिहासिक महा-पुरुषों के जीवन चरित्र और ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन-वृत्त उसमें होते हैं जो जन-जीवन को निर्मल प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं।

४५ सक्कया पायया चव भण्णिओ होति दोण्णि वा ।

सरमडलम्मि गिज्जते पसत्था इसिभासिया ॥

आचार्य हरिभद्र, आचार्य हेमचन्द्र, आचार्य मलयगिरि, आचार्य मिद्धसेन दिवाकर, उपाध्याय यशोविजय, समयमुन्दर गणी, आचार्य अकलक, आचार्य समन्तभद्र, विद्यानन्द प्रभृति गताधिक जैन मनीषियो ने संस्कृत भाषा में साहित्य का निर्माण किया है। उनके द्वारा सहस्राधिक ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। आधुनिक चिन्तकों ने उसके सम्बन्ध में शोध कार्य भी किया है जिससे सैकड़ों जैन महाकाव्यों का, जो अज्ञात थे, उनका पता लगा है।

आधुनिक युग में संस्कृत साहित्य का उतना प्रचार नहीं जितना अतीत काल में था। संस्कृत साहित्य का अध्ययन तो होता है, किन्तु काव्यों का प्रणयन बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। क्योंकि संस्कृत भाषा-भाषियों की संख्या अल्पतम होती चली जा रही है। जब जनता को संस्कृत भाषा का परिज्ञान नहीं है तो काव्य का आनन्द उन्हें किस प्रकार आ सकता है और बिना आनन्द के काव्य-सृजन को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। जब कवि के अन्तर्मानस में काव्य-निर्माण के प्रति अत्युत्कट जिज्ञासा होती है, तभी काव्य का प्रणयन होना है।

### प्रस्तुत काव्य की कथावस्तु

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य राजस्थान केनरी अध्यापयोगी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का प्रस्तुत काव्य अपने आप में एक अनूठा काव्य है। प्रस्तुत काव्य श्रद्धेय गुरुवर्य ने आचार्यसम्राट् श्री अमरसिंह जी महाराज के पवित्र चरित्र को लेकर तेरह सर्गों में लिखा। स्वधरा शार्दूलविक्रीडित, वनन्ततिलका प्रभृति विविध छन्दों का उपयोग हुआ है। और साथ ही रूपक, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि विविध अलंकारों का प्रयोग हुआ है।

प्रस्तुत काव्य की कथावस्तु श्वेताम्बर स्थानकवासी परम्परा के महान ज्योतिर्धर नक्षत्र आचार्य श्री अमरसिंह जी महाराज से सम्बन्धित है। आचार्य श्री अमरसिंह जी महाराज प्रबल प्रतिभा के धनी, महान् क्रियोद्धारक थे। उन्होंने मरुधर धरा में स्थानकवासी समाज के शुद्ध चिन्तन व आचरण का प्रचार किया था। स्थानकवासी समाज एक अध्यात्मप्रधान क्रान्तिकारी सम्प्रदाय है। इसमें यम, नियम, समय की प्रधानता है। मानवजीवन के मूल्य और महत्व का इसमें सही-सही अंकन किया गया है। इसका उद्देश्य मानव को भोग से योग की ओर, सग्रह से त्याग की ओर, राग से विराग की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, अनन्य से मत्य की ओर ले जाना है।

श्रद्धेय अमरसिंह जी महाराज युगप्रवर्तक थे। वे श्रमण संस्कृति के एक मतेज सन्त रत्न थे। वे विद्वान्, विचारक तथा गभीर तत्त्ववेत्ता थे। उनके अगाध पांडित्य की सौरभ दिग्दिगन्त में फैल चुकी थी, और आज भी वह जन-मानस को अनुप्रेरित एवं अनुप्राणित करती है। आपका ज्ञान निर्मल था। सिद्धान्त अटल था। आपका जन्म देहली में हुआ था। आपके पिता का नाम देवीसिंह जी और माता

का नाम कमलादेवी था। स० १७१६ में आश्विन शुक्ला चतुर्दशी रविवार को आपका जन्म हुआ था। आचार्य लालचन्द जी महाराज के पावन-उपदेश से प्रभावित होकर आपने स० १७४१ में आर्हती दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करते ही सयम और तप की आराधना प्रारम्भ की। जैन आगम साहित्य का गहरा अध्ययन किया। आपकी बुद्धि पैनी थी। प्रखर प्रतिभा तथा तर्कपूर्ण मेधा शक्ति से अल्पकाल में ही आगम के साथ दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य का विशेष अध्ययन-चिन्तन-मनन किया है।

आचार्य श्री लालचन्द जी महाराज की आज्ञा से आपने अपनी ज्ञान राशि को पंजाब और उत्तर प्रदेश के जन-जीवन में महामेघ के समान हजार-हजार धाराओं में बरसाकर जन-जीवन को त्याग वैराग्य से सरसब्ज बनाया। अनेक स्थलों पर, वेश्या-नृत्य, मृत्युभोज, जातिवाद, बलिप्रथा आदि को बन्द करवाया। आपकी वाणी में ओज था, सत्य का तेज था, विवेक का विशुद्ध प्रकाश था। आप जिस विषय पर भी बोलते साधिकार बोलते। सफलता देवी आपके चरण चूमने के लिए लालायित रहती। संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी, अरबी इन छ भाषाओं पर आपका पूर्ण अधिकार था। आपने अनेक श्रमण-श्रमणी, श्रावक-श्राविकाओं को अध्ययन करवाया। आप मानव रूप में माक्षात् बहती हुई ज्ञान-गंगा थे। जिधर भी वह ज्ञान-गंगा प्रवाहित हुई उधर अध्ययन, मनन व चिन्तन के सूखे और उजड़े हुए खेत हरे-भरे हो गये।

आचार्य श्री अमरसिंहजी महाराज प्रकाण्ड पण्डित, महान् प्रभावक, प्रसिद्ध प्रवचनकार और यशस्वी साधक थे। जैन-अजैन जनता आपको एक दिव्य महापुरुष मानती थी, तथापि आप उतने ही नम्र थे। आप गुरुजनों के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु थे और लघु जनों के प्रति आपके हृदय में प्रेम का सागर ठाठे मारता था। अहंकार-ममकार के दुर्गुणों से आप बहुत दूर थे। आपने बीस व्यक्तियों को आर्हती दीक्षा प्रदान की। स० १७६१ में आचार्य श्री लालचन्दजी महाराज ने आपकी युवाचार्य पद प्रदान किया और स० १७६२ में आपकी आचार्य बने।

संवत् १७६७ में आपका वर्षावाम देहली में था। उस समय हिन्दुस्तान के बादशाह शाहनशाह बहादुर थे। वे दक्षिण से अजमेर आये थे। उस समय जोधपुर के महामन्त्री खीरसिंहजी भण्डारी अजमेर आये और शहजादा अजीम के मार्फत संवत् १७६७ में बादशाह से मुलाकात की। बादशाह भण्डारी जी के साथ लाहौर होते हुए दिल्ली पहुँचे। और एक बार भण्डारी जी के द्वारा आचार्यश्री की सेवा में पहुँचे और आचार्य प्रवर के जादू भरे व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रभावित हुए। आचार्य श्री के उपदेश से प्रभावित होकर प्राणिवध न करने का नियम ग्रहण किया। आचार्य श्री खीरसिंह भण्डारी के अत्यधिक आग्रह पर मारवाड़-राजस्थान के लिए प्रस्थित



हुए। अनेक उपसर्ग उन्हें सहन करने पड़े। सोजत और जोधपुर में देवकृत उपसर्गों का सामना करना पड़ा। पाली में यतियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। और मारवाड में सर्वप्रथम स्थानकवासी जैनधर्म का प्रचार किया।

इस प्रकार प्रस्तुत कथानक अत्यन्त दिलचस्प है। ऐतिहासिक होने के साथ ही अत्यन्त प्रेरणाप्रद है।

काव्य का नायक धीर, वीर और उदात्त गुण विशिष्ट है। उनके उदात्त गुणों का सजीव चित्रण प्रस्तुत काव्य में हुआ है। यह काव्य घटनाप्रधान होने पर भी सुखान्त है। त्रयोदश सर्गों में आवद्ध होने के कारण उसे महाकाव्य की कोटि में रखा जा सकता है। यद्यपि सर्गों का एक क्रम नहीं रहा है, कुछ सर्ग बड़े हुए हैं तो कुछ लघु भी हैं। किन्तु विषय-सामग्री को देखते हुए गुरुदेवश्री को ऐसा करना पड़ा है।

प्रस्तुत काव्य को महाकाव्य में परिगणित करना या नहीं यह भले ही विज्ञो के लिए चिन्तनीय प्रश्न हो सकता है, पर जहाँ तक काव्य का प्रश्न है प्रस्तुत काव्य एक उत्कृष्ट काव्य है। विविध वृत्तों का उपयोग साधिकार किया गया है। वृत्तों में यति भग आदि ढगोचर नहीं होता है। कठिन से कठिन वृत्त को भी सहज रूप से दिया गया है।

भाषा की दृष्टि से गुरुदेवश्री की भाषा बहुत ही सरल, सरस और अनुप्रास युक्त है। भाषा आपकी सहचरी है। गहन भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा सक्षम है। उसमें कहीं पर भी बनावटीपन नहीं है और न भाषा में दुरुहता ही है। भाषा-शैली पाठकों के दिल को लुभानेवाली है। पाठक पढ़ते-पढ़ते झूमने लगता है। लेखक ने व्याकरण के नियमों की कहीं भी उपेक्षा नहीं की है। भाषा की सरसता और सरलता के कारण पाठक को तनिक मात्र भी बौद्धिक व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। उसे गहन भाव भी सहज ही हृदयगम हो जाते हैं। संस्कृत काव्य साहित्य में व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य श्रेष्ठ माना जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ रत्न इस दृष्टि से उत्तम काव्य है। यत्र-तत्र व्यंग्य का प्रयोग हुआ है और वह निगूढ-तम भाव को अभिव्यक्त करनेवाला है।

नौ रसों में काव्य में एक रस की प्रधानता होती है, पर अन्य रस यत्र-तत्र विषय की अभिव्यक्ति के लिए आते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव श्री जैन श्रमण हैं। जैन श्रमण होने के नाते आपश्री का प्रस्तुत काव्य शान्त रस-प्रधान है। शान्त रस का पूर्ण परिपाक काव्य में हुआ है।

अर्थ के चमत्कार को अभिव्यक्त करने के लिए अलंकार की आवश्यकता है। किन्तु अलंकार सहज होना चाहिए। जो अलंकार सहज होते हैं वे ही वास्तविक चमत्कार पैदा करते हैं। जब तक अलंकार अर्थ के साथ घुल मिल नहीं जाता

वहाँ तक उसमे अभिनव चमत्कृति पैदा नहीं होती। स्वाभाविक रूप से यत्र-तत्र अलकारो का प्रयोग हुआ है। कवि लिखता है—“ससार मे प्रशस्त ब्रह्मचर्य ने महान् आश्चर्य उत्पन्न किया है। ब्रह्मचर्य के विश्वविख्यात वैशिष्ट्य को कोई भी कहने मे समर्थ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि रमणीय रूप भी लज्जित होकर तिनके तोड़ने लगता है। किन्तु यह अपने अस्तित्व को इसी प्रकार रखकर उस ब्रह्मचर्य के सामने नृत्य करता है अर्थात् ससार मे ब्रह्मचर्य ही महान् है।

“ब्रह्मचर्यं जगति तनुते ब्रह्मचर्यं प्रशस्तम् ,  
यस्योत्कर्षं भुवनविदित कोऽपि वक्तु न शक्त ।  
रम्य रूप स्पशति तृणक लज्जमान परन्तु ,  
स्वस्यास्तित्व कथमपि धरन् नृत्यतीद तदग्रे ॥”

कवि ने बताया है कि इस विराट विश्व मे मानव के दुःख का मूल कारण क्या है? दैवी विपदाओ के कारण मानव दुःखी नहीं है, और न प्राकृतिक प्रकोपो के कारण ही दुःख की काली घटाएँ मँडराती रहती हैं। दुःख का मूल है इच्छाएँ। इच्छाओ का वातचक्र इतना गहरा है जो मानव की शांति को नष्ट कर देता है। कवि के शब्दो मे देखिए—

इच्छाबद्ध विकृतहृदयश्चिन्तया पोडितोऽयम् ,  
श्रेष्ठ वस्तु प्रभवति सदा स्वात्मने निग्रहीतुम् ।  
सर्वस्व मे भवतु निखिल सर्वमेव विचिन्वन् ,  
स्वार्थी जीवो ग्रहणनिरत जायते दुःखदग्ध ॥

कवि ने ससार को मदोन्मत्त अन्धे हाथी की उपमा दी है। एक ओर विराट् वैभवशाली गुलछरें उडाते हैं, पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। अर्थ से अनर्थ कर अपने आपको आनन्दित अनुभव करते हैं। पर उन्हे यह सत्य-तथ्य ज्ञात नहीं है कि वे कर्मों को बाँध रहे हैं। दुःख के बीज वपन कर रहे हैं। दूसरी ओर वे महान् त्यागी सन्त हैं, उत्कृष्ट तप की साधना कर रहे हैं, जन्म और मरण के बन्धन से मुक्त होने के लिए प्रबल प्रयास कर रहे हैं। पर यह ससार रूपी हाथी तो झूमता हुआ चला जा रहा है। देखिए, कवि ने कितना सुन्दर कहा है—

प्रीणन्त्यन्ते चरितविभवा भुक्त भोगप्रपचा ,  
धन्यमन्या स्वकृतिविवशा पापकृत्यानि कर्तुम् ।  
सन्त्येकेऽमी विरतहृदया मृत्युजन्मैक चिन्ता ,  
ससारोऽयं विविधविषय व्याप्तचित्तोऽन्धहस्ती ॥

इस प्रकार प्रस्तुत काव्य मे विभिन्न अलकारो का प्रयोग अत्यन्त सफलता के साथ हुआ है। सर्वत्र श्रद्धेय सद्गुरुवर्य की प्रतापपूर्ण प्रतिभा झलक रही है।

आपके काव्य मे प्रसाद और माधुर्य इन दोनो गुणो की प्रधानता है । कही-कही पर ओज गुण भी परिलक्षित होता है ।

मेरे स्नेहपूर्ण आग्रह को सन्मान देकर ५० प्रवर रमाशकरजी शास्त्री ने ग्रन्थ का सुन्दर सम्पादन किया । उनके अन्तर्मानस मे श्रद्धेय सद्गुरुवर्य के प्रति अगाध निष्ठा है । जब उन्होने यह काव्य देखा तो उनका मन इसके संपादन के लिए ललक उठा और उन्होने भक्ति भावना से विभोर होकर संपादन किया, तदर्थ मैं उन्हें साधुवाद प्रदान करता हूँ ।


प्रस्तुत काव्य संस्कृत साहित्य मे अपना अनूठा स्थान प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण आत्म-विश्वास है । श्रद्धेय गुरुवर्य के अन्य ग्रन्थो की तरह यह ग्रन्थ भी श्रद्धालुओ के हृदय का हार बनेगा, इसी मंगल आशा के साथ—

जैन स्थानक, सिकन्दरावाद

आश्विन शुक्ला चतुर्दशी

संवत् २०३६

—देवेन्द्र मुनि



# प्राक्कथन

अयि मे विद्वन्मूर्धन्या रसिका कविमहोदया ।

किमह वदेय भवता पुर यत् कवे कार्यं कियद् दुष्करम् तथापि सर्वभेदमविगणय्याहमस्मिन् काव्यकर्मणि प्रवृत्तोऽभवम् । समवाप्तयशसा महाकवीनामन्यै काव्यै पुनश्च प्रेरितोऽभवमहम् । किन्तु तेषां वर्णनं तु वर्णनमेव, किमह तेषां काव्यस्यानुकृतिमपि कर्तुं प्रभुर्भवेयम् । नैतच्छक्य-कालत्रयेऽप्यस्माद्दृशाना कवीनां कृते । किन्तु तेषां मानवा एवासन्, अहमपि मानवेष्वेकतमोऽस्म्येव । यदात्मानं साक्षात्कर्तुं यते, तमात्मानमवाप्तुं शक्नोमि वा न वा, तथापि तद्वदिहाहमपि काव्यं करोम्येव ।

यदाहमधीयान एवासमभारतीम्, तदा मम गुरुदेवो महास्थविर श्रीमद् ताराचन्द्रो मुनिरप्येवमुत्साहयन्नह्नेकस्मिन् मामेवमवोचत्, यत्त्वमप्येकस्मिन् समये कविरवश्यं भावी विद्यसे । हेतुं तु त एव जानीयुर्मे मामवेक्ष्य गुरु मदीयं समुपगत्य केऽपि प्राशसन्त यदवश्यं भवतोऽयं शिष्यं पुष्करो मुनि कविपुष्करो भवेदिति ।

किमपि स्यादहं तु सोत्साहं सन्नात्मनीनां वाणी पुनानो मामकीन-स्याद्याचार्य्यस्य श्रीमतोऽमरसिंहस्य मुनेरेव यशःप्रख्यापकमेकम् 'अमरसूरि काव्यं' व्यरचयम्, किन्तु न जाने अहं कस्मात् कारणात् समुद्रविग्नोऽभवम् । मनसि कमप्यन्यं निश्चयमवलम्ब्याहमेतावन्तं कालं समक्षिप्तुवम् । अथ समयोऽयं महान् बलवानस्ति, किमहं वर्णयेयं यस्य माहात्म्यम् ।

वर्षावासाय गतेऽब्दे पुण्यपत्तनान्महाराष्ट्राद् रायचूरं कार्णाटकमुद्दिश्य विहारमाचरन्नहमधिपथि तमेव निश्चयं समस्मरम् । मामकीनेन मुनिमण्डजेन सह विहरता मयोक्तस्य काव्यस्य स्थाने श्रीमदाचार्य्यामरसिंहनामकस्यास्य पुनरारम्भो व्यधायि । साम्प्रतं सर्वं एव परिचिन्वन्त्येता तु जैनमुनेरिमा प्रक्रिया विहारस्य ।

पदातिरह प्रतिस्थान मार्गं रात्र्यावास समाचर्य दिन एव समयमधि-  
गम्य च श्लोकान् विरच्य मदीयस्य गुरुकुलस्य पण्डित श्रीमन्त रमाशङ्कर-  
शास्त्रिण सगहाय समर्पयम् । अयमपि कविरेवास्ति, पाण्डित्यस्य विषयेऽस्य  
किमु वर्णयेयमहम् । तदेतद् सर्वं तु साक्षात्कारेणैवास्य प्रत्यक्ष लक्ष्यते, किन्तु  
विशिष्टोऽय विदुषा समाजेऽस्त्यहमिम मन्ये । ममैवाय भक्तोऽस्ति, अतोऽस्य  
किमह वैशिष्ट्यमधिक ख्यापयेयम् । यतोऽय स्वय स्वीयां प्रसिद्धिमतिवाह-  
यति ।

सोऽयमस्मिन् काव्ये परमं विशिष्ट योग प्रदाय काव्यमदो व्यवस्थित-  
मकरोत् । तस्मादहमिम सम्पादकमेव व्यवस्थापयम् । निश्चयोऽयमस्ति  
यदस्मिन् काव्ये स्वाभाविकास्त्रुटयोऽवश्य भवेयु । यतो हि जैनो मुनि-  
रहमस्मि, जन्मना ब्राह्मण , तत्रापि वालब्रह्मचारी, सहैवाचतुर्दशवर्षदेशीयो  
दीक्षित, तथापि विद्याव्यवसायादेव यथाकथञ्चिदह व्यवर्णयमिति विचा-  
र्यैव मर्मज्ञा कवयो मामनुगृह्णीयुरित्यप्यह विनयेन सन्तिष्ठे ।

विश्वसिमि पुनरह समुत्साहित सन्नप्यन्यत् काव्य सस्कृतसाहित्य-  
स्यावरमधिकृत्य समुपस्थितो भवेयमिति । करोमि किमह समयस्य पुनरियान-  
भाव मुनिमर्यादामेव पुरस्कृत्याह सस्कारेण ब्राह्मणस्य निष्कारण षडङ्गो  
वेदोऽध्येतव्यश्चेति वृत्यावश्य प्रेरितोऽस्म्येवेति निवेदये—

भवतामेवाहम्—  
पुष्कर मुनिः



# संपादकीय

संस्कृत भाषा-वाङ्मय अत्यधिक प्रशस्त और गौरव पूर्ण है। इस भाषा के कवि भी विश्वकवि के रूप में यशस्वी हुए हैं। संस्कृत भाषा के माधुर्य की प्रशंसा तो विश्व के भाषा-शास्त्री भी मुक्तकण्ठ से करते चले आ रहे हैं। ससार के भाषा-मर्मज्ञ पण्डित-प्रकाण्ड तो संस्कृत को विश्व भाषा मानते हैं।

किन्तु भारत की मूल राष्ट्रीय धारा में संस्कृत की प्रतिष्ठा सर्वमान्य एवं सर्वोत्कृष्ट रही है। अतः भारतीय संस्कृतियों के धर्म-दर्शन और साहित्य के ग्रन्थों के प्रणेताओं ने संस्कृत भाषा को ही प्रामुख्य प्रदान किया। अतएव अधिकारी विद्वान् होने के लिए संस्कृतज्ञान को मानदण्ड के रूप में स्थिर किया गया है।

इस प्रथा के अनुसार मुनिराज श्री पुष्करमुनि महाराज साहब ने सर्वप्रथम संस्कृत का गम्भीर अध्ययन किया और मुनि जीवन के साथ उसका व्यावहारिक उपयोग लिया और लेते आ रहे हैं। प्रकृत में संस्कृत-काव्य की चर्चा का विषय है, इसलिए संस्कृत के ज्ञान का यहाँ वर्णन किया गया है। वैसे मुनिश्री जी अनेक भारतीय भाषाओं के ज्ञाता हैं। यह बात दूसरी है।

आपश्री ने अनेक वर्ष पूर्व संस्कृत में ही अपने सम्प्रदाय के पूज्य आचार्यश्री अमरसिंह मुनि महाराज के विषय में 'अमरसूरिकाव्य' की रचना की थी। उसका प्रकाशन भी हुआ। उससे हृदय को सन्तोष तो मिला, किन्तु परितोष प्राप्त न हो सका। अतएव आपश्री ने यह विचार रख छोड़ा था कि कभी अवसर प्राप्त होगा तो फिर इस काव्य की रचना की जायेगी। सयोग से यह अवसर गतवर्ष रायचूर (कर्णाटक) के वर्षावास पर आपहुँचा, और 'श्रीमदाचार्यामरसिंह महाकाव्यम्' 'अमरसूरिकाव्य' के स्थान पर सजघजकर जम गया। इस बात का उल्लेख आपश्री ने स्वयं अपने काव्य-समर्पण में भी किया है।

मुनिश्री जी हृदय से कवि हैं, स्वभाव से व्याख्याता हैं, प्रयत्न से लेखक और व्यवहार से अनेक भाषामिज्ञ हैं। अपने व्याख्यानो में स्वरचित कविता का पाठ करते हैं। प्रसङ्गत कोई पद अथवा स्तवन किसी अन्य कवि का

स्मरण आ गया, सुना दिया, तो वह कोई दूसरी बात है। शेष, सदा स्वरचित कविता का ही प्रयोग लेते हैं। इसी प्रवृत्ति के वशीभूत हो, आपश्री ने इस काव्य की रचना की है, यह एक स्पष्ट बात है। इस काव्य की कथावस्तु कल्पना के आधार पर नहीं है, अपितु यह स्थानकवासी श्वेताम्बर श्रमणोपासक जैन मुनियों के इतिहास में वर्णित है।

आचार्य श्रीअमरसिंह जी महाराज मरुधर-प्रदेश में उक्त श्रमण-परम्परा के प्रथम प्रवर्तक आचार्य माने गये हैं। आपका जब उक्त प्रदेश में प्रवेश हुआ तब जैन यतिओं का स्थानीय जनता पर बड़ा प्रभाव था। वे अपने अज्ञानान्ध श्रद्धालुओं को स्थानकवासी जैनमुनियों के प्रति कुछ का कुछ समझाकर भडकाते थे। वास्तव में बात यह थी कि ये यति लोग अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल चुके थे और आचरण-च्युत होकर ससार में लिप्त थे। इन जैनमुनियों की उपस्थिति से उनके आचरण की पोल खुलती थी। इसलिए वे स्थानकवासी जैनमुनियों का जान-बूझ कर युक्तियों के द्वारा विरोध करते थे।

एक बार जोधपुर राज्य के दीवान श्री खिवसीजी साहब उस समय के बादशाह वहादुरशाह से किसी राजकीय कार्य के लिए मिलने के लिए देहली पहुँचे थे। उस समय वर्षावास के हेतु से पूज्य श्रीअमरसिंह जी महाराज अपने मुनिसभ के साथ विराज रहे थे। पूज्य श्री के व्याख्यानो की उम्र समय देहली में घूम मची हुई थी। दीवान साहब भी प्रशंसा सुनकर व्याख्यान सुनने पहुँचे। पूज्यश्री समय के प्रभाव से उर्दू-फारसी के माहिर थे। दरवारी दीवान साहब मुनिमहाराज के ध्यान, दर्शन आदि से आकृष्ट होकर प्रायः प्रतिदिन मुनिराजश्री की सेवा में पहुँचने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे वे मुनिमहाराज के भक्त बन गये। जैन तो थे ही सस्कार अच्छे थे, और फिर जोधपुर-राज्य के दीवान, इन सब बातों से मुनिमहाराज भी उनकी पूजा-ताछ का ध्यान रखते थे।

एक दिन वे दीवान साहब बड़े दुःखी-से आचार्यश्री की सेवा में पहुँचे। देखते ही आचार्यश्री ने प्रश्न किया कि आज आप बड़े खिन्न-से दिख रहे हैं ? दीवान साहब ने बताया कि बादशाह ने अपनी कुमारी राजपुत्री के गर्भ रह जाने में प्राणदण्ड का आदेश कर दिया है। साथ ही महलों की देखभाली के सिपाही राजकुमारी को सच्चरित्र और भोली बताते हैं। इससे दरवार का हाल बेहाल हो गया है और उधर बादशाह अपने आदेश को अनेक अनुनय-विनय के रहने पर भी स्थगित किया नहीं चाहते। इस कारण से मुझे दुःख हो रहा है। दूसरे जिस कार्य से मैं यहाँ आया हूँ, उममें भी इस से रुकावट आ गई है। मैं वास्तव में बहुत दुःखी हूँ। इसलिए आपने मुझे दुःखी बताया तो वास्तव में सत्य है।

आचार्यश्री ने स्पष्ट किया कि बिना पुरुष-ससर्ग के भी गर्भस्थिति होती है, ऐसा शास्त्रो मे और वैद्यक-ग्रन्थो मे उल्लेख है। अत मेरे विचार से तो यह गर्भ-स्थिति यथार्थ मे राजसविकार के कारण निस्सार है। देखना कुछ ही मासो मे यह निस्सार राजसमात्र का गर्भ घण्टो मे विकीर्ण हो जायेगा। क्योंकि बिना वीर्य के अस्थि आदि नही बन पाती। स्थिति को देखते हुए आपके बादशाह को प्राणदण्ड स्थगित कर देना चाहिये। यह मुनकर जब दीवान साहब दूसरे दिन दरबार मे उपस्थित हुए तो उन्होने बादशाह को बताया कि मेरे गुरुदेव श्रीअमरसिंह जी महाराज ने फरमाया है कि बिना पुरुष-ससर्ग के भी गर्भस्थिति होती है, जो कुछ ही मासो मे राजस लोथ जैसा फफूंद पैदा होता है, और घण्टो मे विकीर्ण होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए राजकुमारी के प्राणदण्ड को स्थगित कर कथित गर्भ के परीक्षण के लिए प्रतीक्षा की जानी चाहिये। बादशाह ने भी बात की सचाई देखने के लिए प्राणदण्ड को तब तक के लिए स्थगित कर दिया और प्रबन्ध कर दिया कि इसमे किसी प्रकार का कोई पड्यन्त्र न होने पाए।

समय आया, राजस गर्भ का निरीक्षण हुआ, परीक्षण से बादशाह को मुनि-महाराज के कथन की सचाई पर आश्चर्य हुआ। उन्होने दीवान साहब श्रीखिवसीजी से कहा कि मैं स्वयं मुनिमहाराज के दर्शन आपके साथ चलकर करना चाहता हूँ। जानने के लिए बादशाह ने प्रश्न किया कि दीवान साहब ! ये मुनिजी महाराज, कौन है ? कहाँ के है ? और किस धर्म के हैं ? दीवान साहब ने उत्तर दिया कि श्रीमन् ! ये हम जैनो मे से ही एक हैं और इसी देहली के सेठ श्रीदेवसिंहजी साहब के पुत्र हैं। किन्तु आप भरी जवानी मे विवाह होने पर भी सब कुछ छोड, आज्ञा लेकर जैन मुनि हो गए हैं। अब आपका घर-परिवार से कोई सम्बन्ध नही है। केवल आप अत्मकल्याण के मार्ग पर पर आरूढ हैं और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ससारियो को अहिंसा के द्वारा विरक्ति का पाठ पैदल घूम-घूम कर पढाते हैं। वास्तव मे ये महान् सन्त हैं।

बादशाह स्वयं मुनिमहाराज की सेवा मे दर्शन करने के लिए दीवान साहब श्रीखिवसीजी के साथ पहुँचे। मुनिमहाराज ने अपने नियम के अनुसार धर्मध्यान का उपदेश किया और बादशाह ने उपदेश ग्रहण कर प्रतिज्ञा की कि मैं अपने जीवन मे कभी जीवहिंसा नही करूँगा।

ॐ छ समय के बाद दीवान साहब ने आचार्य श्री से मरुधर क्षेत्र के स्पर्श करने के लिए अनेक प्रकार से विनति की। किन्तु विनति पर ध्यान देने से पूर्व आचार्यश्री ने दीवान साहब को बताया कि मरुधर प्रदेश मे सुख-शान्ति के साथ विहार करना बडा कठिन कार्य है। अत विहार करने से पूर्व सभी सम्भाव्य बाधाओ को रोकने के लिए प्रबन्ध आवश्यक है। इस बात को उचित समझकर दीवान साहब ने बादशाह से अवसर पाकर निवेदन किया कि मुनि महाराज मरुधर-



प्रदेश की ओर विहार करना चाहते हैं और उस ओर विहार के लिए मार्ग में अनेक बाधाएँ सम्भावित हैं। इसलिए यदि आपकी ओर से मरुधर-नरेश को सूचनात्मक फरमान भिजवा दिया जाय तो उचित होगा। क्योंकि बादशाह मुनि महाराज के प्रति भक्ति रखने लगे थे। इसलिए वे कहने लगे कि मुनि महाराज यहाँ पर ही विराजें तो अच्छा है। यहाँ क्या कष्ट है? यदि कोई यहाँ पर कष्ट हो तो मुझे बताइये। मैं उसको अभी समाप्त कर देता हूँ। इसलिए मेरे विचार में मरुधर-नरेश को फरमान भेजने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

इस प्रसङ्ग पर बादशाह को बताया गया कि वरसात के चार महीनों के अतिरिक्त जैन मुनि विना कारणविशेष के किसी एक स्थान पर जमकर नहीं बैठ सकते। मुनिधर्म के अनुसार विहार आवश्यक है। यह सुनकर बादशाह ने आवश्यकता के अनुसार मरुधर-नरेश के लिए फरमान भिजवा दिया। जिसमें आचार्यश्री के विहार-मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट न हो और न किसी प्रकार का कष्ट हो। साथ ही आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा का भी प्रबन्ध हो।

इस फरमान के पश्चात् आचार्यश्री अपने मुनिमण्डल के साथ विभिन्न स्थानों, ग्रामों और नगरों में विहार करते हुए देहली से जयपुर पहुँचे। जयपुर में आचार्यश्री के व्याख्यानो का बड़ा प्रभाव पड़ा। जिससे धार्मिक भावना जगी और बड़ी-बड़ी तपस्याएँ, त्याग और दान हुए। त्याग के प्रसङ्ग से साथ धन की सीमा को लेकर सेठ श्री रङ्गलालजी पटवा का नाम आचार्यश्री के माहात्म्य से जुड़ा हुआ है।

जयपुर के एक स्थानक में जहाँ पर आचार्यश्री विराजे हुए थे, सेठ श्री रङ्गलालजी पटवा स्वतः धन की कुछ सीमा करने के लिए उद्यत हुए। दूरद्रष्टा आचार्यश्री ने सेठजी को उद्बोधन देते हुए कहा कि सेठजी धन की सीमा करते समय विचार कर लीजिए। क्योंकि सीमा कर लेने के पश्चात् व्रत भंग न हो यह आवश्यक है। सेठ साहब को अपनी स्थिति को देखते हुए सीमा को बढ़ाने का विश्वास नहीं होता था। अतः वे कहने लगे कि इतने कम धन की सीमा, गुरुदेव ! ठीक ही है। सेठजी के इतना कहने पर भी आचार्यश्री ने पटवा साहब से कहा कि सेठजी अब भी धन की सीमा के सम्बन्ध में चिन्तन कीजिए। कहीं फिर ऐसा न हो कि पीछे पछताना पड़े। अस्तु-धेमन से यह जानकर कि आचार्यश्री फरमा रहे हैं, तो मुझे कुछ और अधिक सीमा बढ़ा देनी चाहिए। फिर कुछ धन की सीमा और बढ़ा दी। अन्त में फिर आचार्यश्री के फरमाया कि देखो सेठ साहब ! अब भी समय है, अब तो सेठजी के आग्रह पर जितना अधिक बटा था, शेष धन का प्रत्याख्यान आचार्यश्री ने करा दिया। कुछ ही दिन प्रत्याख्यान करने के व्यतीत हुए कि सेठ श्रीरङ्गलालजी पटवा के यहाँ रूपयो की वाढ-सी आने लगी। वे अब सोचने लगे, कि गुरुदेव इसीलिए मुझे धन की सीमा पर चिन्तन करने के लिए कह रहे थे। जब

कि मुझे इतने धन की आय का विश्वास नहीं था। किन्तु अब क्या होता है ? उस प्रत्याख्यान के फलस्वरूप सीमा से अधिक आय का दान, पटवा साहब की तहवेली पर होने लगा। पटवा साहब ने स्वयं जहाँ आचार्यश्री विराज रहे थे, वहाँ पहुँच कर, दर्शन कर वन्दना करते हुए श्रावकों के सम्मुख अपनी बात को प्रकट किया।

आगे किशनगढ़, अजमेर स्पर्श करते हुए आचार्यश्री जब चण्डावल पधारे तो फिर जैनयतियों में हल-चल पैदा होने लगी। क्योंकि आचार्यश्री की कीर्ति-पताका सारे मरुधर-प्रदेश में लहराने लगी थी। अब करे भी तो क्या करें ? ये आचार्यश्री तो मरुभूमि पर तूफान होकर चढ़े ही चले आ रहे थे। मरता क्या नहीं करता ? इसलिए उन्होंने सोचा कि न रहे बाँस, न बजेगी बाँसुरी। अतः आचार्यश्री के जीवन की समाप्ति की योजना स्थिर की गई। किन्तु काम भी हो, और मालूम न हो—इस नीति के अनुसार उन्होंने आचार्यश्री की भाव-भक्ति का सहारा लिया। और सोजत नगर को उन्होंने योजना को मूर्तरूप देने का स्थल चुना।

विहार करते हुए आचार्यश्री जब दोपहर समाप्त होते होते सोजत पहुँचे ही थे कि ये बने-बनाए भक्त सामने आए। वन्दना आदि के पीछे आचार्यश्री को मुनिमण्डल के साथ ठहराने की चर्चा करने लगे। और इधर-उधर के स्थानों का नाम लेकर सबसे बढ़िया स्थान अपनी योजना के अनुसार एक मस्जिद, जो कि जिन्द के रहने की वजह से उजड़ी पड़ी थी, आचार्यश्री को सुखसाता का स्थान बताकर जबरन टिका दिया। किन्तु आचार्यश्री इन को ताड गए कि आखिर मुझे मुनिमण्डल के साथ किसलिए ठहराया जा रहा है। साथ ही वे यह भी बताना चाहते थे कि कुछ भी करलो, किन्तु ये तुम्हारे हथकाण्डे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास था। सच्चे तपस्वी और साधक में अपार आत्मबल होता है। वह किसी भी वाधा का डट कर सामना कर सकता है।

योजना के अनुसार वे कृत्रिम भक्त मुनिमण्डल के साथ आचार्यश्री को मस्जिद में ठहरा कर एक-एक करके सटक गए। इधर आचार्यश्री अपने मुनियों के साथ अपने सायन्तन कृत्य के सम्पादन में सलग्न हो गए। धीरे-धीरे सायन्तन कृत्य भी पूर्ण हुए। गुरुसेवा के पश्चात् मुनिजनों भी रात्रि अधिक होने पर अपने-अपने स्थान पर जाकर सो गए, किन्तु आचार्यश्री अकेले अपने ध्यान में मग्न थे। आधी रात बीती होगी कि जिन्द ने अपना उपद्रव प्रारम्भ किया। जिन्द इस बात पर क्रुद्ध था कि आप सब मेरे स्थान पर आकर क्यों ठहरे हैं ? उत्तर न मिलने पर क्रुद्ध जिन्द ने आचार्यश्री के ऊपर अनेक शारीरिक बल प्रयोग किए। किन्तु आचार्यश्री अविचल शान्तभाव से बीजसहित मन्त्र-जप में ही सलग्न रहे। जिन्द इस मस्जिद में ठहरने वाली को सदा-सदा के लिए सुलाता आ रहा था। किन्तु आचार्यश्री के सामने उसकी कुछ भी नहीं चल रही थी। वह अपनी मनमानी

कर-कर के थक गया । किन्तु आचार्यश्री ज्यो-के-त्यो ध्यानस्थ विराजमान है, अन्त में लाचार होकर हाथ जोड़ते हुए, अपने किए पर पछताने लगा और कहने लगा, कि मैंने आपको निरर्थक कष्ट दिया, पर्याप्त शारीरिक यातनाएँ दी, किन्तु मैं फिर भी आपका कुछ न कर सका । इस सबसे मैं बहुत लज्जित हूँ । साथ ही अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ । और फिर आगे अपने आप कहने लगा कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ तो फिर कभी किसी मुनि को यहाँ ठहरने-बसने पर आपत्ति नहीं करूँगा । अमल बात यह है कि मैं आज से इस मस्जिद को छोड़कर जा रहा हूँ । अब यह सदा स्थानक ही रहेगा । मुसलमान इस मस्जिद को अपने-आप छोड़ देंगे ।

इस प्रकार वह जिन्द वहाँ से चला गया । मस्जिद का स्थानक बन गया । जो आज भी मस्जिद का स्थानक के नाम से सोजत नगर में विद्यमान है ।

वे पङ्कनी यतिप्रेरित भक्त धीरे-धीरे प्रभात में वहाँ आकर देखने लगे कि हमारी योजना सफल हुई कि नहीं । उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आचार्यश्री अपने मुनिमण्डल के साथ सानन्द अपनी निर्धारित मुनिक्रियाओं में व्यस्त हैं । यतिप्रेरित वे भक्त अब समझे, कि हमको ऐसे सन्त के प्रति यतियों के जाल में फँसकर कभी कोई कार्य भविष्य में नहीं करना चाहिये । प्रत्युत हमको अपने इस सच्चे मुनि महाराजों की आज्ञा में रहना चाहिये ।

बात कभी कोई छिपी नहीं रहती । इस घटना को जानकर स्थानीय जैन-जगत् एक साथ सजग हो गया । अतएव श्रद्धा भक्ति के साथ श्रावकजन मुनिराजश्री के व्याख्यानवाणी का आनन्द लेने लगे और सत्य सनातन जैनधर्म के तत्त्व को समझ कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे ।

इस प्रकार मरुधर-प्रदेश में एक आन्दोलन-सा उठ खड़ा हुआ कि सत्य जैन-धर्म को पहचान कर आचरण करो और जीवरक्षा के लिए मुखपति आदि का उपयोग लो । इस प्रकार के वायु-वेग को बहते हुए देखकर प्रख्यात यतियों ने स्थिति पर अधिकार पाने के लिए कहना प्रारम्भ किया कि ये सब बातें आगमों और शास्त्रों के विरुद्ध हैं । यदि कोई इस विषय पर शास्त्रार्थ करना चाहता हो तो हम शास्त्रार्थ के लिए कृतमकल्प हैं । जब यह बात धीरे-धीरे फैलती हुई आचार्यश्री के श्रुम कानों तक पहुँची, तो उन्होंने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया । साथ ही यह भी आचार्यश्री ने उद्घोष किया, कि यतिजन जब चाहे तब शास्त्रार्थ कर ले । हम अपनी ओर से मदा सम्रद्ध है ।

यतियों ने अपने प्रमुख विद्वज्जनों को इसके लिए सूचना-पत्र भेजे और साथ ही हमारे प्रयत्न भी किए, जिसमें वे शास्त्रार्थ में सम्मिलित हो । शास्त्रार्थ के लिए स्थान और दिन का निश्चय कर आचार्यश्री को भी सूचित किया गया । सूचना प्राप्त करते हुए आचार्यश्री निर्विलम्ब विहार कर निर्दिष्ट स्थान और समय

पर पहुँचे । एकत्र जनसमूह के सम्मुख आचार्यश्री ने शास्त्रो के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए युक्तियों से भी, मुखपत्ति आदि का औचित्य सिद्ध कर दिया तो भी वे यतिजन सहमत नहीं हुए, प्रत्युत आग्रहवश यही कहते रहे कि मुनिजनो का प्रतिपादन आगमो और शास्त्रो के विरुद्ध है । इस बात को अनुचित समझते हुए विवेकी जनसमूह ने आचार्यश्री अमरमिहजी महाराज की जय हो, कहकर विजेता उद्घोषित कर दिया और जय-जयकार करते हुए नगर भर में आचार्यश्री का स्वागत किया गया ।

इसके पश्चात् हर्ष-शोक से दूर रहने वाले आचार्यश्री ने मरुघर-प्रदेश के छोटे-मोटे सभी ग्रामो का स्पर्श कर पुरातन जैन धर्म की स्थिति-काल के अनुकूल पुनः प्रवर्तना स्थापित की । महस्रो-सहस्रो की सख्या में आचार्यश्री के सम्यक्त्वार्कित शिष्य बने ।

इस ओर आकर दीवान साहब खिबसीजी की जोधपुर पधारने की विनीत ने जोर पकडा । स्थिति पर विचार करते हुए आचार्यश्री अपने मुनिमण्डल के साथ विहार कर जोधपुर पहुँचे । उस समय आचार्यश्री और मुनिमण्डल के स्वागत के लिए स्वयं जोधपुर-नरेश अपने राजमान्य सरदारो और प्रतिष्ठित नागरिको के साथ पधारे । धार्मिक जनता का तो कहना ही क्या । स्त्री-पुरुष सभी हर्ष के साथ स्वागत और दर्शन-वन्दन के लिए उपस्थित थे ।

अन्त में दरवार के आग्रह पर सभी मुनियो के साथ आचार्यश्री को राज-महल के मुख्य द्वार के गोखडे पर ठहराया गया । क्योंकि जोधपुर-नरेश आचार्यश्री के दर्शनमात्र से ही भक्त हो गये थे । था कोई अनूठा चमत्कार उस दिव्यपुरुष में, जो देखते ही उनके भक्त बन जाते थे ।

किन्तु कुछ मनुष्य ऐसे सब स्थानो और समयो से देखे और सुने गये हैं कि जो किसी न किसी रूप में महान् से महान् पुरुष के साथ अकारण दुर्भावनाएँ स्थिर कर लेते हैं, और विरोध अथवा कोई न कोई हेतु खडा कर देते हैं, जिससे कि उस विशिष्ट पुरुष को कुछ तो कष्ट हो । यह युग-युग का लेखा-जोखा है । इधर वैसे भी यतियो के सकेत से घूमने वाले लोग थे ही, कुछ कहा नहीं जा सकता ।

किन्तु जोधपुर-नरेश को इन लोगो ने भिडाया कि जब आप राजमहल के द्वार से पधारते हैं तो आचार्यश्री गोखडे में विराजे रहते हैं, यह तो श्रीमान् का अपमान है । कहते हैं कि दरवार ने पहले तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और कहा कि पूज्य महात्मा हैं, विराजते हैं तो विराजे । इससे हमारा कोई अपमान नहीं होता । किन्तु बार-बार घुमा-फिराकर कहने से उस समय जोधपुरनरेश ने यही अच्छा समझा कि आचार्यश्री को अन्य राजकीय भवन पर ठहरा दिया जाए । जिससे इन सब का बार-बार कहना-सुनना बन्द हो । अन्त में तो वे नरेश ही थे ।

संस्कृतभाषा के साहित्य के लक्षणग्रन्थों के निर्माता आचार्यों ने महाकाव्य के स्वरूप का निर्णय करते समय यह निश्चय किया है, कि किसी धीर उदात्त नायक को लेकर सर्गों में बँधा हुआ प्रबन्ध होना चाहिए। इसलिए मुनिश्रीजी ने अपने आद्य सम्प्रदाय के आचार्य श्रीअमरसिंह मुनिमहाराज का चयन किया है। साथ ही सर्गों की सख्या और आकार की भी निर्वृति की गई है। इससे ऐसा लगता है कि मुनिश्रीजी ने साहित्याचार्यों के निश्चय का यथासम्भव पालन कर काव्य के स्वरूप को उचित दिशा में सँवारने का प्रयत्न किया है। यह बात दूसरी है कि सर्गों के आकार-प्रकार में अन्तर है।

एक विचार है कि यदि कोई खटकती हुई भी बात हो, किन्तु विवशता-विशेष से उसको सह्य मानकर विवेकी साहित्य के आचार्य उस कृति का भी मान करने लगे तो कितना उत्तम हो। ऐसा लगता है कि संस्कृत के साहित्याचार्यों की अनुदारता के कारण संस्कृत के काव्य की मन्दाकिनी का प्रवाह रुका ही नहीं सूख भी गया है। किन्तु समय की माँग है कि संस्कृत के कवियों को मुनिश्रीजी के समान निर्भीक होकर काव्य के प्रवाह को कम से कम सूखने तो नहीं देना चाहिए। प्रवाह अन्वर्थ बन सके तब तो कहना ही क्या है। सम्भवतः ऐसी ही बातों को देखकर किसी नीतिकार ने कहा है—

गच्छत स्वल्पेन क्वापि, भदत्पेव प्रमादत ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र, समावधति साधवः ॥

‘गोपुच्छसमानाकार’ की भावना के अनुसार काव्य का आकार वास्तव में उचित है। क्योंकि पूँछ का आदि भाग मोटा होता है और क्रम से नीचे को पतला होता जाता है। मो बँसा ही आकार इस काव्य का है। क्योंकि पूर्व के सर्गों में मोटे-मोटे छन्द हैं और फिर क्रम से पतले से पतले होते चले गए हैं। और यदि पूँछ के वाले वाले भाग से आकार का सम्बन्ध है, तो भी कोई काव्य के आकार में अन्तर नहीं आता। अभिप्राय यह है कि काव्य का आकार भी निश्चय के अनुसार ही है।

किन्तु कुछ भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी, कि वर्ण्य विषय के अनुसार मुनिश्री जी ने अपने कविकर्तव्य का निर्वाह बड़े सुन्दर ढंग से किया है। इस काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में स्थिर किया जा सकता है, कि नहीं, इसमें भले ही विवाद हो, यह हो सकता है, किन्तु काव्य की प्रतिष्ठा को एक कवि के रूप में मुनिश्री जी ने जिन योग्यता से निभाया है, यह कुछ कम प्रशंसा की बात नहीं है। आज के समय में एक संस्कृत के काव्य की रचना स्वयं में भी कुछ कम स्तुत्य नहीं है।

जहाँ तक काव्य के छन्दों का प्रश्न है, वहाँ तक उत्तर में कहा जा सकता है, कि मुनिश्री जी निरपवाद हैं। छन्दों के नियमों के निर्वाह में परम नैपुण्य की झलक

कोधती-सी जान पड़ती है। इसका प्रमाण है कि काव्य के आदि से अन्त तक देखने पर यतिभङ्ग ढूँढने-से भी नहीं मिलता, गण-दोष की बात तो बहुत दूर की है।

वर्णन के लिए किसी छन्द विशेष की प्रियता स्थिर करना कठिन है। क्योंकि काव्य में उन्होंने यत्र-तत्र इस बात को स्पष्ट कर दिया है, कि किसी भी छन्द में अपने भाव को व्यक्त किया जा सकता है। फिर भी वशस्थ वृत्त और उपेन्द्रवज्रा वृत्त तो आपके सधे हुए-से लगते हैं।

महाकवियों के समान, छन्द पूर्ति के लिए तु, हि, च, स्म, खलु, वै' का प्रयोग मुनिश्री जी की प्रवृत्ति में ही नहीं। अपितु और अर्थ के लिए 'च' का अध्याहार करना पड़ता है, जहाँ परम आवश्यकता ने ही बाधित कर दिया हो, तभी 'च' शब्द का उपयोग किया हो, यह बात कोई और है।

मुनिश्री जी की भाषा सीमित और सरल है, किन्तु वह व्याकरण-सम्मत अवश्य है। साहित्य की विधा से कुछ यह अखरती-सी बात लगती है, किन्तु अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार ही तो व्यक्ति शब्द-योजना कर पाता है। इसलिए भाषा का सीमित विशेषण युक्तियुक्त प्रतीत होता है। संस्कृत के काव्यसाहित्य में इसलिए महाकवि माघ के लिए प्रशंसा के प्रकरण में 'नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते।' कहा जाता है। हमारी कल्पना में यहाँ काकूक्ति है। जैसे कि नवसर्गगते माघे अर्थत् माघरचिते काव्ये नवशब्द अर्थात् नवीन शब्द न विद्यते इति न, अपितु विद्यते एव।

इतने पर भी दुरूहार्थता का नाम नहीं लिया जा सकता, यह मुनिश्री जी की एक विशेषता है। साथ ही दूरान्वयिता अवश्य है, इस बात का प्रतिवाद भी नहीं किया सकता। किन्तु सहृदय कविजन —

'एको हि दोषो गुणसन्निपाते, निमज्जतीन्दो किरणेष्विवाङ्क' के न्याय से इसको सह सकेंगे, ऐसा विश्वास हम कर सकते हैं।

पुनरपि संस्कृत के व्याकरण के नियम बड़े जटिल हैं। इनसे यशस्वी महाकवि भी उलझे बिना नहीं रहे। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं समझ लेना चाहिए, कि उन्होंने जान-बूझ कर व्याकरण के नियम की उपेक्षा की, किन्तु स्वाभाविक रूप में उपेक्षा बन गई। इसके साथ व्याकरण ऐसा उपकारक भी है कि उनके समाधान का उपाय भी बता देता है। इतने पर भी एक महाकवि के प्राशस्त्य में व्याकरण के नियम का निर्वाह भी सगृहीत। इस दृष्टि से देखें तो यह काव्य स्तरगत है, ऐसा प्रतीत होता है। 'किन्तु, किन्तु' की कुटिलता से कौन बचा है और बच सकता है!

अत एव गण-व्यतिरेक और पद की प्रतिष्ठा नहीं बच सकी। तथापि प्रजातन्त्र के समान कवितन्त्र में बहुमत का आदर होता है। इसलिए जो एक बार चुन लिया गया, वह चुन गया। तदनुसार गण और पद एव इट् और अनिट् जहाँ चिन

दूसरे दीवान साहब श्री खिवसीजी भी वहाँ नहीं थे, कोई नरेश को समझाता भी तो कैसे समझाता। इस प्रकार विरोधियों का यह पड्यन्त्र सफल हुआ। नरेश का आदेश हुआ कि आचार्यश्री को आदर के साथ अन्य किसी राजकीय भवन में ठहरा दिया जाना चाहिये।

पड्यन्त्र का पता तब चला, जबकि आचार्यश्री को उनके मुनियों के साथ आसोप ठाकुर साहब की हवेली में ठहराया गया। स्मरणीय बात यह है कि यह स्थान भी सोजत नगर की मस्जिद से भी अधिक विकट था। यह स्थान अपने नाम पर पहले ही में कलङ्कित था। इस स्थान पर बसने अथवा ठहरने वाले अनेक प्राणी अपने प्रिय प्राणों की आहुति दे चुके थे। कारण यह था कि इस के निर्माता ठाकुर साहब मरने के पश्चात् पिशाच बनकर इस हवेली में आ जमे थे। ऐसे दुष्प्रसिद्ध स्थान पर आचार्यश्री को ठहराया गया।

यहाँ पर मुनियों के साथ आचार्यश्री दिन में तो सुख-शान्ति के साथ विराजे, किन्तु रात्रि में पिशाच का घोर उपद्रव प्रारम्भ हुआ। क्रूर पिशाच ने अपनी पैशाचिकता का अतिरेक कर दिया। किन्तु आचार्यश्री ने अपने आत्मबल, तप और जप से सब शारीरिक यातनाएँ सह ली और पिशाच ने भी अपना पराजय मान लिया। अन्त में स्वतः पिशाच ने कहा कि अच्छा आप तो यहाँ ठहर सकेंगे, किन्तु स्त्रियों को फिर भी नहीं आने देंगे। आचार्यश्री ने उत्तर दिया कि जहाँ हम ठहरते हैं, वहाँ पर स्त्री-पुरुष सभी आते हैं और हम किसी को मना नहीं करते। तब फिर पिशाच ने कहा, अच्छा स्त्रियाँ भी आ सकेंगी, किन्तु मामिकघर्म से युक्त स्त्रियाँ तो फिर भी नहीं आ सकेंगी। इस पर भी आचार्यश्री से फरमाया कि हम इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कौन किस स्थिति में है यह हम नहीं जान सकते। इस पर पिशाच ने कहा, कि इस बात को मैं देख लूँगा, किन्तु आप तो सानन्द विराजिए।

कुछ भी हो, आचार्यश्री अपने मुनिमण्डल के साथ जब तक जोधपुर नगर में विराजे, वहाँ ही विराजे थे। यह आज भी हवेली विद्यमान है। वहाँ पर वह पाट भी आज तक विद्यमान है, जिस पर विराज कर आचार्यश्री व्याख्यान फरमाते थे। कहते हैं कि पाट का एक पाया, जो पिशाच ने तोड़ डाला था, शान्त होने पर उसने ही जिमको छोड़ा था, वैसा का वैसा आज भी उस स्थान में प्रस्तुत है।

दीवानसाहब श्री खिवसीजी राजकीय कार्य समाप्त कर जब जोधपुर पहुँचे, तो सदा के अनुमान महल के द्वार के गोखडे पर आचार्यश्री के दर्शन करने के लिए गए। पहुँचने पर उन्हें बताया गया कि आचार्यश्री ने यहाँ से आसोप ठाकुर साहब की हवेली के लिए प्रस्थान कर दिया है। उन्हें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि वे वहाँ पर कैसे ठहराये गए हैं? क्योंकि उनको उस स्थान की वास्तविकता का परिचय

था। वे उसी समय आचार्यश्री के दर्शन करने के लिए पहुँचे और आचार्यश्री को सानन्द सुख-शान्ति के साथ विराजते हुए देखकर प्रसन्न हुए।

उन्होंने स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए पूज्यश्री से अधिक आग्रह किया कि यह सब ऐसा कैसे हुआ ? किन्तु पूज्यश्री ने सब प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया कि यहाँ पर आनन्द ही आनन्द है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हम यहाँ नहीं आते तो जोधपुर के स्पर्श करने में कमी रह जाती। इस घटना से आचार्य श्री की महत्ता का सकेत प्राप्त होता है।

पूज्यश्री बड़े प्रभावी व्याख्याता आचार्य थे। उन्होंने हजारों भूले-भटके लोगों को सही रास्ता दिखाया और भ्रान्तियाँ दूर कर उन्होंने मानव जाति का जो उपकार किया है, उसके लिए मरुघर-प्रदेश साक्षी एवं ऋणी है।

उनके मरुघर प्रदेश के प्रवेश के समय बड़ी विकट स्थिति थी। कोई-यतियों के पाखण्डों के विरोध में अपना मुख नहीं खोल सकता था। ऐसी स्थिति में भी आचार्य श्री अमरसिंह जी महाराज ने स्थानकवासी जैन मुनियों के मार्ग को प्रशस्त किया और श्रमण परम्परा की पुनः स्थापना की, यह उत्कर्ष आचार्यश्री के चरित्र में और भी श्रीवृद्धि करता है। वैसे उन्होंने मुनिराजों में अनेक स्वस्थ परम्पराओं का श्रीगणेश किया, इस बात को ऐसा कौनसा जैनमुनि-सम्प्रदाय है, जो नहीं जानता !

उपर्युक्त कथावस्तु से सम्बद्ध कतिपय अन्य विशेषताओं का मुनिश्रीजी ने यथास्थान सूत्ररूप में वर्णनात्मक परिचय दिया है। यह इस काव्य के अध्ययन से विवेकी विद्वज्जन स्पष्ट रूप में अवगमन कर आनन्दित हो सकते हैं—ऐसा हमारा विश्वास है।

अन्त में आचार्य श्रीअमरसिंहजी महाराज को आद्यसम्प्रदाय का आचार्य मानकर आचार्यपट्टावली प्रस्तुत की गई है। पट्टाघर आचार्य की विशेषता का भी चित्रण किया गया है, यह इस पट्टावली की विशेषता है। अधिक जानने के लिए कृपया पट्टावली देखिए।

साथ ही उक्त कथावस्तु में वर्णन के साहाय्य के लिए मुनिश्रीजी ने कवि के अधिकार के अन्तर्निहित योगी जैसे पात्र की विशेष सृष्टि के द्वारा पात्र की विशेषता को व्यक्त किया है, जिससे रोचकता प्रतीत होती है।

इसके स्पष्ट करने का अभिप्राय यह है कि इतिहास के पृष्ठों पर अक्षरित वृत्त से इस शश का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह काव्य है और काव्य के सौष्ठव के लिए कल्पना का विशेष अधिकार कवि के अधिकार क्षेत्र में स्वतन्त्र निहित है। इसलिए इतिहास के अक्षरित वृत्त को कवि के विशेषाधिकार की परिधि का उल्लंघन करने का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए—यह हमारा सविनय अनुरोध है।



मस्कृतभाषा के माहित्य के लक्षणग्रन्थों के निर्माता आचार्यों ने महाकाव्य के स्वरूप का निर्णय करने समय यह निश्चय किया है, कि किमी धीर उदात्त नायक को लेकर मर्गों में बंधा हुआ प्रवन्ध होना चाहिए। इसलिए मुनिश्रीजी ने अपने आद्य सम्प्रदाय के आचार्य श्रीअमरसिंह मुनिमहाराज का चयन किया है। साथ ही मर्गों की सहाय और आकार की भी निर्वृति की गई है। इसमें ऐसा लगता है कि मुनिश्रीजी ने माहित्याचार्यों के निश्चय का यथामुम्भव पालन कर काव्य के स्वरूप को उचित दिशा में सँवारने का प्रयत्न किया है। यह बात दूसरी है कि मर्गों के आकार-प्रकार में अन्तर है।

एक विचार है कि यदि कोई खटकती हुई भी बात हो, किन्तु विवशता-विशेष में उसको मध्य मानकर विवेकी माहित्य के आचार्य उस वृत्ति का भी मान करने लगे तो कितना उत्तम हो। ऐसा लगता है कि संस्कृत के माहित्याचार्यों की अनुदारता के कारण संस्कृत के काव्य की मन्दाकिनी का प्रवाह रुका ही नहीं सूख भी गया है। किन्तु समय की माँग है कि संस्कृत के कवियों को मुनिश्रीजी के समान निर्भीक होकर काव्य के प्रवाह को कम से कम सूखने तो नहीं देना चाहिए। प्रवाह अन्वर्थ वन मके तब तो कहना ही क्या है। सम्भवतः ऐसी ही बातों को देखकर किसी नीतिकार ने कहा है—

गच्छत. स्वल्पेन क्वापि, भदत्पेव प्रमादत ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र, समादधति साधवः ॥

‘गोपुच्छसमानाकार’ की भावना के अनुसार काव्य का आकार वास्तव में उचित है। क्योंकि पूँछ का आदि भाग मोटा होता है और क्रम से नीचे को पतला होता जाता है। मो वसा ही आकार इस काव्य का है। क्योंकि पूर्व के मर्गों में मोटे-मोटे छन्द हैं और फिर क्रम से पतले में पतले होते चले गए हैं। और यदि पूँछ के वाले वाले भाग से आकार का सम्बन्ध है, तो भी कोई काव्य के आकार में अन्तर नहीं आता। अभिप्राय यह है कि काव्य का आकार भी निश्चय के अनुसार ही है।

किन्तु कुछ भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी, कि वर्ण्य विषय के अनुसार मुनिश्री जी ने अपने कविकर्तव्य का निर्वाह बड़े सुन्दर ढंग से किया है। इस काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में स्थिर किया जा सकता है, कि नहीं, इसमें भले ही विवाद हो, यह हो सकती है, किन्तु काव्य की प्रतिष्ठा को एक कवि के रूप में मुनिश्री जी ने जिस योग्यता से निभाया है, यह कुछ कम प्रशंसा की बात नहीं है। आज के समय में एक संस्कृत के काव्य की रचना स्वयं में भी कुछ कम न्युत्य नहीं है।

जहाँ तक काव्य के छन्दों का प्रश्न है, वहाँ तक उत्तर में कहा जा सकता है, कि मुनिश्री जी निरपवाद हैं। छन्दों के नियमों के निर्वाह में परम नैपुण्य की झलक

कोधती-सी जान पड़ती है। इसका प्रमाण है कि काव्य के आदि से अन्त तक देखने पर यतिमङ्गल ढूँढने-से भी नहीं मिलता, गण-दोष की बात तो बहुत दूर की है।

वर्णन के लिए किसी छन्द विशेष की प्रियता स्थिर करना कठिन है। क्योंकि काव्य में उन्होंने यत्र-तत्र इस बात को स्पष्ट कर दिया है, कि किसी भी छन्द में अपने भाव को व्यक्त किया जा सकता है। फिर भी वशस्थ वृत्त और उपेन्द्रवज्रा वृत्त तो आपके सघे हुए-से लगते हैं।

महाकवियों के समान, छन्द पूर्ति के लिए 'तु, हि, च, स्म, खलु, वै' का प्रयोग मुनिश्री जी की प्रवृत्ति में ही नहीं। अपितु और अर्थ के लिए 'च' का अध्याहार करना पड़ता है, जहाँ परम आवश्यकता ने ही बाधित कर दिया हो, तभी 'च' शब्द का उपयोग किया हो, यह बात कोई और है।

मुनिश्री जी की भाषा सीमित और सरल है, किन्तु वह व्याकरण-सम्मत अवश्य है। साहित्य की विधा से कुछ यह अखरती-सी बात लगती है, किन्तु अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार ही तो व्यक्ति शब्द-योजना कर पाता है। इसलिए भाषा का सीमित विशेषण युक्तियुक्त प्रतीत होता है। संस्कृत के काव्यसाहित्य में इसलिए महाकवि माघ के लिए प्रशंसा के प्रकरण में 'नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते।' कहा जाता है। हमारी कल्पना में यहाँ काकूक्ति है। जैसे कि नवसर्गगते माघे अर्थत् माघरचिते काव्ये नवशब्द अर्थात् नवीन शब्द न विद्यते इति न, अपितु विद्यते एव।

इतने पर भी दुरूहार्थता का नाम नहीं लिया जा सकता, यह मुनिश्री जी की एक विशेषता है। साथ ही दूरान्वयिता अवश्य है, इस बात का प्रतिवाद भी नहीं किया सकता। किंतु सहृदय कविजन —

'एको हि दोषो गुणसन्निपाते, निमज्जतीन्दो किरणेष्विवाङ्गु' के न्याय से इसको सह सकेंगे, ऐसा विश्वास हम कर सकते हैं।

पुनरपि संस्कृत के व्याकरण के नियम बड़े जटिल हैं। इनसे यशस्वी महाकवि भी उलझे बिना नहीं रहे। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं समझ लेना चाहिए, कि उन्होंने जान-बूझ कर व्याकरण के नियम की उपेक्षा की, किन्तु स्वाभाविक रूप में उपेक्षा बन गई। इसके साथ व्याकरण ऐसा उपकारक भी है कि उनके समाधान का उपाय भी बता देता है। इतने पर भी एक महाकवि के प्राशस्त्य में व्याकरण के नियम का निर्वाह भी सगृहीत। इस दृष्टि से देखें तो यह काव्य स्तरगत है, ऐसा प्रतीत होता है। 'किन्तु, किन्तु' की कुटिलता से कौन बचा है और बच सकता है!

अत एव गण-व्यतिरेक और पद की प्रतिष्ठा नहीं बच सकी। तथापि प्रजातन्त्र के समान कवितन्त्र में बहुमत का आदर होता है। इसलिए जो एक बार चुन लिया गया, वह चुन गया। तदनुसार गण और पद एव इट् और अनिट् जहाँ चिन

गये, चिन गये । यह हो सकता है कि वे मन्त्रि-मण्डल में सम्मिलित न किये जाएँ, तो भी वे गण और पद के हित में चुने हुए सदस्य उपकारक तो हैं ही । इस प्रकार वे भी अपना महत्व रखते हैं । क्योंकि वे काव्य में चिन गये हैं । व्याकरणरूप जनता ने इस प्रकार के निर्वाचन में अपने समाधान का मत व्यक्त कर दिया है ।

भाव अधिक स्पष्ट हैं । इसलिए पढ़ने के साथ आगे क्या है ? इसके जानने की इच्छा होती है । अर्थ में परिज्ञान में किसी प्रकार के बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता । क्योंकि सरस, मरल और प्रयुक्त शब्दों के वाक्यों की रचना सर्वाधिक है । किन्तु वर्णन के साथ व्यंग्य अर्थ स्वतः अभिव्यक्त होता है, यह बात तो इस काव्य के लिए सुवर्ण में सुगन्ध का कार्य करती है । अतः एव प्रसाद गुण की विशेषता है । शान्त रस प्रधान हैं, किन्तु प्रसंगात् अन्य रस भी सहकारी बने हुए हैं । इस बात को हम काव्य के उद्धरण के साथ प्रस्तुत करें, यह हम उचित नहीं समझते । क्योंकि हम को आपकी योग्यता पर अपनी योग्यता से अधिक विश्वास है । दूसरे वह समीक्षा के क्षेत्र के अधिकार की बात है । सम्पादक के क्षेत्र के अधिकार को अतिक्रमण करने का व्यर्थ में साहस क्यों करना चाहिए ?

अलङ्कारों के समावेश की मुनिश्रीजी को कोई चिन्ता नहीं है । तथापि अनेक अलङ्कार शब्द और अर्थ की प्रधानता के साथ वर्णन से आकृष्ट होकर प्रविष्ट हो गए हैं । सम्भवतः हमारे इस कथन पर सहसा विश्वास न भी हो, भले ही न हो, किन्तु काव्य में अर्थान्तरन्यास तो बलान् प्रवेश प्राप्त कर ही रहा है, क्या कोई इस काव्य को देखकर निषेध कर सकता है ? यहाँ पर भी हम उद्धरण प्रस्तुत नहीं करेंगे । क्योंकि काव्य आपके सम्मुख है । सम्भवतः इन सब बातों को लेकर ही महाकवि जगन्नाथ पाण्डितराज ने कहा है कि—

‘न हि कस्तूरिकामोद शपथेन विभाव्यते ।’

सम्प्रति सबके अन्त में सम्पादन का भार मुझ जैसे अनाधिकारी व्यक्ति पर रखकर पूज्य मुनिश्रीजी ने अनाधिकारी को अधिकारी होने का आशीर्वाद दिया है । मुनिश्रीजी महाराज गुरुदेव भी हैं, उपाध्याय भी हैं, अध्यात्मयोगी भी हैं और सर्वाधिक ध्यानतपोऽधिराज हैं, इसलिए—

मूक करोति वाचाल पद्मं लड्डुघयते गिरिम् ।

यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥

जैसा दृश्य उत्पन्न हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । किन्तु अल्पज्ञ होने के कारण हृदय में थोड़ा-बहुत सकोच तो है ही ।

परन्तु वास्तविक प्रेरक एव विशेषोत्साहक श्रीयुत देवेन्द्र मुनिजी महाराज हैं । आप श्री स्वयं विशिष्ट साहित्य मनीषी, जैन साहित्य, दर्शन, आगम और शास्त्रों के

तो प्रतिभावान् अधिकारी लेखक है ही, किन्तु प्रकारान्तर से हिन्दी साहित्य की मूक सेवा के भी उपासक हैं, सो इन मुनि महाराज ने, जो गुरुदेव के प्रधान शिष्य है, सकेत दिया कि गुरुदेव जिस काव्य की यथास्थिति रचना करते जा रहे हैं, आप उसको देखकर सकलित करते चलिए ।

इस प्रकार सम्पादन का कार्य रायचूर (कर्णाटक) में वर्षावास पर पूर्ण हुआ । मुनिजन पदविहार के समय सभी बातों का ध्यान रखते हैं और विभिन्न प्रकार के परीपह धारण करते हैं, यह आजनवेद्य विषय है । इन परिस्थितियों के रहते हुए भी गुरुदेवश्री की काव्यसाधना, उनके सस्कृत भाषा के अनुराग का एक उदाहरण है ।

भविष्य में भी एक महाकाव्य की रूपरेखा का विखरा हुआ चित्र गुरुदेवश्री के मानस-पटल पर छाया हुआ है, उसे मूर्तरूप देने के लिए धीरे-धीरे प्रयत्न चल रहा है । आशा ही नहीं, विश्वास है, कि वह प्रयत्न सस्कृत-काव्य-भंडार की श्री वृद्धि में सहायक होगा और धार्मिक जनता के स्वाध्याय का अवलम्बन होगा ।

किमधिक विद्वत्सु—

दीपावली }  
वर्षावास }  
बेंगलूर }

रमाशंकर शास्त्री

[सम्पादक]





उदार-अर्थ सहयोगी

## श्री धनराजजी चुन्नीलालजी बाठिया : एक परिचय

भारतीय सस्कृति के मननशील मनीषियो ने जीवन के सम्बन्ध में गहराई से चिन्तन करते हुए कहा है 'जीवन खिले हुए फूल की तरह सुगन्धित होना चाहिए, जो अपनी मधुर सौरभ से दिग्दिगन्त को सुवासित करता रहै। तप, जप, ध्यान, दान, शील भाव आदि सद्गुणों से जीवन महकता रहै।

प्रस्तुत कसौटी पर जब हम धर्मप्रेमी सुश्रावक धनराज जी बाठिया के जीवन पर चिन्तन करते हैं तो उनका जीवन एक परम यशस्वी जीवन प्रतीत होता है।


आपका जन्म पूना जिले के औध नामक ग्राम में दिनाङ्क २ मार्च १९२२ में हुआ। आपका अध्ययन हाईस्कूल तक हुआ। उसके पश्चात् 'टैलरिंग कोर्स' में विशेष योग्यता प्राप्त की और आपने सन् १९६० में रेडिमेड कपड़े बनाने के लिए कार्य प्रारम्भ किया। आज आपकी फर्म में सौ से भी अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। फर्म का नाम है के० जी० बाठिया ब्रादर्स, ८६।१ भवानी पेठ, पुणे (महाराष्ट्र) ४११००२। आप बिन्नी मिल्स (मद्रास) के होलसेल वितरक भी हैं। आपने अपने प्रबल पुरुषार्थ से व्यापार में चार चाँद लगाए हैं। आपका स्वभाव बहुत ही मिलनसार, मधुर है। साथ ही आप सच्चरित्रनिष्ठ व्यक्ति हैं। जैन धर्म के प्रति आपकी गहरी निष्ठा है और अन्य धर्म सम्प्रदायों के प्रति भी आपके मन में सहानुभूति है। अनेक सामाजिक, धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि है और यथाशक्ति आप सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं।

आपकी धर्मपत्नी का नाम झमकावाई है, जो अत्यन्त भद्र प्रकृति की धर्म परायणा महिला है। आपको सदा धार्मिक कार्यों के लिए सहयोग और प्रेरणा प्रदान करती रहती है। आपके तीन सुपुत्र हैं, गुलाबचन्द जी, फूलचन्द जी, और सुहासचन्द जी। ये तीनों भाई त्रिमूर्ति की तरह हैं। आपका सम्पूर्ण परिवार परम श्रद्धेय सदगुरुवर्य प्रसिद्धवक्ता राजस्थान केसरी अध्यात्मयोगी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है।

श्री अमरसूरि काव्य ग्रन्थ रत्न के प्रकाशनार्थ आपका हार्दिक अर्थ सहयोग हमें संप्राप्त हुआ है तदर्थ हम सस्था की ओर से आपका आभार मानते हैं। पूर्व भी आपका सहयोग सदा मिलता रहा है और भविष्य में भी सदा मिलता रहेगा, इसी मंगल आशा के साथ पुनः आभार मानता हूँ।

—चुन्नीलाल धर्मावत





गुरुभक्त, उदारचेता, धर्मप्रेमी, सुश्रावक  
श्रीमान धनराज जी चुन्नलाल जी बांठिया  
[ पूना ]







## श्रद्धा के दो बोल

परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजीम० स्थानकवासी जैन समाज के एक जगमगाते नक्षत्र हैं। वे जीवन के अमर कलाकार हैं। वे पारस पुरुष हैं, उनके सम्पर्क में आते ही जीवन में पाप की कालिमा नष्ट हो जाती है और पुण्य की पावन प्रभा जगमगाने लगती है।

सन् १९७५ के पूना वर्षावास के सुहावने अवसर पर मैं सद्गुरुवर्य के निकट सम्पर्क में आया। उसके पूर्व भी उनके दर्शन किये थे पर सेवा का लाभ नहीं ले सका था। जब से मैं और मेरा परिवार सद्गुरु देव श्री के सम्पर्क में आया तब से हमारे जीवन में एक अभिनव परिवर्तन हो गया है। धर्म के प्रति सहज लगाव हो गया है। महापुरुषों के जीवन की यह महान विशेषता है कि उनके जीवन का कण-कण और अणु-अणु प्रेरणा प्रदान करता है। सद्गुरु श्री का जीवन प्रेरणा का पावन स्रोत है।

श्रद्धेय सद्गुरु देव के विराट् काय अभिनन्दन ग्रन्थ में मैं अपनी अनन्त श्रद्धा सद्गुरुवर्य के पावन चरणों में समर्पित करना चाहता था पर ग्रन्थ छप चुका था इसलिए चाहते हुए भी मैं अपने विचार-पुष्प समर्पित न कर सका, किन्तु आपश्री की असीम कृपा से प्रस्तुत ग्रन्थ रत्न के प्रकाशन में 'पत्र पुष्प' के रूप में अर्थ सहयोग प्रदान करने का सुनहरा अवसर मुझे सम्प्राप्त हुआ एतदर्थ मैं अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हूँ।

सद्गुरुदेव की असीम कृपा मेरे पर और मेरे परिवार पर रही है। जिसके फल स्वरूप हम प्रतिपल प्रतिक्षण प्रगति के पथ पर निरन्तर बढ़ रहे हैं। उनकी अपार छत्रच्छाया हमारे पर सदा बनी रहे यही मेरी उनके श्रीचरणों में सविनय प्रार्थना है।

—धनराज चुन्नीलाल वाठिया, पूना

## काव्यम्

इदं पुरा कल्पितमेवमासीद्,  
अवाप्तकाले रचना-विशेषम् ।  
कृतेऽपि काव्ये पुनरेव काव्यम्,  
रचेयमेवं मनसोऽनुकूलम् ॥

पुनर्मयैतद् रचितं सुकाव्यम्,  
शुभेषु मासेषु चतुर्षु वृष्टे ।  
न्यवासि कर्णाटक-राज्यकान्तर-  
गते पुरे सम्प्रति रायचूरे ॥

अतो मया वर्णितमेतदेवम्,  
मनःप्रसादाय पुनर्मुनीनाम् ।  
विपश्चितां चित्तमुपासितुं वा,  
निरेनसो मे मनसस्तृषायै ॥

न नाम सामर्थ्यमिहेदमाप्तम्,  
कवेश्चमत्कारिकृतेर्मयाहो !  
तथापि क।चिन्मम शब्दसृष्टिर्-  
भवेदमीषां विदुषां समाजे ॥

समर्प्यतेऽन्तःकरणेन तेन,  
प्रकृष्टभावेन मया नतेन ।  
गुरोः प्रभोर्मे तपसो विधातुः,  
पदाब्जयोस्तारकचन्द्रनाम्नः ॥

## प्रथमः सर्गः<sup>१</sup>

( १ )

रागद्वेषौ विषमविषयौ शत्रुरूपौ विजित्य ,  
ज्ञाता जातः सकलजगतो वस्तुजातस्य पूज्यः ।  
शक्रादीनामपि दिविषदां भारतीनामधीश . ,  
तीर्थेशस्तं भुवनविदित त्रैशलेयं नमामि ॥

अन्वयः—(यो) भारतीनामधीश शक्रादीना दिविषदा देवाना पूज्य , तीर्थेश्वरो भगवान् शत्रुरूपौ विषमविषयौ रागद्वेषौ विजित्य सकल-जगतो वस्तुजातस्य ज्ञाता जातः, तमेतादृश भुवनविदित त्रैशलेय त्रिशलाया अपत्य पुमास वर्द्धमान पुष्करमुनिरह नमामि ।

अर्थ—जो वाणियो के स्वामी, इन्द्र आदि देवताओ के पूज्य तीर्थेश्वर भगवान् शत्रु जैसे विषम विषय वाले राग और द्वेष को जीत कर समस्त ससार की वस्तुओ के ज्ञाता बने, ऐसे विश्वविख्यात त्रिशला माता के पुत्र उन वर्द्धमान को, मैं पुष्करमुनि प्रणाम करता हूँ ।

( २ )

सत्सु श्रेष्ठं श्रुतिमतिर्युत ज्ञानिगुण्येषु वन्द्यम् ,  
लक्ष्मीवन्तं प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति प्रसिद्धम् ।  
नत्वाचार्यं श्रमणममर सिंहमेवाभिधानम् ,  
तस्यैवैतच्चरितमतुल तायते वित्तवृत्तम् ॥

अन्वयः—श्रुतिमतिर्युत ज्ञानिगुण्येषु वन्द्य प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति प्रसिद्ध सत्सु श्रेष्ठम् आचार्यम् अमरसिंहाभिधान नत्वा, पुष्करमुनिना मया तस्य एव एतद् वित्तवृत्तम् अतुल चरित तायते ।

अर्थ—श्रुति और मति से युक्त, ज्ञानियो के गुणियो मे वन्दनीय, समितियो के पालक, गुप्तियो के साधक, प्रसिद्ध सन्तवर आचार्य अमरसिंहमुनि महाराज को प्रणाम कर, मुझ पुष्करमुनि के द्वारा उन आचार्य महाराज का ही यह जाना हुआ अनुपम चरित विस्तृत किया जा रहा है ।

१ सर्गोऽस्मिन् 'मन्दाक्रान्ता म्मी न्तो त्गौ ग् समुद्रतु'स्वरा' श्रीपिङ्गलाचार्यस्य च्छन्द शास्त्रात् सूत्रमेतत् ।

# अनुक्रमणिका

१ प्रथम सर्ग	३
२ द्वितीय सर्ग	२१
३ तृतीय सर्ग	४६
४ चतुर्थ सर्ग	६३
५ पचम सर्ग	७२
६ षष्ठः सर्ग	९६
७ सप्तम सर्ग	११४
८ अष्टम. सर्ग	१२६
९ नवम सर्ग	१३८
१० दशमः सर्ग	१५९
११ एकादश सर्ग	१८०
१२ द्वादश सर्ग.	२००
१३ त्रयोदश सर्ग	२१२



## काव्यम्

इदं पुरा कल्पितमेवमासीद्,  
अवाप्तकाले रचना-विशेषम् ।  
कृतेऽपि काव्ये पुनरेव काव्यम्,  
रचेयमेव मनसोऽनुकूलम् ॥

पुनर्मयंतद् रचितं सुकाव्यम्,  
शुभेषु मासेषु चतुर्षु वृष्टेः ।  
न्यवासि कर्णाटक-राज्यकान्तर-  
गते पुरे सम्प्रति रायचूरे ॥

अतो मया वर्णितमेतदेवम्,  
मनःप्रसादाय पुनर्मुनीनाम् ।  
विपश्चितां चित्तमुपासितुं वा,  
निरेनसो मे मनसस्तृषायै ॥

न नाम सामर्थ्यमिहेदमाप्तम्,  
कवेश्चमत्कारिकृतेर्मयाहो ।  
तथापि काचिन्मम शब्दसृष्टिर्-  
भवेदमीषां विदुषां समाजे ॥

समर्प्यतेऽन्तःकरणेन तेन,  
प्रकृष्टभावेन मया नतेन ।  
गुरोः प्रभोर्मे तपसो विधातुः,  
पदाब्जयोस्तारकचन्द्रनाम्नः ॥

## प्रथमः सर्गः'

( १ )

रागद्वेषौ विषमविषयौ शत्रुरूपौ विजित्य ,  
ज्ञाता जातः सकलजगतो वस्तुजातस्य पूज्यः ।  
शक्रादीनामपि दिविषदा भारतीनामधीशः ,  
तीर्थेशस्तं भुवनविदितं त्रैशलेय नमामि ॥

अन्वयः—(यो) भारतीनामधीशः शक्रादीनां दिविषदा देवानां पूज्यः, तीर्थङ्करो भगवान् शत्रुरूपौ विषमविषयौ रागद्वेषौ विजित्य सकल-जगतो वस्तुजातस्य ज्ञाता जातः, तमेतादृश भुवनविदित त्रैशलेय त्रिशलाया अपत्य पुमास वर्द्धमान पुष्करमुनिरह नमामि ।

अर्थ—जो वाणियो के स्वामी, इन्द्र आदि देवताओं के पूज्य तीर्थङ्कर भगवान् शत्रु जैसे विषम विषय वाले राग और द्वेष को जीत कर समस्त ससार की वस्तुओं के ज्ञाता बने, ऐसे विश्वविख्यात त्रिशला माता के 'पुत्र' उन वर्द्धमान को, मैं पुष्करमुनि प्रणाम करता हूँ ।

( २ )

सत्सु श्रेष्ठं श्रुतिमतिर्युत ज्ञानिगुण्येषु वन्द्यम् ,  
लक्ष्मीवन्तं प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति प्रसिद्धम् ।  
नत्वाचार्यं श्रमणममरं सिंहमेवाभिधानम् ,  
तस्यैवैतच्चरितमतुल तायते वित्तवृत्तम् ॥

अन्वयः—श्रुतिमतिर्युत ज्ञानिगुण्येषु वन्द्य प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति प्रसिद्ध सत्सु श्रेष्ठम् आचार्यम् अमरसिंहमभिधान नत्वा, पुष्करमुनिना मया तस्य एव एतद् वित्तवृत्तम् अतुल चरित तायते ।

अर्थ—श्रुति और मति से युक्त, ज्ञानियो के गुणियो मे वन्दनीय, समितियो के पालक, गुप्तियो के साधक, प्रसिद्ध सन्तवर आचार्य अमरसिंहमुनि महाराज को प्रणाम कर, मुझ पुष्करमुनि के द्वारा उन आचार्य महाराज का ही यह ज्ञाता हुआ अनुपम चरित विस्तृत किया जा रहा है ।

१ सर्गोऽस्मिन् 'मन्दाक्रान्ता म्भौ न्तौ त्गौ ग् समुद्रतु'स्वरा' श्रीपिङ्गलाचार्यस्य च्छन्द शास्त्रात् सूत्रमेतत् ।

## प्रथमः सर्गः<sup>१</sup>

( १ )

रागद्वेषौ विषमविषयौ शत्रुरूपौ विजित्य ,  
ज्ञाता जातः सकलजगतो वस्तुजातस्य पूज्यः ।  
शक्रादीनामपि दिविषदा भारतीनामधीशः ,  
तीर्थेशस्तं भुवनविदितं त्रैशलेय नमामि ॥

अन्वयः—(यो) भारतीनामधीशः शक्रादीनां दिविषदा देवानां पूज्यः, तीर्थेश्वरो भगवान् शत्रुरूपी विषमविषयौ रागद्वेषौ विजित्य सकल-जगतो वस्तुजातस्य ज्ञाता जातः, तमेतादृश भुवनविदित त्रैशलेय त्रिशलायां अपत्य पुमास वर्द्धमान पुष्करमुनिरह नमामि ।

अर्थ—जो वाणियो के स्वामी, इन्द्र आदि देवताओं के पूज्य तीर्थेश्वर भगवान् शत्रु जैसे विषम विषय वाले राग और द्वेष को जीत कर समस्त संसार की वस्तुओं के ज्ञाता बने, ऐसे विश्वविख्यात त्रिशला माता के 'पुत्र' उन 'वर्द्धमान' को, मैं पुष्करमुनि प्रणाम करता हूँ ।

( २ )

सत्सु श्रेष्ठं श्रुतिमतिर्युत ज्ञानिगुण्येषु वन्द्यम् ,  
लक्ष्मीवन्त प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति प्रसिद्धम् ।  
नत्वाचार्यं श्रमणममर सिंहमेवाभिधानम् ,  
तस्यैवैतच्चरितमतुल तायते वित्तवृत्तम् ॥

अन्वयः—श्रुतिमतिर्युत ज्ञानिगुण्येषु वन्द्य प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति प्रसिद्ध सत्सु श्रेष्ठम् आचार्यम् अमरसिंहाभिधान नत्वा, पुष्करमुनिना मया तस्य एव एतद् वित्तवृत्तम् अतुल चरित तायते ।

अर्थ—श्रुति और मति से युक्त, ज्ञानियो के गुणियो मे वन्दनीय, समितियो के पालक, गुप्तियो के साधक, प्रसिद्ध सन्तवर आचार्य अमरसिंहमुनि महाराज, को प्रणाम कर, मुझ पुष्करमुनि के द्वारा उन आचार्य महाराज का ही यह ज्ञाता हुआ अनुपम चरित विस्तृत किया जा रहा है ।

१ सर्गोऽस्मिन् 'मन्दाक्रान्ता म्मौ न्ती त्गौ ग् समुद्रतुंस्वरा' श्रीपिङ्गलाचार्यस्य च्छन्द शास्त्रात् सूत्रमेतत् ।



( ३ )

मध्ये द्वीपं ललितरचन सर्वं सौविध्यलीलम् ,  
 दिल्लीत्याख्य प्रथितधरिणीपालभालेतिवृत्तम् ।  
 विश्वख्यात नगरमतिभ राजते भारतीयम् ,  
 इन्द्रप्रस्थ व्यलसदिह वा साम्प्रत लोकतन्त्रम् ॥

अन्वयः— प्रथितधरिणीपालभालेतिवृत्त सर्वसौविध्यलील ललित-  
 रचन मध्येद्वीप विश्वविख्यातम् अतिभ नगरम् अस्ति । अस्ति भवन्तीत्यपर-  
 प्रयुज्यमानोऽप्यस्तीति न्यायात् । इह वा कदापि इन्द्रप्रस्थ व्यलसत्, साम्प्रत  
 भारतीय लोकतन्त्र राजते ।

अर्थ जिसमे प्रसिद्ध राजाओ के मस्तको का इतिहास है, एव सब सुवि-  
 धाओ की लीला है, जिसकी सुन्दर रचना है, ऐसा द्वीप के मध्य मे ससार का जाना-  
 माना चमकता हुआ दिल्ली नाम का नगर है । यहाँ पर कभी इन्द्रप्रस्थ शोभित  
 था । आज यहाँ भारतीय लोकराज्य प्रतिष्ठित है ।

( ४ )

दिल्लीत्याख्ये विततनगरे लब्धकीर्त्तौ सुवशे ,  
 ओसावाले प्रसितमहिमावाप्तधीर्देवसिहः ।  
 जातस्तस्य प्रथितयशसि द्योतयन्त्यां सुपत्न्याम् ,  
 लोके ख्यातोऽमरशिशुरयं सूनुरत्न श्रियां सः ॥

अन्वयः— दिल्लीत्याख्ये विततनगरे लब्धकीर्त्तौ, ओसावाले सुवशे  
 प्रसितमहिमावाप्तधी, देवसिहो जात । तस्य द्योतयन्त्या प्रथितयशसि  
 सुपत्न्या श्रियाम् अय जात, स सूनुरत्न लोके, अमरशिशु ख्यात (अभवत्) ।

अर्थ— दिल्ली नामक विशाल नगर मे प्रसिद्ध ओसावाल वंश मे सदातन के  
 महत्त्व से प्राप्त बुद्धि वाले सेठ देवसिंहजी उत्पन्न हुए थे । उनकी झलकती हुई  
 कीर्त्तिमती धर्मपत्नी कमलादेवी (लक्ष्मीबाई) की कुक्षि से जो पुत्ररत्न हुआ, वह यह  
 अमर शिशु है, यही अमरसिंहमुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए ।

( ५ )

प्राप्योत्पत्तिं सघनविपिने सिंहशावोऽप्यधीरः ,  
 पारे कृत्य सृजति सहसा भीमकाये गजेन्द्रे ।  
 तद्वद् बालोऽमरशिशुरय युक्तिमद्भिर्वचोभिः ,  
 चामत्कृत्यं नयति विदुषां मण्डलं रञ्जनाय ॥

**अन्वयः**—सघनविपिने उत्पत्तिं प्राप्य अपि अधीर सिंहशावो भीम-  
 काये गजेन्द्रे सहसा पारेकृत्य सृजति, तद्वद् अमरशिशु अय बाल युक्ति-  
 मद्भिर्वचोभिः विदुषा मण्डल रञ्जनाय चामत्कृत्यं नयति ।

**अर्थ**—जैसे कि सघन वन में उत्पन्न होकर सिंह का चञ्चल वच्चा भीम  
 जैसे शरीर के हाथी पर एक साथ आक्रमण कर ठिकाने लगा देता है, उसीप्रकार  
 अमरसिंह छोटे बालक होते हुए भी युक्तियुक्त वचनों से विद्वत्समाज को प्रसन्न रखने  
 के लिए चमत्कार दिखाते थे ।

( ६ )

विद्यां प्राप्तो भवति सतताभ्यस्तपाठो मनुष्यः ,  
 विद्योद्योगः फलति न सदा कर्मबद्धस्य तस्य ।  
 दृष्टो जन्यैः कतिपयदिनैर्लब्धविद्योऽमरोऽयम् ,  
 भव्यो जीवो जनयति मुदं पूर्वपुण्याप्तजन्मा ॥

**अन्वयः** - सतताभ्यस्तपाठ मनुष्य विद्या प्राप्तो भवति, (किन्तु)  
 कर्मबद्धस्य तस्य सदा विद्योद्योग न फलति । (किन्तु) जन्यै दृष्ट , (यत्)  
 अयम् अमर कतिपय दिनैर् लब्धविद्य (अभवत्) । (यत्) पूर्वपुण्याप्तजन्मा  
 भव्य जीव मुद जनयति ।

**अर्थ**—निरन्तर पढ़े हुए का अभ्यास करने वाला मनुष्य विद्या प्राप्त करता  
 है अर्थात् पढ़-लिखकर विद्वान् हो जाता है । किन्तु सभी इस प्रकार पढ़-लिखकर  
 विद्वान् नहीं हो पाते, क्योंकि कर्मों से बंधा हुआ मनुष्य विद्या के उद्योग में सदा  
 सफल हो, यह नहीं हो पाता । किन्तु लोगो ने देखा कि यह अमरसिंह कुछ ही  
 दिनों में पढ़कर विद्वान् हो गया । देखा गया है कि पूर्वपुण्य से जन्म लेकर ही भव्य  
 प्राणी हर्ष पैदा करता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा नहीं कर सकता ।

( ७ )

पारं लब्ध्वा मुनिवर गुणग्रन्थियुक्तस्य शीघ्रम् ,  
 क्षोद क्षेमं मनसि जनयन् शास्त्रतत्त्वस्य राशेः ।  
 भ्रामं भ्रामं कृतमतिरसौ संयमे वद्धदृष्टिः ,  
 जातस्तं तु प्रभवति तदा कर्मवाहो विवाहः ॥

अन्वयः—मुनिवरगुणग्रन्थियुक्तस्य शास्त्रतत्त्वस्य राशे पार शीघ्र लब्ध्वा मनसि क्षोद-क्षेम जनयन् भ्राम भ्राम कृतमति असौ भवति, तदा संयमे वद्धदृष्टि जात । किन्तु त कर्मवाह विवाह प्रभवति ।

अर्थ—मुनिवरो के गुणों की गाँठ से युक्त शास्त्रों के तत्त्व के समूह के पार को शीघ्र पाकर मन में क्या छोड़ना और क्या रखना इसको विचारता हुआ धूम-धूमकर पक्का हो जाता है तो फिर वह अमरसिंह मयम के विषय में ही विचार को दृढ़ कर लेता है । किन्तु तब उस पर कर्मों को होने वाला विवाह प्रभाव डालने लगता है ।

( ८ )

पित्रोराज्ञां शिरसि कुरुते प्राकृतः पूरुषोऽपि ,  
 प्राप्तादेशो विनयमनुग कर्त्तुं मन्यत्कथ स्यात् ।  
 भव्याकारो गुणगणतनुः कामलेयोऽमरोऽयम् ,  
 हेतोस्तस्मात्परिणयममुं धत्तुं भव प्रवृत्तः ॥

अन्वयः—प्राकृत पूरुषोऽपि यदा पित्रो आज्ञा शिरसि कुरुते, तदा विनयम् अनुग प्राप्तादेश अन्यन् कर्त्तुम् कथ स्यात् । तस्मात् हेतोः गुण-गणतनुः भव्याकार कामलेय अयम् अमरसिंह एवम् अमुम् परिणय धत्तुं प्रवृत्तः (अभवत्) ।

अर्थ—गाधारण मनुष्य नी जत्र अपने माना-पिता के आदेश को शिर पर धारण करता है तत्र विनयी आज्ञाकारी अमरसिंह भला किस प्रकार टाल सकते थे । इसी कारण से अत्यन्तगुणी गुन्दर जनीर कमला माता के पुत्र थे अमरसिंह इस विवाह को धत्तुंकार करने के लिए प्रवृत्त हुए ।

( ६ )

कर्मोत्पन्न प्रभवति जनं कर्तुं मेवोच्चनीचम् ,  
 तच्चैवेमं रचयति परं सार्वभौमप्रवाहम् ।  
 तस्मादन्यत् किमपि न तथा सारभूतं समर्थम् ,  
 तेना—बद्धोऽमर उदवहद् श्रीमती धर्मपत्नीम् ॥

अन्वयः—कर्म (कर्तुं) उत्पन्न जनम् उच्च-नीच कर्तुं प्रभवति । तत् कर्म च इमम् परम् सार्वभौमप्रवाह रचयति । तस्मात् अन्यत् किम् अपि तथा सारभूत समर्थं न (अस्ति) । तेन आबद्ध अमरसिंहः श्रीमती-धर्म-पत्नीम् उदवहत् ।

अर्थ—कर्म उत्पन्न हुए मनुष्य को ऊँच-नीच बनाने के लिये प्रभाव डालता है, और वही कर्म इस दूसरे सर्वप्रभुत्व सम्पन्न प्रवाह की रचना करता है । इससे अन्य कोई भी मूल के समान समर्थ नहीं है । अतः उस कर्म से घिरे हुए अमरसिंह ने शोभाशालिनी कन्या से विवाह किया ।

( १० )

भुक्त्वा भोगान् नियमितरतीन् याति लोको विरक्तिम् ,  
 विश्वस्येम प्रकटनियम कोऽतिगन्तुं सुशक्तः ।  
 अस्तीत्येवं कथमपि तथाप्यन्यथा कर्तुं मेतम् ,  
 आश्चर्यं मे पुनरपि नरो भोगवृत्तिं तनोति ॥

अन्वयः—लोक नियमितरतीन् भोगान् भुक्त्वा विरक्तिं याति, इमम् प्रकटनियमं कः अतिगन्तुं सुशक्तः (अस्ति) ? अर्थात् न कोऽपि सुशक्तोऽस्ति । एवम् अस्ति इति, तथापि एतन् नियमम् अन्यथा कर्तुं नरः भोगवृत्तिं तनोति अतो मे आश्चर्यम् (अस्ति) ।

अर्थ—मनुष्य नियमित दाम्पत्यादि प्रेम के भोगों को भोगकर विरक्त हो जाता है, अर्थात् ससार के ये रागरग उसको सब नीरस जान पड़ते हैं । यह ससार का अटल नियम है तो भी कुछ मनुष्य ससार के अटल नियम को टालने में लगे हुए हैं । प्रश्न यह है कि क्या कभी कोई अटल नियम को बदल सकता है ? अर्थात् नहीं बदल सकता । इतने पर भी मनुष्य नियम बदलने के लिये भोगवृत्ति को बढ़ाता ही जा रहा है, यह मुझे आश्चर्य लगता है ।

( ११ )

अन्ह्येकस्मिन् स्वयमयमहो चिन्तितो यातयाम् ,  
 प्रातर्वक्तु प्रभवति सदा मानसं दुःखमेतद् ।  
 पित्रोरग्रे कथितमपि तद् किन्तु वैराग्यमेवम् ,  
 मन्तु तस्य व्यथितमनसस्तौ समर्थौ न जातौ ॥

अन्वयः—अहो एकस्मिन् अह्नि स्वयम् अयं चिन्तित यातयामः  
 (आसीत्) तदा प्रातः पितो अग्रे मानसं दुःखं वक्तुं प्रभवति, एतत् कथितम्  
 अपि तद् तस्य व्यथितमनसः दुःखं वैराग्यम् (अस्ति) एव मन्तु तौ समर्थौ न  
 जातौ ।

अर्थ—अरे एक दिन स्वयं यह अमरसिंह चिन्तित हो रात्रि को व्यतीत कर  
 प्रातः माता-पिता के सामने जब मन के दुःख को कहने लगता है तो इस कहने पर  
 वह, उम दुःखी का दुःख वैराग्य है, इस प्रकार मानने के लिये वे दोनों माता-पिता  
 समर्थ नहीं हो पाए ।

( १२ )

श्रावं श्रावं त्वमरविरतेर्वृत्तमेतत्प्रवृत्तम् ,  
 पित्रोश्चित्तं सृजति सरणिं कामसङ्गानुवृत्ते ।  
 दृष्ट्वा सर्वं विरतहृदयो ज्ञाततत्त्वोऽमरोऽसौ ,  
 जानात्येतत् सहजमतिकृद्-प्रेम पाशस्य कृत्यम् ॥

अन्वयः—अमरविरते एतत् प्रवृत्तम् वृत्तं श्रावं श्रावं पित्रोश्चित्तम्  
 कामसङ्गानुवृत्ते सरणिम् सृजति । एतत् सर्वं दृष्ट्वा ज्ञाततत्त्वं असौ अमरः  
 सहजमतिकृद्-प्रेमपाशस्य कृत्यं जानाति ।

अर्थ—अमरसिंह की उदासीनता के फँसे हुए इस समाचार को बार-बार  
 सुनकर उसके माता-पिता का हृदय कामवासना के धन्वे के मार्ग को रचने लगता है,  
 अर्थात् इस अमरसिंह को समार मोह-जाल में फँसा देना चाहिए । जिससे कि इसकी  
 उदासीनता नष्ट हो । किन्तु इस सबको देखकर वह अनुभवी अमरसिंह स्वाभाविक  
 बुद्धि के द्वारा रचे गये प्रेम के फन्दे के कृत्य को समझ लेता है कि यह सब किसलिये  
 क्यों किया जा रहा है ।

( १३ )

श्रुत्वा माता वचनमभितः शोशुचाना निदानम् ,  
 पुत्र प्राह व्यथनकदनं केन किञ्चित् किमुक्तम् ।  
 किं वा दुःखं यदितिसदने कारणं वा तदन्यत् ,  
 यस्माज्जातमनसि सरले तत्त्वमेतद् विचित्रम् ॥

अन्वयः—अभित वचनं श्रुत्वा निदानं शोशुचाना माता पुत्रं प्राह, (यत्) केन किञ्चित् व्यथनकदनं उक्तं किम्? वा इह सदने दुःखं किम्? वा अन्यत् कारणम्? यस्मात् सरले मनसि एतत् विचित्रं तत्त्वं जातम् ।

अर्थ—इधर-उधर की बात को सुनकर मूलकारण को सोचती हुई माता ने पुत्र से कहा, कि क्या कभी किसी ने व्यथा एव अपमानजनक कुछ कह दिया है? अथवा अपने इस घर में कोई कष्ट है? या कोई दूसरा कारण है? जिससे कि तेरे सरल मन में यह अनोखी विरक्ति की बात समा गई है ।

( १४ )

गार्हस्थ्यं ते परमसुखदं स्वर्गसौन्दर्ययुक्तम् ,  
 यस्मै देवा विहितविधयो रोरुचन्तीति नित्यम् ।  
 सिद्ध्यन्त्येव गृहवसतयः साधवो धर्मदेहा ,  
 किं वैचित्र्यं श्रमणशरणे शासने मारमारे ॥

अन्वय—परमसुखदं स्वर्गसौन्दर्ययुक्तं ते गार्हस्थ्यम् (अस्ति, यस्मै (गार्हस्थ्य्याय) विहितविधयः देवा अपि नित्यं रोरुचन्ति इति । एव तु गृहवसतयः धर्मदेहा साधवः अपि सिद्ध्यन्ति । (अतः) मारमारे श्रमणशरणे शासने वैचित्र्यं किम् ?

अर्थ—परम आनन्ददायक स्वर्ग के सौन्दर्य से युक्त तेरा यह गार्हस्थ्य जीवन है । जिस गार्हस्थ्य के आनन्द के लिये अनेक उपाय करनेवाले देवता भी बार-बार इच्छा प्रकट करते हैं । मैं ऐसा मानती हूँ कि घर में रहने वाले भी धर्मप्राण साधुजन सफल होते हैं, तब फिर काम को जीतने वाले साधु रक्षक हैं जिसके ऐसे शासन में ही कौन-सी विशेषता है? जिसके लिये तू इतना लालायित है ।

( १५ )

सौभाग्यं मे यदिह भवने यादृशो रूपवांस्त्वम् ,  
 पौत्रोऽपि स्यान्नयनशयनस्तादृशः शोभनीय ।  
 लक्ष्मीरम्या तव सुगृहिणी चन्द्रिकेवाभिरामा ,  
 आशातन्तु. परमसुगमो जीवमात्रं रुणद्धि ॥

अन्वयः—(यत् ) तव लक्ष्मीरम्या चन्द्रिका इव अभिरामा सुगृहिणी (अस्ति) । यत् इह भवने यादृश रूपवान् त्वम् (अस्ति), तादृश नयनशयन शोभनीय पौत्र अपि स्यात्, तदा मे सौभाग्य (भवेत्) । (यत् ससारे) आशातन्तु. परमसुगम, (अस्ति) (तस्माद् अयम्) जीवमात्रं रुणद्धि ।

अर्थ—क्योकि तेरी लक्ष्मी के समान सुन्दर और चन्द्रिका के समान रूपवती पत्नी है, इसलिये इस घर मे जैसा तू रूपवान है, वैसा ही अत्यन्त रूपवान् पौत्र भी हो जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूँ । क्योकि ससार मे आशा का डोरा अधिक सुगम है, उससे यह डोरा जीवमात्र को बाँधता रहता है । (यत् यदि मैं ऐसी आशा करूँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । क्योकि मैं भी उसी आशा से बाँधी हुई हूँ ।)

( १६ )

सौविध्यं ते परमशुभगं सर्वसौभाग्यशीलम् ,  
 साधव्य स्यान्निखिल सुखकृत् कैश्यसंहारकारि ।  
 दौढ्य<sup>१</sup> शीलं यदपि परम वन्दनीय शिरोभि- ,  
 लालाटिक्यं- कथमपि न ते शोभते रोचते मे ॥

अन्वयः—माताहि स्वतो विवृणोति यत् ते कैश्यसंहारकारि साधव्य-सर्व सौभाग्यशील परमशुभग निखिलसुखकृत् सौविध्य स्यात् (एतदह मन्तु शक्नोमि) । तदपि (च) दौढ्य शील शिरोभि परम वन्दनीय (स्यात्) (एत-दपि वोद्धुमह शक्नोमि), (इद) लालाटिक्य ते शोभते (शोभताम्), किन्तु मे कथमपि न रोचते ।

अर्थ—माता ही स्वतः विवरण करती है कि—यह तेरा केशो को उखाड़-फेंकने वाला साधुत्व सर्वसौभाग्यवाना उत्तम सौविध्य हो, (हो सकता है, यह मैं मान लेती हूँ, और) जो भी दुख के साथ ध्यानमाधना का कर्म है, वह भी हो, (यह भी मैं समझ सकती हूँ ।) यह भिक्षाकारित्व तुझे शोभता हो तो मल ही शोभ, किन्तु मुझे कैसे भी नहीं रचता ।

( १७ )

तैरस्कार्यं यदि तव तथा धर्मपत्न्या कृत स्यात् ,  
 ननम्यन्ते शुभगगतयः शोभना शीलवत्य ।  
 नार्योऽनेका परिणयशत दूरतश्चार्थयन्ते ,  
 ईषद्धास्यं तव यदि भवेत् स्वीकृतेरेव चिह्नम् ॥

अन्वय — पुनरप्यग्रे माता कथयति—यदि तव तथा धर्मपत्न्या तैर-  
 स्कार्यं कृत स्यात्, (तदा कापि चिन्ता न कार्या) । यत् शुभगगतयः शोभनाः  
 शीलवत्य अनेका नार्य ननम्यन्ते । दूरतः च (अनेका नार्य ) परिणयशतम्  
 अर्थयन्ते । तव यदि ईषत् हास्य भवेत् — (तर्हि अह तव) स्वीकृते चिह्न  
 (मन्स्ये) किन्तु विरक्तिरिय हातव्येत्यर्थ ।

अर्थ—आगे फिर भी माता कहती है कि— यदि तेरा तेरी उस पत्नी ने तिर-  
 स्कार किया हो (तो भी कोई चिन्ता नहीं की ,जानी चाहिये) । क्योंकि शुभगति  
 वाली सुन्दर शीलवती अनेक स्त्रियाँ झुक-झुक नमन करती हैं और दूर से ही अनेक  
 स्त्रियाँ सँकड़ो विवाह चाहती है । तेरा यदि थोड़ा मुस्कराना ही हो—(तब मैं तेरी)  
 स्वीकृति का संकेत (मान लूँगी) । किन्तु तुझे यह विरक्ति छोड़ देनी चाहिये ।

( १८ )

तत्कत्तुं स्यां भवति सुखद यत्परैरप्यलभ्यम् ,  
 सौकर्यं ते भवतु परमं कामभोग्यं सदाहम् ।  
 किन्तुत्सर्गं कथमपि कृथा मेतिकारं गृहस्य ,  
 भाग्यङ्कार तदिति जननी देहबन्धं रुरोद ॥

अन्वयः— पुनरपि माता कथयति—यत् परै अपि अलभ्यम् (अस्ति),  
 तत् ते परम सुखद कामभोग्य सौकर्यं भवतु—(इति) अहम् सदा कत्तुं स्याम्,  
 किन्तु गृहस्य उत्सर्गम् इतिकार मा कृथा । (अन्ते, जननी तदिति भाग्य-  
 ङ्कार देहबन्ध रुरोद ।

अर्थ—फिर भी माता कहती है कि—जो दूसरो से भी अलभ्य है, ऐसी  
 वस्तु तेरे लिये अधिक आनन्ददायक इच्छानुसार सुलभ हो सकती है— ऐसा मैं सदा  
 करने को तत्पर हूँ, किन्तु घर का परित्याग सदा के लिये नहीं कर । इतना कहने  
 पर अमरसिंह की माता भाग्य का नाम ले लेकर अमरसिंह को छाती से लगा कर  
 रोने लगी ।



( १६ )

मात. सत्यं यदपि गदितं किन्तु तथ्यं न चैतत् ,  
 भाग्ये नाप्तं भवति सकल जीवनं मानवीयम् ।  
 रूपं लब्ध तदपि सफल गीयते यस्य पुण्यम् ,  
 पारे पुण्य यदतिपरम मोक्षरूप प्रशस्तम् ॥

अन्वयः पुत्रो मातर सान्त्वयति—मात । यदपि गदित सत्यम् (अस्ति) किन्तु एतद् च न तथ्यम् (अस्ति) मानवीय सकल जीवन भाग्येन आप्त भवति । यस्य पुण्य गीयते, (तस्य) तदपि सफल रूपम् जातम् (अस्ति) इति (कथ्यते) (किन्तु) पारे पुण्य यद् (अस्ति) (तत्) अतिपरम प्रशस्त मोक्ष-रूपम् (अस्ति) अतोऽह तु मोक्षमिच्छामि नान्यदित्यर्थ ।

अर्थ—पुत्र माता को सान्त्वना देता है कि अरी माँ ! तूने जो कुछ कहा, वह सत्य है, किन्तु फिर भी वह जैसा चाहिये, वैसा नहीं है । यह तो सभी मानते हैं कि मानव सम्बन्धी जीवन भाग्य से मिलता है, किन्तु उसमें भी पुण्य का गीत गाया जाता है कि जो पुण्यवान् है, वह उस सफल रूप को पाता है । और कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि पुण्य से भी परे सर्व महान् प्रशस्त मोक्षरूप है । इसलिये मैं तो मोक्ष चाहता हूँ और दूसरा कुछ नहीं— इसका यह अर्थ है ।

( २० )

सम्पच्चक्रं जगति विदितं वर्त्तते पापमूलम् ,  
 पापादेव भवति विषमो जीवहन्ता जनानाम् ।  
 तद्रूपाप्ते रति परिचयाज्जायतेऽसत्यदृष्टिः ,  
 दृष्ट्यभ्यस्तो नृभवमपि तत्स्वर्गमेवं स वेद ॥

अन्वयः - पुत्र एव पुनर्मातर कथयति—जगति सम्पच्चक्र विदित पापमूल वर्त्तते । एव पापात् विषमो जीवहन्ता भवति । अतिपरिचयात् तद्रूपाप्तेः एका दृष्टि जायते, दृष्ट्यभ्यस्तः स नरभवम् अपि स्वर्गं वेद ।

अर्थ—पुत्र ही फिर माता को कहता है, कि—जगत् में सम्पत्तियों का चक्र जाना हुआ पाप का कारण है । और इसी प्रकार पाप से मनुष्य मनुष्यों का दुर्दान्त प्राणिघातक बनता है । अत्यन्त ससर्ग से उस प्राणिघातकता से एक दृष्टि उत्पन्न होती है, उस दृष्टि का अभ्यस्त वह मनुष्य, मनुष्य-जन्म को भी स्वर्ग जानता है ।

( २१ )

श्रुत्वा तथ्यं समुचितमिदं तस्य माता प्रसन्ना ,  
 प्रत्यासन्न जनसमुदय व्याहरन्तीत्यशोचत् ।  
 द्रष्टव्य यत्किमिव हृदयं जातमस्यामरस्य ,  
 जैनं ज्ञानं प्रभवति जनं त्यागिनं त विधातुम् ॥

अन्वयः—इदं समुचितं तथ्यं श्रुत्वा 'द्रष्टव्यम्, अस्य अमरस्य हृदयं किम् इव जातम्, इति' प्रत्यासन्न जनसमुदयं व्याहरन्ती तस्य प्रसन्ना माता अशोचत्—यत् जैनं ज्ञानं त जनं त्यागिनं विधातुं प्रभवति ।

अर्थ—इस समुचित तथ्य को सुनकर, 'देखिये, इस अमरसिंह का हृदय कैसा क्या हो गया है' ऐसा पास में खड़े हुए जनसमूह को—कहती हुई उसकी प्रसन्न माता सोचने लगी कि जिन भगवान् का ज्ञान मनुष्य को त्यागी बनाने के लिए प्रभाव रखता है ।

( २२ )

पिता चोक्तं न किमपि घृतं तत्त्वमस्तीति जैने ,  
 ज्ञाने सत्यं किमपि यदि यद् वर्त्तते सास्त्र्याहिंसा ।  
 आहिंस्य किं भवति तु तदोल्लङ्घ्यते शासनं मे ,  
 स्पष्टं ज्ञानं त्वयि यदि भवेच्छासनं लङ्घयेस्त्वम् ॥

अन्वयः—मातुः कथनान्तर-पित्रा च उक्तं (यत्) जैने ज्ञाने किमपि तत्त्वघृतं नास्ति, यदि किमपि (तस्मिन्) यद् सत्यं वर्त्तते सा अहिंसा अस्ति । यदि त्वयि (अहिंसायाः) स्पष्टं ज्ञानं भवेत् (तदा) त्वं किं (मदीयं) शासनं लङ्घये ? यदा मे शासनं उल्लङ्घ्यते, तदा किम् आहिंस्य भवति ? अर्थात् मदीयस्य शासनस्योल्लङ्घनात् हिंसा भवति-इत्यर्थः ।

अर्थ—माता के कहने के पीछे—पिता ने और कहा कि जैन ज्ञान में कुछ तत्त्वघरा हुआ नहीं है, यदि कुछ (उसमें) सत्य जो है, वह अहिंसा है । यदि तुझ में (अहिंसा का) स्पष्ट ज्ञान होता, (तब) तू क्या (मेरे शासन को लांघता ? (अर्थात् नहीं) ) (जब) मेरा शासन लांघा जाता है तो क्या अहिंसा होती है ? अर्थात् मेरे शासन के उल्लंघन से हिंसा होती है—यह इसका अर्थ है ।

( २३ )

शास्त्रे प्रोक्तस्तनुज इति यः पितृदेवोऽस्ति चासौ ,  
 आदिष्टः सश्चरति सदसत् कर्म वाऽऽलं विधातुम् ।  
 सत्पुत्रस्त्व कुरु मम यथादेशमेवं तथेति ,  
 सेवा पित्रोर्भवति सतत सर्वथा वन्दनीया ॥

अन्वयः—पुनरप्यन्ते पिता कथयति-य शास्त्रे तनुज पितृदेव इति उक्त (अस्ति), असौ आदिष्ट सन् सत् वा असत् कर्म विधातुम् अल चरति (स,) सत्पुत्र अस्ति । मम च त्व सत्पुत्र. (अस्ति), इति एव यथादेश तथा कुरु । (यतो हि) पित्रो सेवा सतत वन्दनीया (भवति) ।

अर्थ—फिर भी अन्त मे कहता है कि शास्त्र मे पुत्र को पितृदेव ऐसा बताया गया है, और वह आदेश प्राप्त कर सत् अथवा असत् कर्म करने के लिए तत्पर रहता है, सत्पुत्र कहा जाता है । और तू मेरा सत्पुत्र है, इसलिये मैं जैसा आदेश कहूँ, वैसा ही कर । (क्योकि) माता-पिता की सेवा सदा वन्दनीय होती है ।

( २४ )

तत्त्वं सर्वं निखिलमिति तद् पितृपादैर्यदुक्तम् ,  
 ज्ञात मन्येऽशरणशरणं सारभूतं न जातु ।  
 अन्तर्भूतं मुनिजनवरैस्तत्त्वविद्भिर्दुक्तम् ,  
 बाह्यं दृश्य न किमपि तथा यादृशः शुद्ध आत्मा ॥

अन्वयः—पितृपादै यद् उक्तम्, निखिलतत्त्व ज्ञातम् इति, तत् (अहम्) अशरणशरण मन्ये, (किन्तु) जातु सर्वं सारभूत न (अस्ति) तत्त्व-विद्भि मुनिजनवरै यद् उक्तम्, तत् अन्तर्भूतम् अस्ति, किन्तु तत् किमपि बाह्य दृश्य न (अस्ति) । यादृश शुद्ध आत्मा अस्ति, तथा (अन्य कोऽपि नास्तीत्यर्थं । (अत आत्मज्ञानमेष्टव्यमित्यस्यायमर्थं) ।

अर्थ—पिताजी ने जो कहा—आद्युपान्त तत्त्व समझा—ऐसा मानिये, उसको मैं अगतिकगति मानता हूँ, (किन्तु) कदाचित् सब सारभूत नहीं है । तत्त्व-वेत्ता मुनिजनवरो ने जो बताया, वह सब इसके भीतर है । किन्तु वह कुछ भी बाह्य दृश्य नहीं है । जैसा कि शुद्ध आत्मा होता है, वैसा (अन्य कोई नहीं है) । (अत आत्मज्ञान चाहिये—इसका यह अर्थ है ।)

( २५ )

कोऽपि प्राणी परिजनवृतः कर्मभिः प्राप्तहर्षः ,  
 धन्यमन्यश्चलति पथि यो व्योमदृष्टिः सदर्पः ।  
 याते काले तुदति सतत भेषजाधार एष ,  
 सोऽय प्राणी निजकृतिवशान् कर्मभोगान् भुनक्ति ॥

अन्वय —अमरसिंह कथयति—दृश्यते—क अपि परिजनवृतः कर्मभिः प्राप्तहर्षः प्राणी धन्यमन्य अस्ति, य पथि व्योमदृष्टिः सदर्प चलति, (किन्तु) काले याते स एव भेषजाधार सन् सतत तुदति । (एतेन ज्ञायते)—अय प्राणी निजकृतिवशान् कर्मभोगान् भुनक्ति ।

अर्थ—अमरसिंह कहता है कि देखा गया है—कोई परिजनो से घिरा हुआ कर्मों से आनन्दित मनुष्य अपने आपको धन्य मानता है, जो मार्ग में आकाश की ओर दृष्टि रखता हुआ घमण्ड से चलता है । किन्तु समय व्यतीत होने पर वही मनुष्य औपधो के सहारे रहकर निरन्तर कष्ट उठाता है । (इससे समझा जाता है कि) यह प्राणी अपनी करनी के अधीन कर्मों के भोग भोग रहा है ।

( २६ )

ज्ञानं धृत्वा विरतिसुदृढ भुक्तभोगो मनुष्यः ,  
 तच्चेत्येतद् विषयनिचितेर्बद्धमूल विकर्म ।  
 यो जानीते नरकसदृश पापजन्यं हि विश्वम् ,  
 भव्यात्मासौ विविधविषयां भोगवृत्तिं जहाति ॥

अन्वय—एतद् विषयनिचिते बद्धमूल विकर्म (अस्ति) इति तत्, विरतिसुदृढ ज्ञानं च धृत्वा य हि भुक्तभोग मनुष्य पापजन्य नरक सदृश विश्व जानीते, असौ भव्यात्मा विविधविषया भोगवृत्तिं जहाति ।

अर्थ—यह विषयो से बद्धमूल विकर्म है, ऐसा इसको और विरतिसुदृढ ज्ञान को धारण कर जो भोगी मनुष्य पापो से उत्पन्न नरक के समान ससार को जानने लगता है, तब वही भव्यात्मा विविध विषयो के भोग की वृत्ति को छोड़ देता है ।

( २७ )

तस्मात्तु च्छं जगदिदमहं त्यक्तुमेवं प्रवृत्त. ,  
 आज्ञां दत्त्वा हितविलसिता तारयेतामतो माम् ।  
 आनन्दोऽयं भवति भवतोर्दीक्षितोऽह भवेयम् ,  
 सन्तो योगं ददति परमं कर्मसिन्धुं तरीतुम् ॥

अन्वयः—तस्माद् अहम् इदम् जगत् त्यक्तुम् एव प्रवृत्त. (अस्मि) ।  
 अत हितविलसिताम् आज्ञा दत्त्वा (भवन्तौ) मा तारयेताम् । (यदि)  
 भवतो (पुत्र) अह दीक्षित भवेयम्, (तदा) अयम् आनन्द भवति । (यतो  
 हि) सन्त कर्मसिन्धु तरीतु परम योग ददति ।

अर्थ—इससे मैं इस तुच्छ जगत् को परित्याग करने के लिए ही प्रवृत्त हूँ ।  
 इसलिए हितविलसित आज्ञा को देकर (आप-दोनो) मुझको तार दीजिए । (यदि)  
 आप दोनो का (पुत्र) मैं दीक्षित होता हूँ, तो यह आनन्द ही है । (क्योकि) सन्त  
 कर्मों के समुद्र को तैरने के लिए बहुत योग देते हैं ।

( २८ )

प्रार्थ्यं श्रुत्वा विनयसहितं दुःखमाप्तौ तदा तौ ,  
 जिज्ञासायाः प्रणयमभितः कारणं बोधयन्तौ ।  
 लक्ष्मीदेवौ सदयहृदयौ भाषमाणौ भवेताम् ,  
 वैराग्य ते भवतु फलदं किन्तु पश्यानुवेलम् ॥

अन्वयः—विनयसहितं प्रार्थ्यं श्रुत्वा तौ दुःखम् आप्तौ (अभवताम्)  
 प्रणयम् अभित जिज्ञासाया कारण बोधयन्तौ सदयहृदयौ लक्ष्मीदेवौ—ते  
 वैराग्य फलद भवतु—भाषमाणौ भवेताम् । किन्तु (त्वम्) अनुवेलम्  
 पश्य ।

अर्थ—तव विनय सहित निवेदन को सुनकर वे दोनो दुःखी हुए । प्रेम  
 पुरस्मर जिज्ञासा के कारण को बताते हुए दयालु कमलादेवी और देवसिंह—तेरे  
 लिए वैराग्य फलद हो—कहने लगे । किन्तु पर्याप्त सोच ले ।

( २६ )

पत्नी धर्म्या प्रणयमनुगा त्व परित्यज्य यासि ,  
क्लेशं तस्या विरहजनितं कोऽस्ति सोढुं समर्थं ।  
तस्माज्जातं विवशमपरं मानसं चास्मदीयम् ,  
के ते शक्ता व्यथितमनसः कष्टमन्यस्य नंष्टुम् ॥

**अन्वयः**—त्व प्रणयमनुगा धर्म्या पत्नी परित्यज्य यासि, किन्तु तस्या. विरहजनित क्लेश सोढुं क समर्थ अस्ति । अर्थात् कोऽपि नास्ति । तस्मात् च अस्मदीय मानसम् अपर विवश जातम् (अस्ति) । यतो हि अन्यस्य व्यथितमनस कष्ट नष्टु शक्ता ते के ? न के ऽ पि सन्तीत्यर्थ ।

**अर्थ**—तू प्रेमवती धार्मिक पत्नी को छोडकर जा रहा है, (सो तो ठीक है) किन्तु उसके विरह-जनित क्लेश को सहने के लिए कौन समर्थ है ? अर्थात् कोई नहीं है । और इससे हमारा मानस अधिक विवश हो गया है । क्योंकि किसी दु खिया के दु.ख को नष्ट करने के लिए वे कौन हैं जो समर्थ हैं ? कोई भी नहीं हैं—यह इसका अर्थ है ।

( ३० )

भावं धृत्वा पतिसुखयुतं भव्यदेहं दधाना ,  
नामग्राहं विभवसुषमं ते गृह प्राप्नुवन्तो ।  
नित्यं पत्नी यदि तुदति सा किं न दुःख भवेत्तत् ,  
तत् कृत्य समुचितमिदं कोऽपि युक्तं वदेत्किम् ॥

**अन्वयः**—पतिसुखयुत भाव नामग्राह धृत्वा विभवसुषम गृहम् प्राप्नु-वन्ती भव्यदेह दधाना ते पत्नी यदि नित्य तुदति, तत् किं दु ख न भवेत् ? (अपि तु अवश्य भवेत्) । तत् इद युक्त कृत्यम् कोऽपि समुचित वदेत् ? (न कोऽपि वदेदित्यर्थ ।

**अर्थ**—पति के सुख से मिलित भाव को नाम ले-ले कर सोचकर सम्पत्ति है परम शोभा जिसकी, ऐसे घर पर आई हुई सुन्दरी तेरी पत्नी यदि सदा कष्ट पाती रहे, तो क्या तुझे दु ख न होगा ? (अपितु अवश्य दु ख होगा), तब इस युक्त कृत्य को कोई भी समुचित कहेगा ? (कोई भी नहीं कहेगा—यह इसका अर्थ है ।

( ३१ )

तस्मात्त्वं मेऽनुसर वचनं याहि माङ्गल्यमूलम् ,  
 सद्यो धर्म्यं गृहमतिसुखं भुङ्ग्धि भोगान् गृहस्य ।  
 सामर्थ्यं ते घटय सुरत कामरूपं प्रियायाः ,  
 गार्हस्थ्यश्रीरमर सदनं नामशेषं विधत्ते ॥

अन्वय.—तस्मात् त्व मे वचनम् अनुसर, सद्य माङ्गल्यमूलमति-  
 सुख धर्म्यं गृह याहि, गृहस्य भोगान् भुङ्ग्धि, ते प्रियाया कामरूप सुरत  
 सामर्थ्यं घटय । (यतोहि) गार्हस्थ्यश्री अमर सदननामशेष विधत्ते ।

अर्थ—उक्त कारण से तू मेरे वचन का अनुसरण कर, शीघ्र ही माङ्गल्यमूल  
 सुख को अतिक्रान्त करने वाले धर्मयुक्त घर को जा, घर के भोगों का सेवन कर  
 (और) तेरी प्रिया की इच्छानुसार कामक्रीडा सामर्थ्य को चरितार्थ कर (क्योंकि)  
 गार्हस्थ्य की शोभा स्वर्ग को नाममात्र बना देती है ।

( ३२ )

सर्वं सत्यं यदपि भवता मे हितायैव चोक्तम् ,  
 नैतच्चिन्त्य विसृज मयि तत्काममिच्छानुरूपम् ।  
 पत्नी देवो भवति नियतिर्जन्मजन्मान्तरस्य ,  
 तस्मान्मन्ये परमदयिता मह्यमाज्ञां तु दद्यात् ॥

अन्वय —पुत्रः पितर कथयति—भवता यदपि च मे हिताय उक्तं  
 सर्वं सत्यम् एव (अस्ति) । (तदपि) एतद् चिन्त्य न (अस्ति) । तत् इच्छा-  
 नुरूप मयि काम विसृज । (यतो हि) पत्नी देवी जन्मजन्मान्तरस्य नियति  
 भवति । तस्माद् (अह) मन्ये, (यत्) परमदयिता (पत्नी) मह्य तु (दीक्षायै)  
 आज्ञा दद्यात् ।

अर्थ—पुत्र पिता को कहता है कि—आपने और जो भी मेरे हित के लिए  
 कहा, सब ठीक ही है । (तो भी) यह चिन्ता के योग्य नहीं है । वह इच्छानुरूप  
 मुझपर सब छोड़िये । (क्योंकि) पत्नी देवी जन्मजन्मान्तर का भाग्य है । इससे मैं  
 मानता हूँ कि अत्यन्त दयालु पत्नी मुझे तो (दीक्षाग्रहण के लिए) आज्ञा दे सकेगी ।

( ३३ )

एवं विरक्ति समवाप्य सर्वथा,  
युवाऽपि संसारसुखं जिहासितुम् ।  
धृतप्रयत्नोऽमरसिंह एषकः,  
स्वयं गतः प्रत्यभिपत्ति सस्मितम् ॥

अन्वयः—एवं सर्वथा विरक्ति समवाप्य युवापि संसारसुख--जिहासितु  
धृतप्रयत्नः एषकः अमरसिंह प्रत्यभिपत्ति सस्मित स्वयं गत ।

अर्थ—इस प्रकार सर्वथा विरक्ति को प्राप्त कर युवक होते हुए भी संसार-  
सुख को छोड़ने की इच्छा के लिये प्रयत्नशील यह अमरसिंह पत्नी के सामने मुस्कराते  
हुए स्वयं पहुँचा ।

( ३४ )

यतोऽन्यदीयं समवेक्ष्य वर्णनम् ,  
विभक्तुमिच्छामि कथा प्रसङ्गतः ।  
ततो द्वितीयं ननु सर्गमग्रिमम् ,  
वृणोमि वृत्तेन समेत शोभनम् ॥

अन्वयः—यत अन्यदीय वर्णन समवेक्ष्य कथाप्रसङ्गत विभक्तुम्  
इच्छामि । तत अग्रिमम् द्वितीयं सर्गम् समेत वृत्तेन ननु शोभन वृणोमि ।

अर्थ—यहाँ से दूसरा वर्णन देखकर कथा के प्रसंग से विभाग किया चाहता  
हूँ । तदनन्तर अग्रिम द्वितीय सर्ग को एक से ही वृत्त से अच्छा लगे ऐसा वर्णन कर  
रहा हूँ ।



( ३५ )

कवित्वमस्तीति न वा मयि स्वयं ,  
 विचारसङ्कोचमथाञ्चितोऽभवम् ।  
 कलङ्कमङ्कायितचारुचन्द्रकं ,  
 निरीक्ष्य सन्तोषरसं पिबाम्यहम् ॥

अन्वय — मयि कवित्व अस्ति न वा इति स्वयं विचार-सङ्कोच अथ अञ्चित अभावम्, कलङ्क अङ्कायित चारुचन्द्रक निरीक्ष्य अहं सन्तोष रसं पिबामि ।

अर्थ — मेरे मे कवित्वशक्ति है अथवा नहीं, इस प्रकार के विचार से मैं स्वयं सङ्कोच में पड़ गया हूँ, जिस प्रकार चन्द्रमा सकलङ्क होता हुआ भी सुन्दर दिखाई देता है, उसे देखकर मैं सन्तोष रस का पान करता हूँ उसी प्रकार कवित्व शक्ति के बिना जो रचना कर रहा हूँ उससे भी मुझे सन्तोष होगा ।

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
 उपाध्यायपदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
 श्रीमदाचार्यामरसिंह महाकाव्ये  
 प्रथमः सर्गः



## द्वितीयः सर्गः

( १ )

लब्ध्वा लक्ष्यं श्रमपरिगतं मानवो जातहर्षः ,  
तद्वज्जातो भवति परमो युक्तिवीरोऽमरोऽयम् ।  
पत्नी दृष्ट्वा कथयति परं भाग्यभोग्यं सदैतत् ,  
वैराग्यं मे फलति यदि तत् कारण स्यास्त्वमेका ॥

**अन्वयः**—श्रमपरिगत लक्ष्यं लब्ध्वा मानव जातहर्ष भवति, तद्वत् परमः युक्तिवीर अयम् अमर जात । (स) पत्नीम् दृष्ट्वा कथयति—सदा एतद् पर भाग्यभोग्य (वर्त्तते) यदि मे वैराग्य फलति, (तदा) तत्कारण त्वम् एका स्या । (अर्थादह तव कारणाद् भाग्यवानस्मि ।)

**अर्थ**—श्रम से मिलने वाले लक्ष्य को पाकर मनुष्य प्रसन्न होता है, उसी के समान परम युक्तिवीर यह अमरसिंह प्रसन्न हो उठता है । और पत्नी को देखकर कहने लगता है कि सदा यह सब भाग्य से प्राप्तव्य है । यदि मेरा वैराग्य सफल होता है तो उसका कारण एक तू ही हो सकेगी । (अर्थात् मैं तेरे कारण से भाग्यवान् हूँ ।)

( २ )

हेतुं मन्ये सदयहृदयां त्वामनूनाप्तपुण्याम् ,  
घन्यामेकां सफलयति या भाग्यमल्लैवपत्युः ।  
तस्या भाग्य प्रथयति पर स्वर्गभूपोऽमरेशः , ,  
तस्मात्सिद्ध भवति भुवने भारतीयं चरित्रम् ॥

**अन्वयः**—या अत्र एव पत्यु भाग्य सफलयति, (ताम्) अनूनाप्तपुण्या घन्याम् एका त्वाम् (अह) हेतु मन्ये । (एतादृश्या ) तस्या भाग्य स्वर्गभूपः अमरेश (अपि) पर प्रथयति । तस्मात् भुवने भारतीय चरित्र सिद्ध भवति ।

**अर्थ**—जो इस ससार मे ही पति के भाग्य को सफल बना- देती है, उस पूर्ण पुण्यो वाली घन्य एक तुझको मैं कारण समझता हूँ । ऐसी उस स्त्री के भाग्य की स्वर्गाधिप देवेन्द्र भी पर्याप्त प्रशंसा करता है । इसी से विश्व मे भारतीय चरित्र प्रमाण के रूप मे प्रतिष्ठित है ।

अत्रापि 'मन्दाक्रान्ता' एव । लक्षण पूर्वोक्तमेव ।

( ३ )

आज्ञप्तोऽहं यदि सफलतामात्मनीनां लभेय ,  
 साफल्यं ते भवति परमं जीवनस्याति तथ्यम् ।  
 आधिव्याध्यो. प्रभवमपरं शान्तिमप्येति दुःखम् ।  
 संसारेऽन्ते मृतिसृतिगताः प्राणिनो यान्ति नित्यम् ॥

अन्वयः—यदि आज्ञप्त (सन्) अहम् आत्मनीना सफलता लभेय, (इदम्) परम तथ्यम् (अस्ति), तदा ते जीवनस्य अपि साफल्यम् भवति । (यतोहि गृहस्थ. सासारिक कष्टमनुभवत्येव ।) (अत ) अपरम् आधिव्याध्यो प्रभव दुःखम् अपि शान्तिम् एति । (एवन्तु) अन्ते प्राणिनः संसारे नित्य मृतिसृतिगता यान्ति

अर्थ—यदि आज्ञप्त होकर मैं अपनी सफलता प्राप्त कर सका, तो यह पूर्ण तथ्य है कि उसमे तेरे जीवन का भी साफल्य है । (क्योकि गृहस्थ सासारिक कष्ट उठाते ही हैं, वे नही उठाने पडेंगे ।) दूसरा मानसिक और शारीरिक व्यथाओ से उत्पन्न दुःख भी शान्त हो जाता है । वैसे तो अन्त मे प्राणी संसार मे सदा मृत्यु के मार्ग पर चलते ही रहते हैं ।

( ४ )

पत्युर्वश्यं भवति सुखदं जीवितं सर्वभद्रम् ,  
 पातिव्रत्यं श्रयति परमां भारतस्यास्य शोभाम् ।  
 इत्येतस्मादहमपि शुभां जीवितस्यापि मूल्यात् ,  
 जैनी दीक्षां परमपदगा प्रापयेयं भवन्तम् ,

अन्वयः—पत्नी समुत्तरति यत्—पत्यु वश्य सुखद सर्वभद्र जीवित भवति । पातिव्रत्यम् अस्य भारतस्य परमाम् शोभा श्रयति इति, एतस्मात् अहम् अपि जीवितस्य मूल्यात् अपि भवन्तम् शुभा परमपदगा जैनी दीक्षाम् प्रापयेयम् ।

अर्थ—पत्नी उचित उत्तर देती है कि—पति के अधीन सुखदायक मङ्गलमय जीवन रहता है । पातिव्रत्य इस भारत की विशिष्ट शोभा है—ऐसा है । अतएव मैं भी आपको जीवन का मूल्य देकर भी पवित्र मोक्ष तक पहुँचने वाली जैनसम्बन्धिनी दीक्षा प्राप्त करा सकती हूँ ।

( ५ )

तस्माद्धेतोरहमपि सदा भावमाश्रित्य श्रेष्ठम् ,  
 साहाय्यं ते शिथिलितसुखा घर्मपत्नी तवैवम् ।  
 दीक्षाऽऽदाने निहितदयया स्वाज्ञया स्थापयेयम् ,  
 पुण्ये कृत्ये विमलमतयो योगमायोजयन्ति ॥

अन्वय — तस्मात् हेतो शिथिलितसुखा तव घर्मपत्नी (अस्मि), अत अहम् अपि ते दीक्षाऽऽदाने निहितदयया स्वाज्ञया एवम् साहाय्यम् स्थापये-  
 यम् । (यतोहि) विमलमतय (मनुष्या ) पुण्ये कृत्ये सदा योगम् आयोजयन्ति ।

अर्थ—इस हेतु से सुख की उपेक्षा करने वाली तेरी घर्मपत्नी हूँ । (अतः) मैं भी तेरे लिये दीक्षादान मे दयापेक्षित अपनी आज्ञा से इस प्रकार साहाय्य स्थापित कर सकती हूँ । क्योंकि निष्पाप मनुष्य पुण्य कृत्य मे सदा भाग लिया करते हैं ।

( ६ )

उद्युक्तोऽयं सपदि पदिको निस्सहायोऽप्यगच्छत् ।  
 जाताज्ञोऽसौ विनयसहितः सर्वमावेद्यमानौ ।  
 कारुण्याप्तौ व्यथितपितरौ जातवृत्तं विवक्तुम् ,  
 कोऽसौ लोके विधिविलसितं लेखमन्यं विधातुम् ॥

अन्वयः—असौ विनयसहित जाताज्ञ. (अस्ति-इति) सर्वं जातवृत्तम्, निवेद्यमानौ कारुण्याप्तौ व्यथितपितरौ, विवक्तुम् अयम् निस्सहाय अपि उद्युक्त (अमरसिंह) पदिकः अगच्छत् । (यतोहि) लोके असौ क. (य) विधिविलसित लेखम् अन्य विधातुम् (अस्ति) ? (न कोऽप्यस्तीति-अर्थ) ।

अर्थ—वह विनयी आज्ञा प्राप्त कर चुका है, ऐसा सब घटित वृत्त—निवेद्य-  
 मान दयालु दुखी माता-पिता को, कहने के लिये अकेला ही लगन का घनी  
 ((अमरसिंह) पैदल चल दिया । क्योंकि ससार मे वह कौन है जो भाग्य के अद्धित  
 लेख को बदलने के लिये समर्थ हो ? (कोई भी नहीं है—ऐसा यह अर्थ है ।)

( ७ )

जिसासूभौ गदितपितरौ हृष्यमाणौ तदास्ताम् ,  
 शैघ्र्यं मा गाः कुरु सुरचिरां चित्तवृत्तिं प्रशस्ताम् ,  
 हृद्यं कार्यं कथमपि जनो निन्दितु न क्षमेत ,  
 सत्याशस्त्वं विशदहृदयो बाल एवं ब्रुवन्तौ ॥

अन्वयः—त्वं प्रशस्ता चित्तवृत्तिं सुरचिरा कुरु शैघ्र्यं च मा गा ,  
 (यत्) विशदहृदय सत्याश बाल (असि) एव ब्रुवन्तौ उभौ जिज्ञासू  
 गदितपितरौ तदा हृष्यमाणौ आस्ताम् । (ससारस्याय नियम ) - जन हृद्य  
 कार्यं निन्दितु कथम् अपि न क्षमेत ।

अर्थ—तू अपनी प्रशस्त चित्तवृत्ति अधिक प्रिय बना ले, और जल्दी मत  
 कर, (क्योंकि) तू स्वच्छ हृदय धुन का पक्का बालक है, इस प्रकार कहते हुए दोनों  
 जानने की इच्छावाले उक्त माता-पिता तब प्रसन्न हुए लगते थे । (समार का यह  
 नियम है ।) कि कोई भी मनुष्य प्रिय कार्य की निन्दा करने को कैसे भी नहीं सह  
 सकता ।

( ८ )

श्रीसिंहेऽस्मिन्नटति भवनात्तावदायाति कश्चित् ,  
 श्रोतृव्यूहे प्रथयति बहिलालचन्द्र मुनीन्द्रम् ।  
 व्याख्यानेन व्यथितमनसश्चित्तमत्युग्रभावम् ,  
 कुर्वन्तं त च जनविमतव्याहृतं निष्प्रभावम् ॥

अन्वय — भवनाद् वहि अस्मिन् श्रीसिंहे अटति सति कश्चित्  
 श्रोतृव्यूहे आयाति । (स एव) व्यथितमनस उग्रभाव चित्तम् जनविमत-  
 व्याहृतं च निष्प्रभाव कुर्वन्तं त मुनीन्द्र लालचन्द्र प्रथयति ।

अर्थ—घर से बाहिर इस श्रीसिंह (अमरसिंह) के चलते हुए कोई श्रोताओं  
 के झुण्ड में आ जाता है और वही किसी दुःखी के उग्रभाव वाले चित्त को और  
 मनुष्यों के सिद्धान्तहीन कथन को निष्प्रभाव करते हुए उस मुनि श्रेष्ठ लालचन्द्र को  
 अधिक बढ-चढ़कर बताता है ।

( ६ )

आकर्ण्यऽहं गतमतिगतिर्ज्ञापयामीति सन्तम् ,  
श्रुत्वोदन्त विमलयशसो लालचन्द्रस्य साधोः ।  
मुग्धो भूत्वा ब्रजति च मुने श्रोतुमिच्छन् सभायाम्,  
व्याख्यान यः सरति सरस प्रत्यह सोऽमरोऽयम् ॥

अन्वय — कश्चिदेवासौ सन्दर्भयति—सन्तम् आकर्ण्य गतमति गति (सन्) अहं ज्ञापयामि—इति विमलयशस साधो —लालचन्द्रस्य उदन्त श्रुत्वा मुग्धश्च भूत्वा मुने सभायाम् सरस व्याख्यान श्रोतुम् इच्छन् य प्रत्यह सरति स अयम् अमर (अमरसिंहः) अस्ति ।

अर्थ—वही कोई सम्बन्ध जोड़ता है कि—ऐसे उस सन्त को सुनकर आश्चर्य स्तब्ध हो मैं यह सब बता रहा हूँ । सुप्रसिद्ध साधु लालचन्द्रजी के वृत्तान्त को सुनकर और मुग्ध होकर मुनि की सभा में सरस व्याख्यान को सुनने के लिए चाह रखता हूँ जो प्रतिदिन जाता है, वह यह अमरसिंह है ।

( १० )

कर्मारण्यं जटिल-कुटिलं भ्रान्तजीवानुबद्धम् ।  
सम्यक् छेत्तुं प्रयतति मुनिस्त्रीणि रत्नानि योक्तुम् ।  
सत्यं किञ्चिन्नपरमपर तत्त्वभूतं त्रिलोक्याम् ,  
सन्देष्टुं तज् जगति जयिनः स्वामिनस्ते भ्रमन्ति ॥

अन्वयः—अधिसभ मुनिरसौ भाषते—मुनि भ्रान्तजीवानुबद्ध जटिल-कुटिल कर्मारण्य सम्यक् छेत्तुं त्रीणि रत्नानि योक्तुं प्रयतति । त्रिलोक्याम् पर तत्त्वभूतम् अपर किञ्चित् सत्यं न (अस्ति) । जगति ते जयिनः स्वामिनः तद् सन्देष्टुम् भ्रमन्ति ।

अर्थ—वही मुनि सभा में भाषण देता है कि—मुनि भ्रान्त जीवों से अनुबद्ध सघन कर्मों के जगल को अच्छी तरह से काटने के लिए तीन रत्नों को जोड़ने की भरसक कोशिश करता है । त्रिलोकी में सबसे बड़े नत्त्व के सहश दूसरा कोई सत्य नहीं है । ससार में वे जितेन्द्रिय मुनिजन इस बात को बताने के लिए सदा घूमते रहते हैं ।

( ११ )

श्राव श्रावं विशदविषयं तत्त्वमेतद् विशिष्टम् ,  
 तस्य श्रद्धा प्रभवति परा त्यागमूलप्रवृत्तौ ।  
 त्यक्तुं सर्वं विभवनिचयं कर्मजन्य प्रमादम् ,  
 मत्त्वां ज्ञान प्रतिपदमयं सङ्ग्रहीतुं प्रवृत्तः ॥

अन्वयः—विशदविषयम् एतद् विशिष्ट तत्त्व श्राव श्राव त्यागमूल-  
 प्रवृत्तौ तस्य परा श्रद्धा प्रभवति । (अत एव) अयम् (अमरसिंह) सर्वं विभव-  
 निचयम् कर्मजन्यप्रमाद मत्त्वा त्यक्तुम्, ज्ञान (च) प्रतिपदम् सङ्ग्रहीतुम्  
 प्रवृत्तः (अस्ति) ।

अर्थ—स्पष्ट हैं, विषय जिसके ऐसे उस विशिष्ट तत्त्व को सुन-सुन कर उसकी  
 त्यागमूल की प्रवृत्ति में प्रगाढ श्रद्धा उत्पन्न हो उठती है । (अत एव) यह (अमरसिंह)  
 सम्पूर्ण विभवों के समूह को कर्मों से उत्पन्न प्रमाद मानकर, त्यागने के लिए (और)  
 तत्त्व को स्थान-स्थान पर सङ्ग्रहीत करने के लिए प्रवृत्त हुआ है ।

( १२ )

वैराग्येण त्यजति गृहिणी रूपभूयिष्ठमृद्धीम् ,  
 कामाधानां परमचतुरा सर्वहेतुप्रतिष्ठां ।  
 तस्या अन्यत् किमतिशयितं वस्तुतत्त्वं भवेत्तत् ,  
 वैराग्यात्मा गणयति जगत् छद्म-सद्म-प्रवृद्धम् ॥

अन्वय —अयम् वैराग्येण कामाधाना रूपभूयिष्ठमृद्धी सर्वहेतुप्रतिष्ठा  
 परमचतुरा गृहिणी त्यजति । (अस्मिन् जगति) तस्या अन्यत् अतिशयित  
 तत् वस्तुतत्त्वं किम् भवेत् ? (न भवेदन्यदित्यर्थ ) । (किन्तु पुनरपि) वैरा-  
 ग्यात्मा (मनुष्य) जगत् छद्म-सद्म-प्रदीपम् गणयति ।

अर्थ—यह वैराग्य के हेतु से काम की भूमि अतिशय रूपवती कोमला सब  
 हेतुओं की प्रतिष्ठा परमचतुरा पत्नी को त्याग रहा है । (इस ससार में) इससे दूसरा  
 अतिशयित वह वस्तुतत्त्वं कौन हो सकेगा ? (जो इससे बढ़-चढ़ कर हो—अर्थात्  
 इससे अन्य नहीं हो सकता) । किन्तु विरक्त जगत् को छल के घर का प्रदीप  
 गिनता है ।

( १३ )

दु खी वर्त्ते जगति मनसो धर्मं इत्येव वाहम् ,  
 कौऽसौ धर्मः सृजति सततं मङ्गलं पुण्यमूलम् ।  
 आत्मा कोऽय स्वयमहमहो कोऽस्मि कस्याहमस्मि ,  
 शङ्काग्रस्तः स्वमनसि तत प्रश्नवृन्दस्य सूते ॥

अन्वयः—‘जगति अहं दु खी वर्त्ते’ इति मनस धर्मं एव वा (अन्य कोऽपि) ? असौ धर्मक ? य सतत पुण्यमूल मङ्गल सृजति । अयम् आत्मा क ? अहो अहं स्वय क अस्मि ? कस्य अहम् अस्मि ? (एवम्) शङ्काग्रस्त (अमरसिंह ) स्वमनसि प्रश्नवृन्दस्य तत सूते ।

अर्थ—‘ससार मे मैं दु खी हूँ’ ऐसा यह मन का धर्म है अथवा (कोई दूसरा है) ? वह धर्म कौन है ? (जो) सतत पुण्यमूल मङ्गल को रचता है ? यह आत्मा कौन है ? अहो मैं स्वय कौन हूँ ? किसका मैं हूँ ? (इस प्रकार) शङ्कित अमरसिंह अपने मन मे प्रश्नवृन्द के समूह को उत्पन्न करता है ।

( २४ )

प्रश्नानेतान् जटिल कुटिलान् शङ्कमानोऽमरोऽयम् ,  
 तान् सन्धातुं हितमतिधरान् सज्जनान् याति प्रष्टुम् ।  
 ते शङ्कन्ते मनसि बहुशस्तं जनं क्षिप्तबुद्धिम् ,  
 जानन्तोऽमुं कथमपि शुभं शान्तमूर्त्तिं हसन्ति ॥

अन्वयः—जटिल कुटिलान् एतान् प्रश्नान् शङ्कमान अयम् अमर (अमरसिंह ) (यदा) तान् सन्धातुं हितमतिधरान् सज्जनान् प्रष्टुं याति, (तदा) बहुश ते मनसि त क्षिप्तबुद्धिम् जनं शङ्कन्ते, (पुनरपि) अमुम् शुभं शान्त-मूर्त्तिं जानन्त कथमपि हसन्ति ।

अर्थ—उलझे हुए इन प्रश्नों पर शङ्का करता हुआ यह अमरसिंह (जब) उन पर समाधान प्राप्त करने के लिए हितैषी सज्जनों से पूछता है, (तब) बहुत से तो वे अपने मन मे उस को क्षिप्तबुद्धि मनुष्य सोचने लगते हैं, (फिर भी) इसको शुभ शान्त जानते हुए कुछ-कुछ हँसते हैं ।



( १५ )

दृष्टप्रायो विषय इति मे यो ह्यबुद्धः स्वयन्तु ,  
 अन्यान् बुद्धान् हसति सुतरां तान् बुद्धान् विधातुम् ।  
 कुर्वन्नेवं यदपि यतते किन्तु सत्य तु सत्यम् ,  
 कृत्ये ज्ञाते पुनरयमहो हस्यते बुद्धिमद्भिः ॥

अन्वय —इति अयम् विषय मे दृष्टप्राय (अस्ति), हि य स्वय तु अबुद्ध (अस्ति), किन्तु अन्यान् बुद्धान्, तान् अबुद्धान् विधातुम् सुतरा हसति एवम् कुर्वन् (स) यदपि यतते, किन्तु सत्य तु सत्यम् (भवति) । (अत ) कृत्ये ज्ञाते (यथा मूर्खं सन् बुद्धान् जनान् हसति क्रियानय मूर्खं इति) पुन बुद्धिमद्भिः (जनैः) अहो अय (मूर्खं ) हस्यते ।

अर्थ—ऐसा यह विषय मेरा देखा हुआ है कि—जो स्वय तो मूर्ख है, किन्तु अन्य समझदारो, को, बुद्धू बनाने के लिए (वह) काफी हँसी उडाता है । ऐसा करता हुआ जो भी कुछ प्रयत्न करता है सो करता ही है, किन्तु सत्य, सत्य ही होता है । इसलिए करतूत के जान लेने पर बुद्धिमानो के द्वारा 'अरे यह है' 'वह मूर्ख' ऐसी हँसी की जाती है ।

( १५ )

हित्वा शङ्काः शतमपरतः शोशुचानोऽमरोऽसौ ,  
 त्यक्त्वा लोकान् गमयति दिनं क्वापि संस्थायवासे ।  
 स्वीयं चेतः स्थिरयति ततो निश्चय नेतुमन्ते ,  
 धीरो जन्युर्दृढयति मनस्तत्त्वमेक वरीतुम् ॥

अन्वयः—अपरत शङ्काः शतहित्वा शोशुचान अमर.—(अमरसिंह) अन्ते क्व अपि वासे संस्थाय लोकान् त्यक्त्वा निश्चय नेतु दिन गमयति । तत असौ स्वीय चेत स्थिरयति । (यतो हि) धीर जन्यु एक तत्त्व वरीतु मन दृढयति ।

अर्थ—एक ओर से सैकड़ो शङ्काओ को छोड़ बार-बार विचारता हुआ अमरसिंह, अन्त में किसी भी स्थान पर बैठ कर लोगो से दूर हो, निश्चय प्राप्त करने के लिए दिन बिताने लगता है । तदनन्तर वह अपने हृदय को स्थिर कर लेता है । क्योंकि वैर्यवान प्राणी किसी एक तत्त्व को स्वीकार करने के लिए मन को दृढ कर लेता है ।

( १७ )

तस्मादन्ते विमलहृदयो मुख्यमूल विरक्ते . ,  
 निश्चित्यैव प्रथयति पुरो ब्रह्मचर्यव्रत सः ।  
 रक्षित्वैनं परमपदद जीवनं यापयेयम् ,  
 प्रत्याख्यातुं गृहसुखमय याति साधो. समीपम् ॥

अन्वय — तस्मात् अन्ते विमलहृदय स विरक्ते मुख्यमूल ब्रह्मचर्य-  
 व्रतम् एव निश्चित्य प्रथयति । (अह) पुर परमपददम् एन रक्षित्वा जीवन  
 यापयेयम् । (अत ) अयम् (अमरसिंह ) गृहसुख प्रत्याख्यातु साधो समीप  
 याति ।

अर्थ — उसके बाद पवित्रान्त करण वह (अमरसिंह) विरक्ति का प्रमुखतत्त्व  
 ब्रह्मचर्य व्रत को ही निश्चय कर घोषित करता है कि मैं सर्वप्रथम परमपद दिलाने  
 वाले इस ब्रह्मचर्य व्रत को रखकर जीवन व्यतीत करूँगा । इसलिये अब यह  
 (अमरसिंह गृहसुख के प्रत्याख्यान के लिये मुनि (श्री लालचन्द्र जी) के पास  
 पहुँचता है ।

( १८ )

जाता वंश्या मथितहृदया ब्रह्मचर्यव्रतेन ,  
 तत्सम्बद्धा. सरसमतयश्चास्य दृप्ता अभूवन् ।  
 मित्राण्यासन् गदितुमनसः किंब्रुवा एव तस्य,  
 जाते कार्ये हितपरवशा एवमेवं वदन्ति ॥

अन्वय — ब्रह्मचर्यव्रतेन वंश्या मथितहृदया जाता । अस्य च  
 तत्सम्बद्धा सरसमतय दृप्ता अभूवन् । तस्य मित्राणि गदितुमनस किंब्रुवा  
 आसन् । (यतोहि) कार्ये जाते हित परवशा एवम्-एवम् वदन्ति ।

अर्थ—ब्रह्मचर्य व्रत के कारण वंश के व्यक्ति-व्यक्ति दुःखी हो उठे । और  
 इस (अमरसिंह) के सम्बन्धी प्रेमी क्रुद्ध हुये । उसके सभी मित्र कहने-करने वाले कुछ  
 का कुछ कहने लगे । क्योंकि कार्य हों जाने पर हितैषी लोग ऐसा हुआ—वैसा हुआ  
 बहुधा कहते ही हैं ।

( १६ )

वृत्तं श्रोतुं सहजमतयः संगिरन्तेऽनुवृत्तम् ,  
 चित्रं चित्रं किमिति किमिति व्याहरन्त्येव नार्यः ।  
 किन्तुद्वृत्तं प्रतिविपणिगं केऽपि मिथ्या वदन्ति ,  
 ससारेऽस्मिन् विविधरुचयो मानुषा उद्भवन्ति ॥

अन्वयः—सहजमतय वृत्त श्रोतुम् अनुवृत्त संगिरन्ते । नार्यं चित्रं चित्रं किमिति किमिति एव व्याहरन्ति । किन्तु केऽपि प्रति विपणिग उद्वृत्त मिथ्या वदन्ति । (यतोहि) अस्मिन् ससारे विविधरुचय मानुषा. उद्भवन्ति ।

अर्थ—सामान्य बुद्धिवाले मनुष्य वात को सुनने के लिये अनुवृत्त को बताने लगते हैं । स्त्रियाँ आश्चर्य है, आश्चर्य है, क्या हुआ, क्या हुआ परस्पर में कह उठती है । किन्तु कुछ तो ऐसे हैं कि प्रत्येक बाजार की गली में पहुँची हुई इस खबर को ही झूठी बताने हैं । क्योंकि इस ससार में अनेक रुचि वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं ।

( २० )

अन्ह्येकस्मिन् पुनरधिसभ कोऽपि योगी समेयात् ,  
 दृष्ट्वा लोकान् कथयति मया दिव्यदेहोऽमरोऽयम् ।  
 दृष्टो लोके रचयति परा भव्यदृष्टि स्वकीयाम् ,  
 यो मन्येऽह जगदतितरां प्राप्तमोक्षं विदध्यात् ॥

अन्वय —पुन एकस्मिन् अह्नि क अपि योगी अधिसभम् समेयात् । (स ) लोकान् दृष्ट्वा कथयति (यत्)—मया अय अमर (अमरसिंह ) दिव्यदेह दृष्ट (अस्ति), य लोके स्वकीया परा भव्यदृष्टि रचयति । (अत ) अह मन्ये (यत्) (अयम्) अतितरा प्राप्तमोक्ष जगत् विदध्यात् ।

अर्थ—फिर एक दिन कोई एक योगी सभा में आ पहुँचा, वह जनता को देखकर कहने लगा कि मैंने यह अमरसिंह दिव्यदेह देखा है, जो जगत् में अपनी विशिष्ट भव्यदृष्टि बना रहा है । अत मैं समझता हूँ कि यह पूर्णरूपेण प्राप्त कर लिया है मोक्ष जिसने ऐसे इस ससार को बना देगा ।

( २१ )

आकर्ण्यैतत्कथनमपरं योगिनस्तप्तचित्ताः ,  
 सभ्याः सर्वे स्मितनतमुखाआत्मकृत्यं स्मरन्ति ।  
 किञ्चा स्माभिः कृतमिति ततो लज्जया ते व्यथन्ते ,  
 ज्ञात्वानर्थं स्वरचित्तमदः सज्जना उत्तपन्ते ॥

अन्वयः—योगिन एतद् अपर कथनम् आकर्ण्य सर्वे तप्तचित्ताः स्मितनतमुखा सभ्या आत्मकृत्यं स्मरन्ति । किम् च अस्माभिः कृतम् इति तत ते लज्जया व्यथन्ते । (यतोहि) अद स्वरचित्तम् अनर्थं ज्ञात्वा सज्जना उत्तपन्ते ।

अर्थ—योगी के इस अन्य कथन को सुनकर सन्तप्तचित्त मुस्कराते मुँह झुकाये हुए सभ्य अपनी करवृत्त याद करने लगे । और हमने यह क्या किया ? इससे मारे लज्जा के वे दुःखी हो उठे । क्योंकि यह अपना किया हुआ अनर्थ है, ऐसा जानकर सज्जन तिलमिला जाते हैं ।

( २२ )

वृत्तो वर्णी भुवनविजयावासकीर्त्तः प्रशास्तुः ,  
 स प्रज्ञप्त विहितसरणेर्मूलधर्मं ग्रहीतुम् ।  
 सत्यासक्ति प्रमथितगुणप्राप्तचारित्रहेतुम् ,  
 ससाराब्धि प्रभवभुवन<sup>१</sup>-ग्रन्थिमुक्त<sup>२</sup>र्तुं<sup>३</sup> सेतुम् ॥

अन्वयः—स वर्णी विहितसरणे भुवनविजयावाप्तकीर्त्तं प्रशास्तु प्रज्ञप्त सत्यासक्ति प्रमथितगुणप्राप्तचारित्रहेतुम् नु ससाराब्धिप्रभवभुवन-ग्रन्थिमुक्ते सेतु मूलधर्मं ग्रहीतु वृत्त ।

अर्थ—वह ब्रह्मचारी (अमरसिंह) मार्ग बनाने वाले ससार के विजय से कीर्त्ति प्राप्त करने वाले श्रमण भगवान् वर्धमान के प्रज्ञप्त, सत्य की आसक्ति से मथे हुए गुणो से प्राप्त चारित्र हेतु वाले वास्तविक धर्म को अथवा ससार समुद्र की जल-ग्रन्थि अर्थात् भँवर से छूटने के पुल वास्तविक धर्म को ग्रहण करने के लिये तत्पर हुआ ।

१—भुवनम्=जलम् । २—नु विकल्पेऽव्ययम् ।

( १६ )

वृत्तं श्रोतु सहजमतयः सगिरन्तेऽनुवृत्तम् ,  
 चित्रं चित्रं किमिति किमिति व्याहरन्त्येव नार्यः ।  
 किन्तुद्वृत्तं प्रतिविपणिग केऽपि मिथ्या वदन्ति ,  
 ससारेऽस्मिन् विविधरुचयो मानुषा उद्भवन्ति ॥

अन्वयः—सहजमतय वृत्त श्रोतुम् अनुवृत्त सगिरन्ते । नार्यं चित्रं चित्रं किमिति किमिति एव व्याहरन्ति । किन्तु केऽपि प्रति विपणिग उद्वृत्त मिथ्या वदन्ति । (यतोहि) अस्मिन् ससारे विविधरुचयः मानुषा उद्भवन्ति ।

अर्थ—सामान्य बुद्धिवाले मनुष्य वात को सुनने के लिये अनुवृत्त को बताने लगते हैं । स्त्रियाँ आश्चर्य है, आश्चर्य है, क्या हुआ, क्या हुआ परस्पर में कह उठती हैं । किन्तु कुछ तो ऐसे हैं कि प्रत्येक बाजार की गली में पहुँची हुई इग खबर को ही झूठी बताने हैं । क्योंकि इस ससार में अनेक रुचि वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं ।

( २० )

अन्ह्येकस्मिन् पुनरधिसभ कोऽपि योगी समेयात् ,  
 दृष्ट्वा लोकान् कथयति मया दिव्यदेहोऽमरोऽयम् ।  
 दृष्टो लोके रचयति परां भव्यदृष्टिं स्वकीयाम् ,  
 यो मन्येऽहं जगदतितरा प्राप्तमोक्ष विदध्यात् ॥

अन्वय —पुन एकस्मिन् अह्नि क अपि योगी अधिसभम् समेयात् । (स) लोकान् दृष्ट्वा कथयति (यत्)—मया अयं अमर (अमरसिंह) दिव्यदेहः दृष्ट (अस्ति), यः लोके स्वकीया परा भव्यदृष्टिं रचयति । (अत) अहं मन्ये (यत्) (अयम्) अतितरा प्राप्तमोक्षं जगत् विदध्यात् ।

अर्थ—फिर एक दिन कोई एक योगी समा में आ पहुँचा, वह जनता को देखकर कहने लगा कि मैंने यह अमरसिंह दिव्यदेह देखा है, जो जगत् में अपनी विशिष्ट भव्यदृष्टि बना रहा है । अत मैं समझता हूँ कि यह पूर्णरूपेण प्राप्त कर लिया है मोक्ष जिसने ऐसे इस ससार को बना देगा ।

( २१ )

आकर्ष्यैतत्कथनमपरं योगिनस्तप्तचित्ता ,  
 सभ्याः सर्वे स्मितनतमुखाआत्मकृत्यं स्मरन्ति ।  
 किञ्चा स्माभिः कृतमिति ततो लज्जया ते व्यथन्ते ,  
 ज्ञात्वानर्थं स्वरचितमदः सज्जना उत्तपन्ते ॥

**अन्वयः**—योगिन एतद् अपर कथनम् आकर्ष्य सर्वे तप्तचित्ताः स्मितनतमुखा सभ्या आत्मकृत्यं स्मरन्ति । किम् च अस्माभिः कृतम् इति तत ते लज्जया व्यथन्ते । (यतोहि) अद स्वरचितम् अनर्थं ज्ञात्वा सज्जना उत्तपन्ते ।

**अर्थ**—योगी के इस अन्य कथन को सुनकर सन्तप्तचित्त मुस्कराते मुँह झुकाये हुए सभ्य अपनी करतूत याद करने लगे । और हमने यह क्या किया ? इससे मारे लज्जा के वे दुःखी हो उठे । क्योंकि यह अपना किया हुआ अनर्थ है, ऐसा जानकर सज्जन तिलमिला जाते हैं ।

( २२ )

वृत्तो वर्णी भुवनविजयावासकीर्त्तैः प्रशास्तु ,  
 स प्रज्ञप्त विहितसरणेर्मूलधर्मं ग्रहीतुम् ।  
 सत्यासक्ति प्रमथितगुणप्राप्तचारित्रहेतुम् ,  
 ससाराब्धि प्रभवभुवन<sup>१</sup>-ग्रन्थिमुक्तैर्नु<sup>२</sup> सेतुम् ॥

**अन्वयः**—स वर्णी विहितसरणे भुवनविजयावाप्तकीर्त्तैः प्रशास्तु प्रज्ञप्त सत्यासक्ति प्रमथितगुणप्राप्तचारित्रहेतुम् नु ससाराब्धिप्रभवभुवन-ग्रन्थिमुक्ते सेतु मूलधर्मं ग्रहीतु वृत्त ।

**अर्थ**—वह ब्रह्मचारी (अमरसिंह) मार्ग बनाने वाले ससार के विजय से कीर्त्ति प्राप्त करने वाले श्रमण भगवान् वर्धमान के प्रज्ञप्त, सत्य की आसक्ति से मथे हुए गुणों से प्राप्त चारित्र हेतु वाले वास्तविक धर्म को अथवा ससार समुद्र की जल-ग्रन्थि अर्थात् भँवर से छूटने के पुल वास्तविक धर्म को ग्रहण करने के लिये तत्पर हुआ ।

( २३ )

शिक्षाः पञ्च स्वयमतितरां पालनीया भवन्ति ,  
हेतोस्तस्मादयमनुदिनं पालने सनिमग्नः ।  
शिक्षास्त्वेताः परमविकटाः सङ्कटाद्बुद्धरन्ति ,  
काठिन्यात्ता अतिविकटतां धारयन्त्येवमुक्तम् ॥

अन्वयः—पञ्च शिक्षाः स्वयम् अतितरा पालनीया भवन्ति । तस्माद् हेतो अयम् (तासा शिक्षाणा) पालने सनिमग्नः (अस्ति) किन्तु एता परमविकटाः (सत्यः अपि) शिक्षा (पालयितार) सङ्कटात् उद्धरन्ति । (पालनस्य) काठिन्यात् ता (शिक्षा) अतिविकटताम् धारयन्ति, (अतः) एवम् उक्तम् (अस्ति) ।

अर्थ—पाँच शिक्षाएँ स्वयं सर्वाधिक पालनीय होती हैं । इस हेतु से यह (अमरसिंह) उन शिक्षाओं के रक्षण में सनिमग्न है । किन्तु ये परमविकट होती हुई भी शिक्षाएँ पालन करने वाले को सङ्कट से बचाती हैं । (इन शिक्षाओं के) पालन की कठिनता को देखकर वे शिक्षाएँ अतिविकटता को धारण कर रही हैं—अतः ऐसा कहा गया है ।

( २४ )

दीक्षाऽऽदानात् प्रभवति जनो दीक्षितः स्वः प्रवक्तुम् ,  
दीक्षा सेयं धरति हृदये पञ्चशिक्षी स्वतो याम् ।  
शिक्षाश्चैताः प्रथयति मुनिः पञ्च रत्नानि वृत्तौ ,  
तस्मादासां प्रभवति परं नामधन्यमहत्त्वम् ॥

अन्वयः—दीक्षाऽऽदानात् जनः स्वः दीक्षितः प्रवक्तुम् प्रभवति । इयं सा दीक्षा (अस्ति), (जनः) स्वतो या पञ्चशिक्षी हृदये धरति । वृत्तौ च मुनिः एता शिक्षाः पञ्च रत्नानि प्रथयति । तस्मात् आसा (शिक्षाणा) नामधन्यं परं महत्त्वम् (अस्ति) ।

अर्थ—दीक्षा के आदान अर्थात् ग्रहण से व्यक्ति अपने को [दीक्षित] कहने के लिये अधिकृत होता है । यह वह दीक्षा है, जब व्यक्ति अपने आप जिन समाहृत पाँच महाव्रतों को हृदय में रख लेता है । और व्यवहार में मुनि, इन महाव्रतों को ही पाँच रत्न बतलाता है । इससे इन शिक्षाओं का नामधन्य अधिक महत्त्व है ।

( २५ )

सर्वे जीवाः किमपि सतत कर्म कर्तुं प्रवृत्ता. ,  
 भोगं भुक्त्वा स्वकृतिनिरता. कालमेवं वहन्ति ।  
 प्रीणन्त्येते सरसमपर स्वक्रियाभिर्मनुष्यान् ,  
 हिंसन्त्येतानुदरमवितुं सन्त्यवश्यं कृतघ्नाः ॥

अन्वयः—सर्वे जीवा सतत किमपि कर्म कर्तुं प्रवृत्ता (सन्ति), स्वकृतिनिरता (ते) भोग भुक्त्वा एवम् काल वहन्ति । अपरम् एते स्वक्रियाभि मनुष्यान् सरस प्रीणन्ति । किन्तु (ते मनुष्या ) एतान् (जीवान्) उदरम् अवितुं हिंसन्ति । (अत ते) अवश्य कृतघ्नाः सन्ति ।

अर्थ—सब जीवधारी निरन्तर किसी न किसी कर्म के करने के लिये तत्पर हैं । अपने कर्तव्य में लगे हुए वे जीवधारी खा-पीकर इस प्रकार समय को गुजार देते हैं । (किन्तु किसी को कष्ट नहीं देते) इसके अतिरिक्त वे जीवधारी अपनी क्रियाओं से मनुष्यों को खूब प्रसन्न रखते हैं । किन्तु वे मनुष्य इन जीवधारियों को उदर भरने के लिये मारते हैं । इसलिये वे अवश्य कृतघ्न हैं ।

( २६ )

मर्त्या मृत्युं जनिमुपगता. क्लेशशेषं सहन्ते ,  
 नेच्छन्त्येतै विषयविरतिं लेशतश्चाधिकर्तुंम् ।  
 अस्त्येतत्तत् किमु समुचितं हिंसनं जीवराशेः ,  
 तस्मादेषा परमजननी साधनीया ह्यहिंसा ॥

अन्वयः—जनिम् उपगता मर्त्या क्लेशशेष मृत्यु सहन्ते । एते च (मर्त्या) लेशत विषयविरतिम् अधिकर्तुं न इच्छन्ति । तत् जीवराशे हिंसन किमु एतत् समुचितम् अस्ति ? अर्थात् समुचित नास्ति । तस्मात् हि एषा परमजननी अहिंसा (सर्वथा) साधनीया (अस्ति) ।

अर्थ—जन्म प्राप्त किये हुए मनुष्य कष्टमात्र मृत्यु को सहते हैं । और ये मनुष्य थोड़े समय के लिये विषयों के विराम को अधिकृत करने के लिये चाह नहीं रखते । तब फिर जीवधारियों का मारना क्या यह समुचित है ? अर्थात् समुचित नहीं है । अतएव निश्चयपूर्वक यह परममाता अहिंसा सब प्रकार से साधनी चाहिये ।



( २७ )

सत्यं नित्यं समुचितमतः सर्वथा रक्षणीयम् ,  
 प्राणैरेभि. किमिति यदितत् सत्यमेतद् विनष्टम् ।  
 तस्मात् प्राणी कठिनसमयेऽप्येनदेव विहातुम् ,  
 शक्तो नायं त्यजति च पुनः प्राणतुल्य स्वराज्यम् ॥

अन्वय. — सत्य नित्यं समुचितम् (अस्ति,) अतः (सत्यम्) सर्वथा रक्षणीयम् (आस्ते) । यदि एतत् सत्यं विनष्टम्, तत् एभिः प्राणैः किम् इति तस्मात् प्राणी (सत्यनिष्ठ) सन् कठिनसमये अपि एतत् (सत्यम्) एव विहातुं शक्त न (भवति), अयं च पुनः प्राणतुल्य स्वराज्यं त्यजति । (अतः सत्यमावश्यकमस्ति, ततो रक्षणीयम्) ।

अर्थ—सत्य सदा समुचित है, अतः सत्य सर्वथा रक्षा के योग्य है । यदि यह सत्य नष्ट हो गया, तब फिर इन प्राणों से क्या अर्थ सिद्ध होगा, ऐसा मानना चाहिए । अतएव प्राणी सत्यनिष्ठ होकर कठिन समय में भी इस सत्य को इस प्रकार छोड़ने के लिए समर्थ नहीं होता । और यह फिर प्राणतुल्य अपने राज्य को छोड़ बैठता है । इसलिए सत्य आवश्यक है, इस कारण से रक्षा के योग्य है ।

( २८ )

सत्यासक्तः स्थितिमनुसरन् सत्यसंरक्षणाय ,  
 सर्वं कष्टं तदनुभवति स्वस्य कर्त्तव्यपक्षात् ।  
 किन्तु प्राणानपि पणयितुं सत्यभक्तौ स्थितोऽसौ ,  
 सर्वं सौढुं प्रभवति पुनर्नैव सत्यं जहाति ॥

अन्वय — कर्त्तव्यपक्षात् सत्यसंरक्षणाय स्वस्य स्थितिम् अनुसरन् सत्यासक्तः (जनः) सर्वं कष्टम् अनुभवति । तत् सत्यभक्तौ प्राणान् पणयितुं स्थितः सन् असौ सर्वं सोढुं प्रभवति, किन्तु पुनः अपि सत्यं न एव जहाति ।

अर्थ—कर्त्तव्य पक्ष को लेकर सत्य के संरक्षण के लिए अपनी स्थिति का अनुसरण करता हुआ सत्यानुरागी पुरुष सब कष्ट भोगता है । अतः सत्य की सेवा में प्राणों का सौदा करने के लिए खड़ा होकर वह सब सहने को तत्पर होता है, किन्तु सत्यवान् सत्य को नहीं छोड़ता ।

( २६ )

आज्ञा नीत्वा किमपि निहितं वस्तु यो निग्रहीतुम् ,  
 स्वीयां वृत्तिं कपटरहितां लाभलोभाशशून्याम् ।  
 स्वान्ते कृत्वाऽऽचरति सजनोऽस्तेयचित्तः प्रशस्तः ,  
 ह्यस्तेयात्मा विहरति सदा निर्भयो निर्विशङ्कः ॥

अन्वय —य स्वान्ते कपटरहिता लाभलोभाशशून्या स्वीया वृत्तिं कृत्वा निहित किम् अपि वस्तु आज्ञा नीत्वा निग्रहीतुम् आचरति स प्रशस्त अस्तेयचित्त जन (अस्ति) । यतो हि अस्तेयात्मा निर्भय निर्विशङ्क विहरति ।

अर्थ—जो, हृदय मे निष्कपट लाभ और लोभ के प्रभाव से रहित अपने व्यवहार को बनाकर, रखे हुए किसी भी पदार्थ को आज्ञा लेकर, काबू पाने का आचरण करता है, वह प्रशस्त अस्तेयचित्त मनुष्य होता है । क्योंकि अस्तेयात्मा पुरुष सदा निर्भीक एव निश्शङ्क धूमता है ।

( ३० )

तेऽपि स्तेना भवितुमिह ये शक्नुवन्त्येव लोके ,  
 वित्तं लब्ध्वा विदधति निर्धौ सङ्ग्रहायैव यत्नम् ।  
 किन्तूत्पत्तौ सकलविभवस्यास्य योगोऽस्ति येषाम् ,  
 एवं तेभ्यो ददति न जना वित्तमन्ते कदाचित् ॥

अन्वयः—इह लोके ये वित्त लब्ध्वा निर्धौ एव सङ्ग्रहाय यत्न विदधति, किन्तु अस्य सकलविभवस्य उत्पत्तौ येषा (जनाना) योग अस्ति, तेभ्यः (जनेभ्यः) अन्ते वित्त न ददति, एव कदाचित् ते अपि जना स्तेना भवितुं शक्नुवन्ति ।

अर्थ—इस ससार मे जो धन प्राप्तकर कोष मे ही जमा करने के लिए यत्न करते रहते है, किन्तु इस समस्त धन की उत्पत्ति मे जिन मनुष्यो का योग है, उन मनुष्यो को अन्त मे धन नही देते, ऐसे कदाचित् वे भी मनुष्य चोर हो सकते हैं ।

( ३१ )

अस्तेयं यत् स्वयमधिगतं द्रव्यमन्यस्य हेतोः ,  
 दातारो ये हितमिति भवेदस्यकिञ्चित् कथञ्चित् ।  
 ते सर्वेऽमी सद्यहृदयाः सन्ति पुण्यप्रभावाः ,  
 धन्यात्मानो जगति जयिनो दानिनोऽस्तेयचित्ताः ॥

अन्वय.—‘अस्य अन्यस्य कथञ्चित् किञ्चित् हित भवेत् इति हेतोः  
 ये दातार यत् स्वयम् अधिगतम् अस्तेय द्रव्य ससुख ददति, अमी सर्वे ते पुण्य-  
 प्रभावा धन्यात्मान अस्तेयचित्ता. जयिन. दानिन सन्ति. ।

अर्थ—‘इस दूसरे का किसी प्रकार कुछ भला हो’ इस हेतु से जो दाता जिस  
 स्वय प्राप्त अस्तेय द्रव्य को सुविधानुसार देते हैं, ये सभी वे पुण्यवान् धन्य अस्तेय  
 चित्त यशस्वी हैं, जो दानी कहे जा सकते हैं ।

( ३२ )

रूपोत्कृष्टां श्लथितवसनां कामिनी कामदग्धाम् ,  
 सम्यक् दृष्ट्वा चलति न मनश्चञ्चल यस्य धीरम् ।  
 अत्यासक्तामपि सुवदनामुत्तरं यो न दद्यात् ,  
 छायां तस्याः स्पृशति न करो यस्य स ब्रह्मचारी ॥

अन्वय —रूपोत्कृष्टा श्लथितवसना कामदग्धा कामिनी सम्यक् दृष्ट्वा  
 यस्य चञ्चल मन धीर सत् न चलति, यः अत्यासक्ताम् सुवदनाम् अपि  
 उत्तर न दद्यात्, यस्य करः तस्या (कामिन्या) छाया न स्पृशति, स ब्रह्म-  
 चारी (भवति) ।

अर्थ—रूप से उत्कृष्ट खिसले हुए वस्त्रो वाली कामार्त्त कामिनी को भली  
 प्रकार से देखकर जिसका चञ्चल मन धीर होकर विचलित नहीं होता, जो अत्यासक्त  
 सुवदना कामिनी को उत्तर तक नहीं देता, जिसका हाथ उस कामिनी की छाया  
 तक को नहीं छूता, वह ब्रह्मचारी होता है ।

( ३३ )

ब्रह्माश्चर्यं जगति तनुते ब्रह्मचर्यं प्रशस्तम् ,  
 यस्योत्कर्षं भुवनविदितं कोऽपि वक्तु न शक्तः ।  
 रम्य रूप स्पृशति तृणकं लज्जमानं परन्तु ,  
 स्वस्यास्तित्वं कथमपि धरन् नृत्यतीद तदग्रे ॥

अन्वय —जगति प्रशस्त ब्रह्मचर्यं ब्रह्माश्चर्यं तनुते। यस्य (ब्रह्मचर्यस्य) भुवनविदितम् उत्कर्षं क. अपि वक्तु शक्त न (अस्ति) । रम्य रूप (कर्तृ) लज्जमान सत् तृणक स्पृशति, परन्तु इद (रम्य रूप) स्वस्य अस्तित्व कथमपि धरत् तदग्रे नृत्यति, अर्थात् ब्रह्मचर्यं सर्वातिशायि वर्त्तते ।

अर्थ—ससार मे प्रशस्त ब्रह्मचर्य ने महान् आश्चर्य फैला रखा है । जिस ब्रह्मचर्य के विश्वविख्यात वैशिष्ट्य को कोई भी कहने के लिए समर्थ नहीं हो सका है । यहाँ तक कि यह रमणीय रूप भी लज्जित होकर तिनके तोड़ने लगता है, किन्तु यह अपने अस्तित्व को किसी प्रकार रखकर उस ब्रह्मचर्य के सामने मे नाचता रहता है, अर्थात् यह ब्रह्मचर्य जगदुत्तर है ।

( ३४ )

इच्छाबद्धो विकृतहृदयश्चिन्तया पीडितोऽयम् ,  
 श्रेष्ठं वस्तु प्रभवति सदा स्वात्मने निग्रहीतुम् ।  
 सर्वस्व मे भवतु निखिलं सर्वथैव विचिन्वन् ,  
 स्वार्थी जीवो ग्रहणनिरतो जायते दुःखदग्धः ॥

अन्वय —अय विकृतहृदय (मनुष्य) इच्छाबद्ध चिन्तया पीडित सन् सदा स्वात्मने श्रेष्ठ वस्तु निग्रहीतु प्रभवति । सर्वथा विचिन्वन् 'निखिल सर्वस्व मे भवतु' एवम् इच्छति । (यतो हि) ग्रहणनिरत स्वार्थी जीव दुःखदग्ध जायते ।

अर्थ—यह विकृत हृदय वाला मनुष्य इच्छाओं से घिरा हुआ चिन्ता से पीडित होकर सदा अपने लिए श्रेष्ठ वस्तु को पाने के लिए प्रभाव डालता है । सब प्रकार से सग्रह करता हुआ 'सम्पूर्ण सर्वस्व मेरा हो' ऐसा चाहता है । क्योंकि आपाधापी मे सलग्न स्वार्थी प्राणी वेचैन बन जाता है ।

( ३५ )

पारिग्रह्या<sup>१</sup> ग्रहणविषया दुःखमूला प्रवृत्तिः ,  
 त्यक्तव्येयं विशदहृदयैः सर्वथा दुष्प्रवृत्तिः ।  
 अस्यास्त्यागाद् भवति च पुन मोक्षमार्गाधिकारी,  
 तस्मादन्ते जयति जगती जागरूकोजनौऽसौ ।

अन्वयः—ग्रहणविषया दुःखमूला प्रवृत्तिः पारिग्रह्या (अस्ति) विशद-  
 हृदयै (साधकै) इय दुष्प्रवृत्तिः सर्वथा त्यक्तव्या (वर्तते) । अस्याश्च  
 (दुष्प्रवृत्ते) त्यागात् पुन (साधक) मोक्षमार्गाधिकारी भवति । तस्मात्  
 मोक्षमार्गाधिकारात् अन्ते असौ (साधक) जन जागरूक सन् जगती  
 जयति ।

अर्थ—ग्रहणविषयवाली दुःखमूल की प्रवृत्ति पारिग्रह्या है । स्वच्छान्त करण  
 साधको के द्वारा यह दुष्प्रवृत्ति सर्वथा छोड़ने के योग्य है । और इस दुष्प्रवृत्ति के  
 परित्याग से फिर साधक मोक्ष के मार्ग का अधिकारी बनता है । उस मोक्ष के मार्ग  
 के अधिकार के बाद वह साधक पुरुष निरन्तर जगकर ससार को जीतता है ।

( ३६ )

एताः शिक्षाः कृतपरिचयाः स्वात्मनैवाधिगत्य ,  
 सश्रद्धोऽयं भ्रमति परितो निर्भ्रमः सन्नुदस्तः ।  
 स्वीयान् भावान् हृदयनिहितान् बोधयन्नात्मनीनान्,  
 क्षन्तुं लोकान् नमति निपुण वा क्षमा चाधिगन्तुम् ॥

अन्वयः—स्वात्मना एव एता कृतपरिचयाः शिक्षा अधिगत्य अयं  
 सश्रद्ध निर्भ्रम च उदस्तः सन् परितः भ्रमति । स्वीयान् हृदयनिहितान्  
 भावान् आत्मनीनान् बोधयन् लोकान् क्षन्तु वा क्षमाम् अधिगन्तुम् निपुण  
 नमति ।

अर्थ—अपने आप ही इन पूर्वपरिचित शिक्षाओं को अधिगत कर यह श्रद्धालु  
 और सावहित उदासीन होकर उधर-इधर घूमता-फिरता है । और अपने हृदयस्य  
 विचारों को अपने ही हितेच्छुओं को समझाता हुआ (अमरसिंह) मनुष्यों को क्षमा करने  
 के लिये अथवा उनमें क्षमा प्राप्त करने के लिये कुशलतापूर्वक नमस्कार करता है ।

१ पारिग्रह एव पारिग्रह्यम्, स्वार्थेष्वत्र । ततो मत्वर्थीयि 'अर्णआद्यच्' इत्यच्  
 प्रवृत्तेर्विशेषणत्वेन स्त्रीत्वम् ।

( ३७ )

भावापन्नं प्रभवति ततः प्रेमसम्पृक्तचित्तम् ।  
 लोकं दृष्ट्वा मधुरवचनैश्चापि संक्षिप्तवृत्तैः ।  
 शान्त कर्तुं प्रतिदिनमय धर्मबालोष्णरश्मिः ,  
 पुण्यश्लोकः सरसवचसा तर्पयत्येव जन्यून ॥

अन्वयः—तत अयं धर्मबालोष्णरश्मि (अमरसिंह) प्रेम-सम्पृक्तचित्त भावापन्न लोक दृष्ट्वा मधुरवचनैः च संक्षिप्तवृत्तैः शान्तम् कर्तुं प्रतिदिन प्रभवति । (यतो हि) पुण्यश्लोक (पुरुष) एव सरस वचसा जन्यून तर्पयति ।

अर्थ—तदनन्तर यह धर्म का उदायमान सूर्य अमरसिंह प्रेम से सम्पृक्त चित्त वाले भावुक मनुष्य को देखकर मीठे वचनो से और इधर-उधर की बातों से शान्त करने के लिये प्रतिदिन प्रभावित करते थे । क्योंकि सत्पुरुष ही सरस वचन से मनुष्यो को अघा देते हैं, अर्थात् प्रसन्न रखते हैं ।

( ३८ )

प्रीणन्त्यन्ये चयितविभवा भुक्तभोगप्रपञ्चाः ,  
 धन्यमन्याः स्वकृतिविवशा पापकृत्यानि भर्तुंम् ।  
 सन्त्येकेऽमी विरतहृदया मृत्युजन्मैकचिन्ता . ,  
 ससारोऽय विविधविषयव्याप्तचित्तोऽन्धहस्ती ॥

अन्वयः—(अस्मिन् ससारे एकत) भुक्तभोगप्रपञ्चा धन्यमन्या. चयितविभवा स्वकृतिविवशा पापकृत्यानिभर्तुं प्रीणन्ति, (किन्तु) अन्ये मृत्युजन्मैकचिन्ता विरतहृदया एके अमी (अपि) सन्ति, अर्थात् ससारोऽय विलक्षण एवास्ति । (अत) अय ससार विविधविषयव्याप्तचित्त अन्धहस्ती अस्ति ।

अर्थ—(इस ससार मे एक ओर) विभिन्न भोगो को भोगने वाले अपने आपको धन्य समझते हुए धनसम्पत्तिशाली स्वकर्माधीन होकर पापों के कृत्यों को पोषण देने के लिये प्रसन्न हो रहे हैं । (किन्तु) (दूसरी ओर) मृत्यु और जन्म की प्रमुख चिन्तावाल उदासीन दूसरे ये भी हैं, अर्थात् यह ससार अनौखा-ही है । इसलिये यह ससार विविध विषयो से भरे हुए चित्त का एक अन्धा हाथी है—ऐसा कहा जा सकता है ।

( ३६ )

सिंहः सोऽयं तृणमयचयं मन्यते शूलमूलम् ,  
 सर्वश्रेष्ठ विभवभरितं मन्दिरं स्वर्गकल्पम् ।  
 अभ्रस्पर्शि प्रतिकृतिसमं भव्यकर्मप्रतीकम् ,  
 मोहोत्पन्नं गणयति सदा वीतरागोऽनुरागम् ॥

अन्वयः—(किन्तु विरक्त ) स अभ्रस्पर्शि भव्यकर्मप्रतीकम् प्रतिकृति-  
 सम विभवभरित स्वर्गकल्प सर्वश्रेष्ठ मन्दिरम् अयम् सिंह (अमरसिंहः)  
 शूलमूल तृणमयचय मन्यते । (यतोहि) सदा वीतराग (जन) अनुराग  
 मोहोत्पन्न गणयति ।

अर्थ—किन्तु विरक्त होकर वह—गगनचुम्बी, भव्यकर्म का प्रतीक, नमूने के  
 समान, धन-धान्य से पूर्ण स्वर्ग से कुछ कम आलीशान मकान को यह सिंह अमरसिंह  
 कण्टो की जडकावास-फुंम का ढेर समझता है । क्योंकि सदा वीतराग पुरुष अनुराग  
 को मोह से उत्पन्न हुआ ही गिनता है ।

( ४० )

आज्ञां लब्ध्वा धृतमतिरयं पूज्यपादात् पितुश्च ;  
 मातुर्मत्वा शुभमतिशयं भव्यभावोदयस्य ।  
 दीक्षाऽऽदानं विमलमतिकाल्लालचन्द्रान्मुनीन्द्रात् ,  
 प्राप्तुं रत्न यतति नियत पञ्चशिक्षया व्रतस्य ॥

अन्वय —अय वृतमति. (अमरसिंह) मातु पूज्यपादात् पितु च  
 आज्ञा लब्ध्वा भव्यभावोदयस्य शुभम् अतिशय पञ्चशिक्षया व्रतस्य रत्नम्  
 दीक्षाऽऽदान मत्वा विमलमतिकाल् लालचन्द्रात् मुनीन्द्रात् लालचन्द्रात् प्राप्तुम् नियत  
 यतति ।

अर्थ—यह निश्चयी अमरसिंह माता और पूज्यपाद पिता की आज्ञा लेकर  
 भव्य भावों के उदय का मङ्गलमय आशिस्य, ममाहृत पाँचों शिक्षाओं के व्रत के रत्न  
 दीक्षाऽऽदान को मानकर विद्वान् श्रीलालचन्द्र मुनिराज ने उक्त रत्न को प्राप्त करने के  
 लिये नियमपूर्वक यत्न करता है ।

( ४१ )

हेतोस्तस्मात्प्रतिदिनमयं याति दीक्षां जिघृक्षुः ,  
 ध्याने मग्ना विहितविधयः श्रावका यत्र सन्ति ।  
 तत्रैवासी निजविधिरतो लालचन्द्रो मुनीन्द्रः ,  
 स्थाने वासी धवलवसनो राजते वक्त्रवस्त्रः ॥

अन्वय — तस्मात् हेतो अयम् (अमरसिंह) दीक्षाम् जिघृक्षु प्रतिदिन याति, यत्र विहितविधय ध्याने मग्ना श्रावका सन्ति । तत्र एव असौ स्थाने वासी वक्त्रवस्त्र निजविधिरतः मुनीन्द्र लालचन्द्र राजते ।

अर्थ— इस कारण से यह दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वाला अमरसिंह प्रतिदिन पहुँचता है, जहाँ पर सामायिकादि क्रिया करने वाले ध्यानस्थ श्रावक है, वहाँ पर ही वे स्थानकवासी मुख पर वस्त्रधारण किये हुए निज क्रियाओं में लीन मुनिराज श्री लालचन्द्र जी विराजते हैं ।

( ४२ )

सोऽयं श्रद्धाविनतवदनः सत्रिकृत्वोऽभिवन्द्य ,  
 गुप्तेर्ज्ञानं समिति सहितं चाधिगत्योपभिक्षुः ।  
 स्तोकव्यूहं स्मरति सततं शास्त्रसारस्वरूपम् ,  
 येनाऽहं स्यां परमकृपया मे गुरोः प्रीतिपात्रम् ।

अन्वय — स अयम् श्रद्धाविनतवदन सत्रिकृत्व अभिवन्द्य उपभिक्षु स समिति सहित गुप्ते ज्ञानम् अधिगत्य शास्त्रसारस्वरूप स्तोकव्यूह सतत स्मरति । येन अहम् मे गुरो परमकृपया प्रीतिपात्र स्याम् ।

अर्थ— अब यह श्रद्धा से नतमुख हो तीन बार वन्दन कर और मुनिजन के समीप में समिति सहित गुप्ति के ज्ञान को प्राप्त कर शास्त्रों के सारस्वरूप थोकड़ों को निरन्तर गिनता रहता है । जिससे कि मैं अपने गुरु की परमकृपा से प्रीतिपात्र बन जाऊँ ।



( ४३ )

सश्रद्धोऽयं विधिमुपगतोऽभ्यस्तशास्त्रोऽप्युदस्तः ,  
 दीक्षार्थी सन् प्रणतनयनो भावमात्रप्रवीणः ।  
 ब्रूते यत्किं कथयतु भवानस्मि दीक्षां ग्रहीतुम् ,  
 योग्योऽवोचत्स इति सहसा यद्यह स्यां गुरुस्ते ॥

अन्वयः—विधिम् उपगत , भावमात्रप्रवीण , अभ्यस्त-शास्त्र अपि उदस्त सश्रद्ध प्रणतनयन दीक्षार्थी सन् अय ब्रूते यत् भवान् कथयतु, किम् (अह) दीक्षा ग्रहीतु योग्य अस्मि इति, स (मुनिराज ) (श्रीलालचन्द्र.) सहसा अवोचत्—यदि अहम् ते गुरु स्याम्—(तदा त्व योग्य. असि, अन्यथा त्व योग्योनासीत्यर्थः) ।

अर्थ—क्रियावान् भावुक विद्वान् होकर भी उदासीन श्रद्धालु झुके हुए नेत्रों वाला दीक्षा की चाह रखकर कहता है कि आप बताइये, क्या मैं दीक्षा ग्रहण करने के लिये योग्य हूँ ? ऐसा वे मुनिराज श्री लालचन्द्रजी एक साथ कहने लगे कि यदि मैं तेरा गुरु होता हूँ तो तू योग्य है, अन्यथा तू योग्य नहीं है—यह इसका अर्थ है ।

( ४४ )

स्वीकारोक्तिं स्वयमधिकृतां प्रेमपूर्वां मुनेस्तु ,  
 श्रुत्वा हर्षं जनयति पर देवसिहात्मजोऽयम् ।  
 चर्चयं तु प्रचलति तदा धर्मवृद्धेष्वहो किम् ,  
 सन्तोऽप्येवं धृतिमुपगताः शिष्यता घोषयन्ति ॥

अन्वय —मुने स्वयम् अधिकृता प्रेमपूर्वा स्वीकारोक्तिम् श्रुत्वा अय देवसिहात्मज (अमरसिंह) तु पर हर्षं जनयति । (किन्तु) इय चर्चा धर्म-वृद्धेषु प्रचलति—अहो एव किम् धृतिम् उपगताः सन्त सन् अपि शिष्यता घोषयन्ति ।

अर्थ—मुनिराजश्री की स्वाधिकृत प्रिय स्वीकृति के वचन सुनकर श्री देवसिंह जी के पुत्र अमरसिंह तो मारे हर्ष के फूले नहीं समाये । किन्तु यह चर्चा धार्मिक पुरुषों में चलने लगती है कि देखो—धीर सन्त होकर भी शिष्यता की घोषणा करते हैं ।

( ४५ )

सुकृतं कृतमस्ति वा न वा, यदि शङ्का तव मानसे ननु ।  
कथमेति तु चास्य निश्चय, तदनु प्राप्नुहि काव्य-कौशलम् ॥

अन्वयः—कविरिह कविं स्तौति—त्वया सुकृत कृत न वा कृतम् यदि (एतादृशी) शङ्का ननु तव मानसे (अस्ति) । अस्य (प्रश्नस्य) च निश्चयः कथम् एति ? इति प्रश्ने तु—कवे काव्यकृतिं तदा पश्य, इत्युत्तरमस्ति । एतेन ज्ञायते-सुकृतवानेव कविर्भवति । यस्य सम्यक् कृत नास्ति, न कोऽपि तं प्रशंसते एव स कविरपि नास्ति । अतो नाह कविरस्मीत्यर्थं ।

अर्थ—यहाँ कवि कवि की स्तुति करता है—तू ने सुकृत किया है कि नहीं—यदि ऐसी शङ्का तेरे मन में है तो फिर इस प्रश्न का निश्चय कैसे हो ? इस प्रश्न पर उत्तर मिलता है कि कवि की काव्यकृति को देख । इससे ज्ञात होता है—सुकृतवान् अर्थात् पुण्यवान् ही कवि होता है । जिसका अच्छा किया नहीं है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता । इस प्रकार वह कवि भी नहीं है ।

( ४६ )

अथ कविर्विशिनष्टि विशेषितम् ,  
नरवर सुगुणैः सकलैर्यथा ।  
कुसुम सौरभपत्रसमुच्छ्रितम् ,  
तरुमलङ्कुरुते कृतिमालिकम् ॥

अन्वयः—अथ कवि विशेषित नरवर सकलै सुगुणै. विशिनष्टि,  
यथा कृतिमालिक कुसुमसौरभपत्रसमुच्छ्रित तरुम् अलङ्कुरुते ।

अर्थ—कवि विशेषित मनुष्य श्रेष्ठ को सभी सुगुणों से उपलक्षित विशेषण देकर वर्णन करता है, जैसे चतुर माली पुष्पों की गन्ध और पत्तों से बड़े-बड़े वृक्ष को अच्छा लगे ऐसा सँवारता रहता है ।

## तृतीयः सर्गः

( १ )

जैनं शासनमेव नाम शरणं यस्यास्ति घोरव्रतम् ,  
 तं सन्त प्रणमन्ति धर्मनिरताः पुण्यार्जिताः सज्जनाः ।  
 ये स्वं ते वितत तथाप्यतिकथं किञ्चित्करं मन्वते ,  
 तस्याग्रे कथन सदा विकथन पुण्याय मन्यामहे ॥

अन्वय — यस्य जैन शासनम् नाम, घोरव्रत शरणम् अस्ति, त सन्त ते धर्मनिरता पुण्यार्जिता सज्जना प्रणमन्ति, ये विततम् अतिकथ स्व तथापि किञ्चित्करम् मन्वते । तस्य अग्रे कथनम्, सदा विकथनम् (अस्ति), पुन तस्य कथन कुत क्रियते ? तत्कथन वय पुण्याय मन्यामहे अतस्तत् कथनमस्ति—इत्यर्थ ।

अर्थ—जिमका जैन शासन ही एक रक्षक है, ऐसा घोर व्रत था—अर्थात् आजीवन जिसका पालन और प्रचार किया, ऐसे उम घोरव्रती को, वे धार्मिक पुण्यवान् सज्जन प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपार वणनातीत सम्पत्ति को तुच्छ समझा है या मानते हैं । ऐसे उस मन्त के सामने कहना, मदा न कहने के समान ही है । फिर उसका कथन किसलिये करते हो ? इनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कोई न कोई तो पुण्य होगा ही । अत हम उस सन्त की प्रशंसा करते हैं ।

( २ )

नक्षत्रे विमले विधाय घटिते पञ्चाङ्गसिद्धे शुभे ,  
 श्रीसङ्घानुमते विशुद्धसमये ख्याते मुहूर्त्ते विधिम् ।  
 दीक्षार्थी परमादृतोऽपि विनयी शिष्टेष्वपि अमरसिंहः ,  
 धर्माप्ता महती सुबोधजननी दीक्षां स्वतः प्रेक्षते ॥

अन्वयः—श्रीसङ्घानुमते पञ्चाङ्गसिद्धे निर्दोषे शुभे नक्षत्रे विशुद्धसमये ख्याते मुहूर्त्ते घटिते विधि विधाय परमादृतोऽपि विनयी शिष्टेष्वपि इष्टः दीक्षार्थी अमरसिंह धर्माप्ता महती सुबोधजननी दीक्षा स्वतः प्रेक्षते ।

अर्थ—श्री सघ से अनुमत, पचाग से सिद्ध, निर्दोष शुभ नक्षत्र के रहते हुए विशुद्ध समय के प्रसिद्ध मुहूर्त्त के घटित होने पर, विधि को सम्पादित कर, अधिक आदर किये जाने पर भी विनीत, एव शिष्टजनों मे भी अभिमत दीक्षार्थी अमरसिंह, धर्म से प्राप्त महत्त्वपूर्ण, सुबोध को उत्पन्न करनेवाली दीक्षा की प्रतीक्षा करने लगता है ।

( ३ )

दीक्षां भागवती ददातु भगवन् कारुण्यवारां निधे !  
 आधिव्याधिकथाकराय विमलामज्ञाय जीवाय मे ।  
 रुद्धोऽहं भवजन्ममृत्युगतिभिः संसारदु खार्णवम् ,  
 येन स्यां त्वरितं समर्थशरणं पोतस्तरीनु यथा ॥

अन्वयः—हे कारुण्यवारा निधे ! भगवन् ! आधिव्याधिकथाकराय अज्ञाय जीवाय मे विमला भागवती दीक्षा ददातु । (यतो हि) अहं भवजन्म-मृत्युगतिभि रुद्ध (अस्मि) । येन (यद्यहं दीक्षितो भवामि तदा) समर्थशरण-सन् संसारदु खार्णवम् त्वरित तरीतु पोत यथा स्याम् ।

अर्थ—हे कारुण्यरूप जल के निधि भगवन् ! आधि और व्याधि को कहानियो की खान जैसे अबोध प्राणी मुझको पवित्र भागवती-दीक्षा प्रदान कीजिये । क्योकि मैं संसार के जन्म और मृत्यु की स्थितियों से अवरुद्ध हूँ । जिससे (यदि दीक्षित होता हूँ तो) समर्थशरण होकर संसार के दु ख रूप समुद्र को शीघ्र तैर कर पार पाने के लिये, जहाज के समान हो जाऊँ ।

( ४ )

श्रुत्वा तस्य वच स्वभावकरुणो दीक्षाप्रदाता मुनिः ,  
 ब्रूते तं विनयानतं सकरुणं दीक्षा व्रत प्रार्थिनम् ।  
 आभारव्यथितं मनोहरमिदं हर्षप्रकर्षं वचः ,  
 दीक्षां दातुमनास्तथापि तदहं याचे किमप्युत्तरम् ॥

अन्वयः—स्वभावकरुण दीक्षाप्रदाता मुनि (श्रीलालचन्द्र महाराज ) तस्य वच श्रुत्वा तम् आभारव्यथित विनयानत दीक्षाव्रतप्रार्थिनम् (अमरसिंह) सकरुण हर्षप्रकर्षमनोहरम् इदं वच ब्रूते, (यद्यपि) अहम् दीक्षा-दातुमना (अस्मि) । तथापि किम् अपि तद् उत्तर याचे ।

अर्थ—परमदयालु दीक्षा देनेवाले मुनि श्रीलालचन्द्रजी महाराज ने उसकी प्रार्थना सुनकर, उस आभार व्यथित विनय से नम्र दीक्षाव्रत के प्रार्थी अमरसिंह को दया के साथ हर्षाधिक्यवाले चित्तार्कषक वचन कहने लगे कि यद्यपि मैं दीक्षा देने के लिये तत्पर हूँ, तथापि कुछ उत्तर चाहता हूँ ।

( ४७ )

तदनुरूपमहं गुणशालिनम् ,  
 अमरसिंह भविष्णुमुनिं गुरुम् ।  
 प्रविशिनङ्गिम् शुभैः पदभूषणैः ,  
 पददरिद्रकविः कविकिङ्करः ॥

अन्वयः—तदनुरूपम् अहं पददरिद्रकवि कविकिङ्कर गुणशालिन  
 गुरुम् अमरसिंहभविष्णुमुनिं शुभैः पदभूषणैः प्रविशिनङ्गिम् ।

अर्थ—तदनुरूप मैं शब्दों के अभाव से ग्रस्त कवि, कवियों का वशवर्ती गुण-  
 शाली गुरु अमरसिंह भविष्णु मुनि को माङ्गलिक शब्द रूप भूषणों से उपलक्षित  
 विशेषण देकर वर्णन कर रहा हूँ ।

( ४८ )

अहन्तु मन्ये परमेव दुष्करम् ,  
 सुवर्णनं तत् प्रतिभाविलासिभिः ।  
 सुशब्द धारारसरीत्यलङ्कृतम् ,  
 विधीयते यत् कविभिर्महाशयैः ॥

अन्वयः—महाशयै प्रतिभाविलासिभि कविभि यत् सुशब्दधारारस-  
 रीत्यलङ्कृत सुवर्णनं विधीयते, तत् परम दुष्करम् एव (अस्ति) । इति तु  
 अहं मन्ये । (तथापि मया वर्ण्यते विवक्षयेत्यर्थ) ।

अर्थ—महान् आशय वाले प्रतिभाधारी कवियों के द्वारा जो सुन्दर वर्णन  
 किया जाता है, वह बहुत कठिन ही है, ऐसा तो मैं मानता हूँ । तो भी मेरे द्वारा  
 यह वर्णन किया जा रहा है, वह सब कहने की इच्छा से ही है—यह ऐसा इसका  
 अर्थ है ।

( ४६ )

दीक्षायां यदपेक्षितं विवरण संवर्ण्यं शक्तेः परम् ,  
 दीक्षामेवमहं पुनर्विवरितुं वाञ्छामि सेच्छ ततम् ।  
 येनायं मुनिरेव कीर्त्तिविमलो जायेत सिंहोऽमरः ,  
 प्रख्यातः स्वगुणैर्महानपि पुनर्वर्ण्येत सर्गेऽग्रिमे ॥

अन्वय —(मम) शक्तेः पर यत् अपेक्षित विवरण दीक्षायाम् (आसीत्) तत् संवर्ण्यं अहम् एव सेच्छ तत् पुन विवरितुम् वाञ्छामि, येन स्वगुणै प्रख्यात अपि कीर्त्तिविमल सिंह मुनि. अमर (अमरसिंह) महान् एव जायेत । अत (मया) पुन अयम् अग्रिमे सर्गे वर्ण्येत ।

अर्थ—मेरे सामर्थ्य से अधिक जो अपेक्षित विवरण दीक्षा के विषय में था, उसको भली प्रकार वर्णित कर मैं अब इच्छा के साथ विस्तृत विवरण को एक बार फिर वर्णित किया चाहता हूँ, कि जिससे अपने गुणों से प्रख्यात होने पर भी प्रशस्त सिंह सदृश मुनि अमरसिंह महान् ही बने रहे । इसीलिए मेरे द्वारा फिर यह (अमरसिंह) आगे के सर्ग में वर्णित किया जायेगा ।

इति श्रीमता राजस्थान केसरिणा पण्डितरत्नेन  
 उपाध्याय पदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
 श्रीमदाचार्यमरसिंह महाकाव्ये  
 द्वितीय सर्गः



## तृतीयः सर्गः

( १ )

जैनं शासनमेव नाम शरणं यस्यास्ति घोरव्रतम् ,  
तं सन्तं प्रणमन्ति धर्मनिरताः पुण्यार्जिताः सज्जनाः ।  
ये स्वं ते विततं तथाप्यतिकथं किञ्चित्करं मन्वते ,  
तस्याग्रे कथन सदा विकथन पुण्याय मन्यामहे ॥

अन्वय — यस्य जैन शासनम् नाम, घोरव्रत शरणम् अस्ति, तं सन्तं ते धर्मनिरता पुण्यार्जिता सज्जना प्रणमन्ति, ये विततम् अतिकथ स्व तथापि किञ्चित्करम् मन्वते । तस्य अग्रे कथनम्, सदा विकथनम् (अस्ति), पुन तस्य कथन कुत क्रियते ? तत्कथन वय पुण्याय मन्यामहे अतस्तत् कथनमस्ति—इत्यर्थ ।

अर्थ—जिसका जैन शासन ही एक रक्षक है, ऐसा घोर व्रत था—अर्थात् आजीवन जिसका पालन और प्रचार किया, ऐसे उस घोरव्रती को, वे धार्मिक पुण्यवान् सज्जन प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपार वर्णनातीत सम्पत्ति को तुच्छ समझा है या मानते हैं । ऐसे उस सन्त के सामने कहना, मदा न कहने के समान ही है । फिर उसका कथन किसलिये करते हो ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कोई न कोई तो पुण्य होगा ही । अतः हम उस सन्त की प्रशंसा करते हैं ।

( २ )

नक्षत्रे विमले विधाय घटिते पञ्चाङ्गसिद्धे शुभे ,  
श्रीसद्धानुमते विशुद्धसमये ख्याते मुहूर्त्ते विधिम् ।  
दीक्षार्थी परमादृतोऽपि विनयी शिष्टेऽपि विनयीः ,  
धर्माप्ता महती सुबोधजननी दीक्षा स्वतः प्रेक्षते ॥

अन्वयः — श्रीसद्धानुमते पञ्चाङ्गसिद्धे निर्दोषे शुभे नक्षत्रे विशुद्धसमये ख्याते मुहूर्त्ते घटिते विधि विधाय परमादृतोऽपि विनयी शिष्टेऽपि इष्टः दीक्षार्थी अमरसिंह धर्माप्ता महती सुबोधजननी दीक्षा स्वतः प्रेक्षते ।

अर्थ—श्री सध से अनुमत, पचास से सिद्ध, निर्दोष शुभ नक्षत्र के रहते हुए विशुद्ध समय के प्रसिद्ध मुहूर्त्त के घटित होने पर, विधि को सम्पादित कर, अधिक आदर किये जाने पर भी विनीत, एवं शिष्टजनो मे भी अभिमत दीक्षार्थी अमरसिंह, धर्म से प्राप्त महत्त्वपूर्ण, सुबोध को उत्पन्न करनेवाली दीक्षा की प्रतीक्षा करने लगता है ।

( ३ )

दीक्षां भागवती ददातु भगवन् कारुण्यवारां निधे !  
 आधिव्याधिकथाकराय विमलामज्ञाय जीवाय मे ।  
 रुद्धोऽहं भवजन्ममृत्युगतिभिः ससारदु खार्णवम् ,  
 येन स्यां त्वरितं समर्थशरणं पोतस्तरीनु यथा ॥

**अन्वयः**—हे कारुण्यवारा निधे ! भगवन् ! आधिव्याधिकथाकराय अज्ञाय जीवाय मे विमला भागवती दीक्षा ददातु । (यतो हि) अहं भवजन्म-मृत्युगतिभि रुद्ध (अस्मि) । येन (यद्यहं दीक्षितो भवामि तदा) समर्थशरणः सन् ससारदु खार्णवम् त्वरित तरीतु पोत यथा स्याम् ।

**अर्थ**—हे कारुण्यरूप जल के निधि भगवन् ! आधि और व्याधि को कहानियो की खान जैसे अबोध प्राणी मुझको पवित्र भागवती-दीक्षा प्रदान कीजिये । क्योकि मैं ससार के जन्म और मृत्यु की स्थितियो से अवरुद्ध हूँ । जिससे (यदि दीक्षित होता हूँ तो) समर्थशरण होकर ससार के दु ख रूप समुद्र को शीघ्र तैर कर पार पाने के लिये, जहाज के समान हो जाऊँ ।

( ४ )

श्रुत्वा तस्य वच स्वभावकरुणो दीक्षाप्रदाता मुनिः ,  
 ब्रूते तं विनयानतं सकरुणं दीक्षा व्रत प्रार्थिनम् ।  
 आभारव्यथितं मनोहरमिदं हर्षप्रकर्षं वच . ,  
 दीक्षां दातुमनास्तथापि तदहं याचे किमप्युत्तरम् ॥

**अन्वयः**—स्वभावकरुण दीक्षाप्रदाता मुनि (श्रीलालचन्द्र महाराज ) तस्य वच श्रुत्वा तम् आभारव्यथित विनयानत दीक्षाव्रतप्रार्थिनम् (अमरसिंह) सकरुण हर्षप्रकर्षमनोहरम् इदं वच ब्रूते, (यद्यपि) अहम् दीक्षा-दातुमना (अस्मि) । तथापि किम् अपि तद् उत्तर याचे ।

**अर्थ**—परमदयालु दीक्षा देनेवाले मुनि श्रीलालचन्द्रजी महाराज ने उसकी प्रार्थना सुनकर, उस आभार व्यथित विनय से नम्र दीक्षाव्रत के प्रार्थी अमरसिंह को दया के साथ हर्षाधिक्यवाले चित्ताकर्षक वचन कहने लगे कि यद्यपि मैं दीक्षा देने के लिये तत्पर हूँ, तथापि कुछ उत्तर चाहता हूँ ।



( ५ )

दीक्षायै यतसे परन्तु सतत जानीहि तथ्य परम् ,  
 काठिन्य नितरा तथापि सुयमा तेषां कृते विद्यते ।  
 सद्ज्ञानाभिरता विरक्तहृदयास्त्यक्तानुरागाक्रिया ,  
 ये सन्ति प्रथमे समे सकरुणा स्वेषां परेषां समाः ॥

अन्वयः—(यद्यपि) त्व दीक्षायै यतसे (एतत्तु सत्यम्) परन्तु दीक्षायाम् त्व पर तथ्य जानीहि, यत्तत्र सतत नितरा काठिन्य (वर्त्तते) । तथापि इय दीक्षा तेषा कृते सुगमा विद्यते, ये समे प्रथमे सत्तत्त्वाभिरता विरक्त हृदया त्यक्तानुरागक्रिया रवेपा परेषा च समा सन्ति ।

अर्थ—यद्यपि तुम दीक्षा लेने के लिये यत्न कर रहे हो, यह तो ठीक है, किन्तु दीक्षा के विषय में एक बड़ा तथ्य तुम को जान लेना चाहिये कि इसमें निरन्तर महान् काठिन्य है । तथापि यह दीक्षा उनके लिये सुगम है, जो सभी पहले सत्तत्त्व में लीन हैं, विरक्त हृदय के हैं, अनुराग की क्रियाओं को छोड़े हुए हैं, आत्मीय और अन्यदीय के निर्धारण के समान हैं ।

( ६ )

चोल किं प्रथसे विशिष्टमपर केशस्य लोच पुन . ,  
 वान्यद् मुण्डनमात्रमेव मनुषे चिह्न विरक्तेरितः ।  
 यद्वा त्वं तनुषे स्वतन्त्रमपि तद् वक्तुं किमन्यत्स्वतः ,  
 येनस्यादभित स्फुट यदिह ते स्पष्टं त्वभीष्ट मतम् ॥

अन्वयः—किं त्व विरक्ते विशिष्ट चिह्न चोल प्रथसे ? अपर वा केशस्य लोच प्रथसे ? अन्यद् वा मुण्डनमात्रम् एव मनुषे ? यद्वा स्वत. अपि अन्यत् स्वतन्त्रम् तद् वक्तु तनुषे किम् ? येन अभित स्फुट ते यदिह अभीष्ट मत स्पष्ट स्यात् ।

अर्थ—क्या तुम विरक्ति का विशिष्ट चिह्न चोलवस्त्र कहते हो ? अथवा केश के लोच को बताते हो ? अथवा मुण्डन को ही विरक्ति का चिह्न मानते हो ? अथवा इस विरक्ति के विषय में तुम्हारा कोई स्वतन्त्र चिह्न है जिसको तुम विस्तृत किया चाहते हो ? जिससे कि सब ओर से स्फुट तुम्हारे अभीष्ट सिद्धान्त का स्वरूप ज्ञात हो सके ।

( ७ )

प्रश्नैरेव यदस्ति मेऽपि भवतां ज्ञातव्यमस्त्युत्तरम् ,  
 तेषामाशय एव मे परिचय सम्प्राप्तुमिच्छन्ति तत् ।  
 श्रीमन्तो मनसो दृढं समुचितं तस्योत्तरं वर्तते ,  
 सक्षिप्तं परिहाय चोत्तरमिदं भक्तोऽस्म्यहं श्रद्धया ॥

अन्वयः—भवताम् एव प्रश्नै यत् ज्ञातव्यम् अस्ति, (तस्य) मे अपि उत्तरम् अस्ति । (किन्तु) तेषाम् (प्रश्नानाम्) आशय एव अस्ति-यत् श्रीमन्तः मे मनसः दृढ परिचय सम्प्राप्तुम् इच्छन्ति । तस्य च समुचितम् उत्तरम् वर्तते । (तथापि) तत् परिहाय (मम) सक्षिप्तम् उत्तरम् अस्ति—(यद् भवताम्) अहं श्रद्धया भक्त अस्मि ।

अर्थ—आपके ही प्रश्नों से जो समझा गया है, उसका मेरा भी उत्तर है । किन्तु उन प्रश्नों का अभिप्राय ही यह है कि श्रीमान् मेरे हृदय के वास्तविक परिचय को अच्छी तरह से प्राप्त किया चाहते हैं । और उसका समुचित उत्तर भी है । तथापि उसको छोड़कर मेरा सक्षिप्त उत्तर यही है कि आपका मैं श्रद्धा से भक्त हूँ ।

( ८ )

चोलस्यास्य स्वरूपकथनाद् मूल्यं न किञ्चित्परम् ,  
 मूल्यञ्चास्य तदैव जीवनमिदं सद्भावपूर्णं भवेत् ।  
 मूल्यं किं शिरसः सुकेशमभितो लोचान्वितं यत्कृतम् ,  
 मूल्यं तद् यदि मुण्डनस्य शिरसः कर्मक्षयोऽयं भवेत् ॥

अन्वय—अथापि निर्दिशत्युत्तरम्—अस्य चोलस्य चोलपट्टस्य वा (साधुरयमिति) स्वरूपकथनात् पर किञ्चित् मूल्य नास्ति । (अस्य च) मूल्यं तदा एव (सम्भवेत्) यत् इदं जीवनं सद्भावपूर्णं भवेत् । शिरसः यत् अभित सुकेश लोचान्वितं कृतं (तस्य) मूल्यं (विरक्तोऽयमिति) कथनात् अधिक मूल्य नास्ति । शिरसः मुण्डनस्य यदि मूल्यं (सम्भवेत्) तत्—(शिरसि प्रसृतानां) कर्मणा क्षय भवेत् ।

अर्थ—इस चोल या चोलपट्ट का (यह साधु है) इस स्वरूप-कथन के अतिरिक्त कोई मूल्य नहीं है । और इसका मूल्य तो तब ही हो सकेगा जब यह जीवन सद्भावपूर्ण हो या वने । शिर के सुन्दर केश का लोच करने का भी (यह विरक्त है) इससे अधिक क्या मूल्य हो सकता है ? शिर के मुण्डन का यदि कोई मूल्य हो सकता है तो वह यही है कि शिर पर छाये हुए कर्मों का क्षय हो ।

( ६ )

तस्मान्मे समताधुनापि हृदये स्वाभाविकी राजते ,  
 धर्मं कर्तुं मिहैव मङ्गलमयं श्रेष्ठां च वृत्तिं श्रये ।  
 अस्या. कारणतो मदीयपितरौ सद्भावपूतात्मकौ ,  
 गृह्णं तो दययानुभावमतुल माङ्गल्यमूलं मयि ॥

अन्वयः—तस्मात् मे हृदये अधुना अपि स्वाभाविकी समता राजते । मङ्गलमय धर्मं कर्तुं श्रेष्ठां च वृत्तिं श्रये । अस्या. (समताया.) कारणत सद्भावपूतात्मकौ मदीयपितरौ मयि दयया अनुल माङ्गल्यमूलम् अनुभावम् गृह्णीत ।

अर्थ—इससे मेरे हृदय मे आज भी स्वाभाविक समता विद्यमान है । मङ्गलमय धर्म के आचरण के लिए श्रेष्ठ वृत्ति का आश्रय ले रहा हूँ । इस समता के कारण से ही पवित्र मेरे माता-पिता मुझ पर दया के साथ अनोखा मंगलहेतु अनुभाव ग्रहण कर रहे हैं ।

( १० )

आशासे भगवन् ! विहाय कारुणाक्रान्तेन मह्यं हृदा ,  
 सन्देहानपरान् सहर्षमधुना दीक्षाव्रतं दास्यसि ।  
 येनाहं त्वरितं दधानि सुकृत स्वात्मानमुद्द्योतिम् ,  
 धर्मार्थं प्रयतैतरां च निरत संशोद्धुमन्तर्मनः ॥

अन्वयः—हे भगवन् ! अधुना अहम् आशासे, (यत्) त्वम् अपरान् सन्देहान् विहाय कारुणाक्रान्तेन हृदा मह्यं दीक्षाव्रत सहर्षं दास्यसि । येन स्वात्मानम् उद्द्योतिषु सुकृत त्वरित दधानि, अन्तर्मनं च संशोद्धु धर्मार्थं निरत प्रयतैतराम् ।

अर्थ—हे भगवन् ! अब मैं आशा करता हूँ कि आप दूसरे सन्देहों को छोड़कर मुझे दीक्षा का व्रत सहर्ष दोगे । जिससे कि मैं अपनी आत्मा को द्योतित करने के लिए सुकृत शीघ्र करूँ और अन्तर्मन को संशुद्ध करने के लिए धर्मार्थं निरन्तर प्रयत्न करता रहूँ ।

( ११ )

श्रुत्वा तद्वचन वर नियमितः सन्तः समेऽतूतुषन् ,  
 नेतारश्च परे सुमेघस इमां दीक्षां शुभामीक्षितुम् ।  
 ते सर्वे समवादिषुश्च समयुर्भावीत्ययं दृश्यते ,  
 येनाद्यानुनयेन वा सुवचसा क्षुब्धा वय हर्षिताः ॥

अन्वयः—तद्वचन वर श्रुत्वा समे नियमिन सन्त परे च सुमेघसः  
 नेतार इमा शुभा दीक्षाम् ईक्षितु समयु , ते सर्वे अतूतुषन् च समवादिषु  
 'अय भावी दृश्यते' इति । येन अद्य क्षुब्धा (अपि) वय सुवचसा वा अनु-  
 नयेन हर्षिता (स्म) ।

अर्थ—उस (अमरसिंह) के वचन अच्छी तरह सुनकर सभी सयमी सन्त  
 और दूसरे बुद्धिमान् अग्रणी पुरुष जो इस शुभ दीक्षा को देखने के लिए एकत्र हुए  
 थे, वे सब खूब खुश हुए और कहने लगे कि 'यह कोई होनहार दिखता है।' जिसने  
 घबडाए हम सबको मीठें वचन से अथवा अनुनय से खुश कर दिया है ।

( १२ )

केऽप्यन्ये कथयन्ति तं नवमुनिं प्रव्यक्तवाचां स्वतः ,  
 शुक्र वापि वृहस्पतिं दिविषदा रक्षोगणाना गुरुम् ।  
 हेतुञ्चास्य न कोऽपि वक्तुमशकद् दक्षो विलक्षोभवन् ,  
 संसारे पुरुषोत्तमान् क्व विबुधा वक्तुं न शक्ता वयम् ॥

अन्वयः—अन्ये केऽपि स्वत त नवमुनिम् (अमरसिंहम्) प्रव्यक्त वाचा  
 रक्षोगणाना गुरु शुक्र वा दिविषदा गुरु वृहस्पतिम् कथयन्ति । (किन्तु)  
 कश्च दक्ष. अपि विलक्ष भवन् अस्य हेतु वक्तु न अशकत् ! (यतोहि) संसारे  
 विबुधा पुरुषोत्तमान् वक्तु न शक्ता (भवन्ति), (तर्हि) वय शक्ता क  
 भवेम !

अर्थ—दूसरे कोई भी अपने आप उस नवीन मुनि (अमरसिंह महाराज) को  
 स्पष्टवाक् राक्षसों के गुरु शुक्र अथवा देवताओं के गुरु वृहस्पति कहने लगते हैं ।  
 किन्तु कोई निपुण भी आश्चर्यचकित होकर इसका हेतु न बता सका, कि ऐसा क्यों  
 हुआ ? क्योंकि संसार में देवता भी पुरुषोत्तमों को नहीं बता सकते तो फिर हम  
 कहाँ बता सकेंगे !

( १३ )

नत्वाऽयं श्रमणव्रजं च विततां शास्त्रोक्तगाथास्तुतिम् ,  
 कुर्वन्तं निखिलैर्जनैरधिगतं व्यावृत्तचित्तैः शुभम् ।  
 मन्वन्तं क्षणभङ्गुरं विकृतचिद् व्याप्तेन्द्रियं जन्तुकम् ,  
 आभारं मनुते स्थिते मुनिवर व्रातस्य सिंहोऽमरः ॥

अन्वयः—अयं सिंह अमर (अमरसिंह.) व्यावृत्तचित्तै निखिलै.  
 जनै अधिगत क्षणभङ्गुर विकृतचिद् व्याप्तेन्द्रिय जन्तुकमपि शुभम् मन्वन्त  
 च विततां शास्त्रोक्तगाथास्तुति कुर्वन्त श्रमणव्रज नत्वा मुनिवरव्रातस्य स्थिते.  
 आभार मनुते ।

अर्थ—यह अमरसिंह समाहित हृदय वाले सभी मनुष्यो से स्वीकृत आशु-  
 विनाशी विकृत चैतन्य प्राप्त के भोक्ता जीव को भी शुभ मानते हुए और विस्तृत  
 शास्त्रोक्त गाथायो से स्तुति करते हुए श्रमणगण को नमनकर मुनिवर समुदाय के  
 पधारने का आभार मानने लगा ।

( १४ )

नार्योऽपि प्रमथप्रभावमनिशं दीव्यन्तमंसांशुकम् ,  
 व्यक्ताभं विलसत्प्रभासमुदयव्याकीर्णवक्त्राम्बुजम् ।  
 आयान्त सुमनोऽधिपेन्द्र सुतनुव्यक्ताकृति मानुषम् ,  
 सिहान्ताद्यमरं स्तुवन्ति निरतं दीक्षाव्रतायामरम् ॥

अन्वयः—नार्यो अपि प्रमथप्रभाव व्यक्ताभ अंसांशुकम् अनिशम्  
 दीव्यन्तम् विलसत्प्रभासमुदयव्याकीर्णवक्त्राम्बुज सुमनोऽधिपेन्द्र-सुतनुव्यक्ता-  
 कृतिम् आयान्त सिहान्ताद्यमर मानुषम् अमर दीक्षाव्रताय निरत स्तुवन्ति ।

अर्थ—महिलाएँ भी काम-सुन्दर चमकीले कन्वे के दुपट्टे को निरन्तर झल-  
 काते हुए, छिटकती किरणो से घिरे हुए मुख-कमल वाले, देवताधो के स्वामी इन्द्र  
 के सुन्दर शरीर के समान है आकृति जिसकी ऐसे अमरसिंह नाम के मनुष्य-देव की  
 दीक्षाव्रत के लेने के लिए उठकर प्रणाम करने लगी ।

( १५ )

सर्वैस्तैर्मुनिभिः समर्थितगुणः शान्तस्वभावैरयम् ,  
 दीक्षायानुमोदितो निरलसः प्रव्यक्तचित्तोऽमरः ।  
 दीक्षामभ्यधिगन्तुमेव यतते श्रीलालचन्द्रान्मुनेः ,  
 लोकेऽस्मिन्नलभते फलं प्रतिपदं गाढप्रयत्नोजन ॥

अन्वयः—तै सर्वै शान्तस्वभावै मुनिभि अयम् निरलसः प्रव्यक्त-  
 चित्त समर्थितगुण. दीक्षायै अनुमोदित अमरः (अमरसिंह ) श्रीलालचन्द्रात्  
 मुने एव दीक्षाम् अभ्यधिगन्तु यतते । (यतो हि) अस्मिन् लोके गाढप्रयत्न  
 जन प्रतिपद फल लभते ।

अर्थ—उन सभी शान्तस्वभाव मुनियो के द्वारा, यह प्रयत्नशील, सरल, उप-  
 युक्त, दीक्षा के लेने के अनुमोदित अमरसिंह श्रीलालचन्द्रजी मुनिराज से ही दीक्षा  
 प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है । क्योंकि लगन का पक्का मनुष्य इस ससार मे  
 स्थान-स्थान पर सफल होता है ।

( १६ )

प्रत्यक्षं मुनिरेवमस्त्विति परा प्रव्यक्तवाचं वदन् ,  
 सर्वज्ञप्रथितागम प्रवचनप्राचुर्ययुक्त वचः ।  
 ऊचे तं सकलार्थतत्त्वमहित दीक्षार्थिकण्ठीरवम् ,  
 श्रीमन्तं करुणार्द्रचित्तममरं श्वःश्रेयसा शसिनम् ॥

अन्वयः—दीक्षाप्रार्थनोत्तरम्—‘एवम् अस्तु’ इति परा प्रव्यक्तवाच  
 वदन् मुनि त श्रीमन्त करुणार्द्र चित्त श्व श्रेयसाशसिन दीक्षार्थिकण्ठीरवम्  
 अमरम् (अमरसिंहम्) सर्वज्ञ-प्रथितागम-प्रवचन-प्राचुर्ययुक्त सकलार्थतत्त्व-  
 महित वच प्रत्यक्षम् ऊचे ।

अर्थ—दीक्षा के लिए प्रार्थना के पीछे ‘ऐसा हो’ ऐसी विशिष्ट स्पष्ट वाणी  
 का उच्चारण करते हुए मुनि महाराज ने उस श्रीयुक्त दयावान् आत्मकल्याणार्थी  
 दीक्षार्थी-सिंह अमरसिंह को केवली भगवान के कहे हुए आगमो के प्रवचनों के  
 आधिक्य से युक्त सम्पूर्ण अर्थतत्त्व से सम्मानित वचन प्रत्यक्ष से कहा ।

( १७ )

आयातान् स्वजनान् मुनीन् सुहृदयान् सम्बोद्ध्य प्रान्तर्मनाः ,  
 निष्णातश्च मुनिक्रियासु भवताद् दीक्षाधररेमेऽमरः ।  
 इत्येवं वदितुं यदैव यतते श्रीलालचन्द्रो मुनिः ,  
 आलोकं कुसुमानि भूमिमभितो वर्षन्ति गन्धावहम् ॥

अन्वयः—प्रान्तर्मना मुनि श्रीलालचन्द्र' सुहृदयान् स्वजनान् च मुनीन् सम्बोद्ध्य 'मे दीक्षाधर अमर मुनि-क्रियासु निष्णात भवतात्' इति एव वदितुं यदा एव यतते, (तदा एव) आलोकम् भूमिम् अभित कुसुमानि गन्धावह वर्षन्ति ।

अर्थ—अत्यन्त गम्भीर मुनि श्रीलालचन्द्रजी महाराज सुहृदय आत्मीय पुरुषो को और मुनिराजो को सम्बोधन कर 'मेरा यह दीक्षित अमरसिंह मुनिक्रियाओ मे प्रवीण बने' ऐसा कहने के लिए जमी प्रयत्न करते हैं, तभी ससार मे भूमि के सब ओर केसर-कण मँहँकते हुए बरसने लगते हैं ।

( १८ )

आकाशे न हि केवलं दिविषदो नृत्यन्ति कथत्कलम् ,  
 मन्दाक्षं परतो विहाय प्रमदाश्चर्चन्ति प्रत्यङ्गणम् ।  
 मर्यादां परिहाय यौवतमहो प्रत्यक्षमालिङ्गते ,  
 हर्षोऽय प्रमदा-प्रमाद-परिधिं निर्व्याजमुल्लघते ॥

अन्वयः—दीक्षानन्तर हर्षमुद्दिश्य—आकाशे न हि केवल दिविषद. कथत्कलम् नृत्यन्ति, (अपितु) परत प्रमदा (स्त्रियोऽपि) मन्दाक्ष विहाय 'प्रत्यङ्गणम् चर्चन्ति । अहो (युवतीना समूहो) यौवत मर्यादा परिहाय (पर-स्परम्) प्रत्यक्षम् आलिङ्गते । अय हर्षं प्रमदाप्रमादपरिधिं निर्व्याजम् उल्लघते ।

अर्थ—दीक्षानन्तर हर्ष को लेकर आकाश मे न केवल देवता ही कथत्कल नृत्य करते हैं, अपितु दूसरी ओर से प्रमदा स्त्रियाँ भी लज्जा को छोड़कर आँगन-आँगन मे चर्चाएँ करती हैं । यहाँ तक कि युवतियों का समूह मर्यादा को छोड़कर परस्पर मे प्रत्यक्ष जेट भर लेता है । यह हर्ष स्त्रियो के प्रमाद की परिधि को बिना किसी हिचक के लाँघता जला जा रहा है ।

( १६ )

अन्योऽन्यं कथयन्ति वृत्तमपरे त्यागस्य दाक्षार्थिनः ,  
लज्जन्ते नगरे जना सुकमना दीक्षां निरीक्ष्य स्वतः ।  
आश्चर्यं खलु मन्वते विषयिणः कैश्यस्य चोन्मूलने ,  
केऽप्यन्ये नगराधिवासिन इमे शङ्काङ्कुर तन्वते ॥

अन्वयः—ससारिणो विभिन्नरुचयः सन्ति (अतः) अपरे जना दीक्षा-  
र्थिन त्यागस्य वृत्तम् अन्योन्य कथयन्ति । नगरे दीक्षा निरीक्ष्य सुकमना  
जना स्वतः लज्जन्ते । विषयिणश्च खलु कैश्यस्य उन्मूलने आश्चर्यं मन्वते ।  
केऽपि अन्ये नगराधिवासिनः इमे (सन्ति), ये शङ्काङ्कुर तन्वते ।

अर्थ—ससार के लोग विभिन्न रुचि के होते हैं । इसलिए दूसरे मनुष्य  
दीक्षार्थी के त्याग के वृत्त को एक-दूसरे को बताते हैं । कुछ कामी पुरुष नगर में  
ऐसे भी हैं, जो दीक्षा को देखकर स्वयं लज्जित हो रहे हैं । तो कुछ विषयी ऐसे  
भी हैं जो केशो के उखाड़-फेंकने के विषय पर अचम्भा मानते हैं । कुछ दूसरे नाग-  
रिक वे हैं, जो शङ्काओं के पीधे को फैलाते चलते हैं ।

( २० )

कालुष्यं परिहाय कोऽप्यकथयच्चित्तस्य कष्टं महत् ,  
यद्येवं सततं भवेद् विघटितं किं वाचरेद् यौवतम् ।  
या जाता ललनाः कटाक्ष-विशिखाघातव्यथाभूमय ,  
तासां का गणना भवेदिति कथा चित्तव्यथा थेषते ॥

अन्वय —दीक्षाग्रहणात् कोऽप्यसमीक्ष्यकारी शोचते—कोऽपि (अवि-  
चारी) कालुष्य परिहाय चित्तस्य महत् कष्टम् अकथयत् (यत्) यदि एव  
विघटित सतत भवेत् (तदा पुन ) यौवत किम् आचरेत् वा या कटाक्षविशि-  
खाघातव्यथाभूमयः ललना जाता (सन्ति), का गणना भवेत् , इति —कथा  
चित्तव्यथां थेषते ।

अर्थ—दीक्षाग्रहण के कारण कोई विना सोचे-विचारे काम करने वाला शोक  
प्रकट करता है—कोई कलुषभाव को छोड़कर अपने चित्त के गम्भीर कष्ट को कहने  
लगा कि यदि इसी प्रकार का विगाड़-खाता चलता रहा, तो फिर युवतियों का समूह  
क्या करेगा धरेगा ! अथवा जो कटाक्ष-बाण के आघात की पीडा की भूमि-स्त्रियाँ  
उत्पन्न हुई हैं, उनकी क्या गिनती होगी ! इस प्रकार की कहानी चित्त की व्यथा  
बढाने लगी ।



( २१ )

दीक्षादानपुरस्सरातिशयितं वीक्ष्योत्सवं सुन्दरी ,  
 प्रीणीते हृदयं शुभाशुभमय शङ्काप्रशङ्काङ्कुरम् ।  
 चिन्तार्त्ता व्यथते च मे प्रियधवस्यासक्तिशून्यं मनः ,  
 जायेत द्रसभं यदीदृशमतो दीक्षोत्सव क्रोशते ॥

अन्वयः—काऽपि ससारिणी सुन्दरी दीक्षादानपुरस्सरातिशयितम् उत्सव वीक्ष्य शुभाशुभमय हृदय शङ्का-प्रशङ्काकुर प्रीणीते । अतश्च चिन्तार्त्ता सा व्यथते—यदि मम प्रियधवस्य (अपि) मनः ईदृश प्रसभम् आसक्ति-शून्य जायेत, (तर्हि ममु तु सर्वनाशमेष्यति) आक्षिप्तार्थोऽयम् अतः सा चिन्तार्त्ता सुन्दरी दीक्षोत्सव क्रोशते ।

अर्थ—कोई ससारी सुन्दरी स्त्री दीक्षाग्रहण को लेकर शानदार उत्सव अच्छी प्रकार से देखकर अशुभ और शुभ से सङ्कीर्ण मन को शङ्का और प्रशङ्का के पौधे के समान खूब लहलहा देती है । और मारे फिक्र के वह दुःखी हो जाती है कि यदि मेरे प्रिय पति का भी दिल इसी प्रकार जवरन् वेलगाव हो जायेगा तो मेरी विष्कुल वर्वादी हो जायेगी । इस प्रकार से चिन्तित सुन्दरी दीक्षा के उत्सव को कोसने लगती है ।

( २२ )

व्यर्थं ते कमनास्तुदन्ति विकलाश्चित्तव्यथापीडिताः ,  
 धिक् कामं व्यथतेतरामिति सदा क्षीवाभिकान् मानुषान् ।  
 सामर्थ्यं यदि ते व्यथस्व दमिन मुक्त्यर्थिनं दीक्षितम् ,  
 मर्त्यानाममर मुनिं सुविदित जैन नवीन जनम् ॥

अन्वयः—ये चित्तव्यथापीडिता विकला (सन्ति), ते कमना. तुदन्ति यदयं काम ) सदा क्षीवाभिकान् मानुषान् व्यर्थं व्यथतेतराम् इति त कामधिक् (अस्तु) । यदि ते (कामस्य) सामर्थ्यम् (अस्ति), (तर्हि) त्व मर्त्यानाम् सुविदित जन नवीन दीक्षित मुक्त्यर्थिन दमिन जैन मुनिम् अमर व्यथस्व । तदा वय जानीमो यत्त्व कामोऽस्ति, अन्यथा मृताना मारणे सामर्थ्यं किमित्ययमर्थः ।

अर्थ—जो चित्त की व्यथा से पीडित हो, विकल हैं, ऐसे वे कामी नर दुःख प्रकट करते हैं कि यह कामदेव सदा मदान्ध कामी मनुष्यों को व्यर्थ काफी कष्ट देता है । यदि तुझ कामदेव की ताकत है तो तू मनुष्यों मे प्रसिद्ध मनुष्य, नवीन, दीक्षित मोक्षार्थी, जितेन्द्रिय जैनमुनि अमरसिंह जी को व्यथित कर सके । तब हम मानें कि तू कामदेव है, अन्यथा मरे हुए को मारने मे सामर्थ्य क्या है ! अर्थात् न कुछ । ऐसा यह अर्थ है ।

( २३ )

सर्वेषां जयकारशब्दमभितः श्रुत्वामरो दीक्षितः ,  
 प्रत्येक नमते दयापरवशः शोभापरः श्रीधरः ।  
 माङ्गल्यं लभते प्रसीदतितरामेभ्यो मुनिभ्यो गुरुम् ,  
 चान्ते सोऽभिरतोऽधिसेवमपर श्रीलालचन्द्र प्रति ॥

अन्वय —सर्वेषां जयकार शब्दम् अभित श्रुत्वा दयापरवश शोभा-  
 पर श्रीधर दीक्षित. अमर (अमरसिंह) प्रत्येक नमते (पुनः) च एभ्य  
 मुनिभ्य माङ्गल्य लभते । (अत) इच अन्ते अपर गुरु श्रीलालचन्द्र प्रति स.  
 अधिसेव प्रसीदतितराम् ।

अर्थ—सबके जयकार के शब्द को चारो ओर से सुनकर दयालु शोभाघायी  
 (सुन्दर) कीर्त्तिशाली दीक्षित अमरसिंह मुनि प्रत्येक मुनि को नमन करते हैं । और  
 इन मुनिराजो से माङ्गल्य प्राप्त करते हैं । साथ ही अन्त मे अनन्य गुरुदेव श्रीलाल-  
 चन्द्र मुनिराज की सेवा मे परम प्रसन्न रहते हैं ।

( २४ )

ज्ञातस्यापि विधेः पुनः पुनरयं वृत्ति समावर्त्तते ,  
 अभ्यासं सुगमं करोति सततं शब्दानुशब्दं स्वयम् ।  
 विश्वासं लभते गुरोर्निरलसश्चालङ्करोति क्रियाम् ,  
 आधत्ते नियमं विधातुमभयं ज्ञप्तानुगो गच्छति ॥

अन्वय —दीक्षाप्राप्त्यनन्तरम्—अयम् अमरसिंहः मुनिः ज्ञातस्य अपि  
 विधे पुन पुन वृत्ति समावर्त्तते । स्वय निरलस. सन् शब्दानुशब्दम् अभ्यास  
 सतत सुगम करोति । गुरो विश्वास लभते, क्रियाम् अलङ्करोति, नियमम्  
 आधत्ते, ज्ञप्तानुगश्च अभयविधातु गच्छति ।

अर्थ—दीक्षा प्राप्ति के पश्चात्— ये अमरसिंह मुनि ज्ञात हुई भी विधि का  
 बार-बार आवर्त्तन करते हैं । स्वय आलस्य-रहित होकर शब्दानुशब्द अभ्यास को  
 निरन्तर सुगम बनाते हैं । गुरु महाराज के विश्वसनीय होते हैं, क्रिया को शोभित  
 करते हैं, नियम पालते हैं और केवली भगवान् के बताए मार्ग के अनुगामी होकर  
 अभय बनाने के लिए अब आगे बढ़ते हैं ।

( २५ )

आलस्यं प्रथितं बुधैरिह सदा प्रत्यर्थिभावं दधत् ,  
 तस्माद् यो यतते विहाय सहसालस्य क्रिया वर्त्तितुम् ।  
 कर्माणि क्षिणुते स एव हि जनो जीवानुबन्धीन्यरम् ,  
 कृत्वैवं हृदयेऽमरो मुनिरयं जागर्त्ति रात्रिदिवम् ॥

अन्वय — सदा इह बुधै आलस्य प्रत्यर्थिभाव दधत् प्रथितम् (अस्ति)  
 तस्मात् य सहसा आलस्य विहाय क्रिया वर्त्तितु यतते । स एव हि जन.  
 जीवानुबन्धीनि कर्माणि अर हि क्षिणुते—एव कृत्वा अयम् मुनि अमर  
 (अमरसिंह ) रात्रिन्दिव जागर्त्ति ।

अर्थ—सदा इस ससार मे ज्ञानियो ने आलस्य को शत्रुता रखने वाला  
 बताया है । इसलिए जो मनुष्य एक साथ आलस्य को छोडकर क्रिया वरतने के लिए  
 प्रयत्न करता रहता है, वही मनुष्य जीवानुबन्धी कर्मों को शीघ्र काट डालता है ।  
 इस प्रकार सोचकर ये अमरसिंह मुनि दिन-रात जगते रहते हैं ।

( २६ )

आत्मानं प्रथते व्यथां विकुरुते चित्तं समालम्बते ,  
 दातुं प्रेरयते धन परहिते चित्ते स्वयं मोदते ।  
 आधि व्याकुरुते कलां वितनुते पापात् परावर्त्तते ,  
 आधत्ते हृदयं सदा गुरुजने सिहो मुनिः शोभते ॥

अन्वयः—साम्प्रत गुरुदेवस्यान्ते वसन्—(अयम् अमरसिंह मुनि )  
 आत्मानं प्रथते (प्रख्यापयति), व्यथा विकुरुते (पीडा नाशयति), चित्तं समा-  
 लम्बते (दृढीकरोति), परहिते धन दातुं प्रेरयते, चित्ते स्वयं मोदते, आधि  
 व्याकुरुते, कला वितनुते, पापात् परावर्त्तते, सदा गुरुजने हृदयम् आधत्ते,  
 एतादृश सन् सिंह (मुनिसिंह ) शोभते ।

अर्थ—अब गुरुदेव के शिष्य बनकर—ये श्री अमरसिंहजी महाराज आत्मा  
 को प्रख्यापित करते हैं, व्यथा को नष्ट करते हैं, चित्त को निश्चल बनाते हैं, परहित  
 के विषय मे भक्तों को धन देने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने हृदय मे आनन्द का  
 अनुभव करते हैं, मनोव्यथा को विश्लेषित करते हैं, कला का विस्तार प्रकट करते हैं,  
 पाप को समझकर दूर बैठते हैं, मदा गुरुओं के विषय मे श्रद्धा रखते हैं । ऐसे होकर  
 वे सिंह (मुनिसिंह) शोभा प्राप्त करते हैं ।

( २७ )

नित्यं सोऽनुमितप्रभावमसकृद् देवं गुरुं शासकम् ,  
 नत्वैवं कुरुते यथाव्यवहृतं कार्यं च वैधानिकम् ।  
 येनास्य प्रकृतेर्जना. परिचय प्राप्तुं भवेयुस्ततः ,  
 शक्ताश्चास्य गुरुर्महानविरतं कार्याय तं प्रेषते ॥

अन्वयः—नित्य स अनुमित प्रभाव शासक गुरु देवम् असकृत् नत्वा यथाव्यवहृत वैधानिक कार्यं कुरुते । एवञ्च जना अस्य प्रकृते परिचय प्राप्तु शक्ता भवेयुः, येन अस्य महान् गुरु तत त कार्याय अविरत प्रेषते ।

अर्थ — इस प्रकार नित्य ही वे प्रभावी शासक गुरुदेव बार-बार वन्दना कर व्यवहृत का अतिक्रमण न कर विहित कार्य करते रहते हैं । अत एव, 'मनुष्य इनकी प्रकृति से परिचित हो सके, इनके महान गुरुदेव श्रीलालचन्द्रजी महाराज उपाश्रय से आपको कार्य के लिए बाहिर भेजते रहते हैं ।

( २८ )

आज्ञप्तस्त्वयमेव याति विहितां भिक्षां विधातुं ततः ,  
 प्रत्यागच्छति सोऽमितप्रखरया वृत्त्या समायोजितः ।  
 शंसन्ते सुजना नयेन सहितं मार्गं चरन्तं मुनिम् ,  
 दृष्ट्वेम सरलं स्वभावमहित पूज्यं स्वतो भाविनम् ॥

अन्वय — तत तु अयम् एव आज्ञप्त विहिता भिक्षा विधातु याति, अमितप्रखरया वृत्त्या समायोजित स प्रत्यागच्छति । इम स्वभावमहित सरल मुनि मार्गं चरन्त दृष्ट्वा सुजना. स्वत भाविन पूज्य नयेन सहित शसन्ते ।

अर्थ—फिर तो ये ही आज्ञप्त हो, विधिकल्पित भिक्षा करने के लिए जाने लगे । पूर्णप्रखर वृत्ति से समायोजित वे भिक्षा से लौटकर आते, तब इन स्वभाव-सुन्दर सरल मुनि को मार्गं मे चलते हुए देखकर भावुक श्रावक अपने आप भावी पूज्य नय के साथ कहने लगते हैं । क्योंकि 'होनहार विरवान के, होत चीकने पात' यह एक नय है ।

( २६ )

संसारेऽतुलितप्रभावमहिमप्रव्यक्तकीर्त्तिर्जनः ,  
 सम्प्राप्तुं प्रथितं प्रशस्तपरिधिग्रस्तं पद प्रेक्ष्यते ।  
 न्यायेनेति मिथः सुचर्चितकथः सेर्यापथोनिर्व्यथः ,  
 पन्थानं कथितापथं स सुपथीकत्तुं प्रवृत्तोऽमरः ॥

अन्वय — विज्ञैः 'संसारे अतुलित प्रभाव महिम प्रव्यक्त कीर्त्ति जनः प्रशस्तपरिधिग्रस्त पद सम्प्राप्तुं प्रेक्ष्यते' इति न्यायेन प्रथित (विद्यते) । (तेनैव) मिथ (अय) सुचर्चितकथः निर्व्यथ. सेर्यापथः स. अमरः (अमरसिंहो मुनि ) कथितापथ पन्थान सुपथीकत्तुं प्रवृत्त (अस्ति) ।

अर्थ—वेत्ताओं ने संसार में असाधारण प्रभाव के महत्त्व से स्पष्ट कीर्ति वाला मनुष्य, प्रख्यात पराकाष्ठा से युक्त पद को प्राप्त करने का अधिकारी होता है, ऐसा माना है । इस न्याय के अनुसार स्थान स्थान पर जिनकी कहानियाँ की चर्चा हैं ऐसे निर्वृन्द ईर्यापथ के पथिक वे मुनि अमरसिंहजी अपथ कहे जाने वाले मार्ग को सुमार्ग बनाने के लिये अब आगे बढ़ रहे हैं ।

( ३० )

उद्योक्तुं क्षमते स्वबुद्धिविभवोद्भूतां प्रभां रीतिशः ,  
 व्याख्यानादधिगन्तुमेव सनुती. प्रख्यातयुक्ते शतम् ।  
 सम्प्राप्तुं परतस्तथापि महती शक्ति प्रकृष्टामयम् ,  
 सिंहोऽसौ क्रमते वने सुसघने गर्जन् यथा निर्भयम् ॥

अन्वयः—अय मुनि स्वबुद्धि-विभवोद्भूता प्रभा रीतिशः उद्योक्तुं प्रख्यातयुक्ते च व्याख्यानात् एव नुती. शतम् अधिगन्तु क्षमते, तथापि परतः महती प्रकृष्टा शक्ति सम्प्राप्तुं यथा सिंह सुसघने वने गर्जन् निर्भय क्रमते, तथा अयम् अपि निर्भय क्रमते ।

अर्थ—ये मुनि अपने बुद्धि-विभव से उत्पन्न प्रभा की रीति के अनुसार उद्योजित करने के लिए और प्रख्यात युक्ति वाले व्याख्यान से शतशः प्रशंसार्थ प्राप्त करने के लिए क्षमता रखते हैं, तथापि और से अथवा दूसरे से बड़ी प्रकृष्ट शक्ति को अधिगत करने के लिये निर्भय आगे बढ़ रहे हैं जैसे सुसघन वन में सिंह गरजता हुआ निर्भय चला ही चलता है, रुकने का नाम नहीं लेता ।

( ३१ )

अयं समदाय मुनेर्ब्रतं पुनर्मुनि क्रियानित्यविधेरुपासिता ।  
निरन्तरं सम्प्रति तस्य रक्षणे समाहितस्तिष्ठति तत्त्वचिन्तकः ।

अन्वय — अयम् (अमरसिंह) मुनेर्ब्रतं समादाय पुनः निरन्तरम् मुनि-  
क्रियानित्यविधे उपासिता सम्प्रति तस्य (ब्रतस्य) रक्षणे समाहितः तत्त्व-  
चिन्तक तिष्ठति ।

अर्थ—ये (अमरसिंह जी) मुनि के ब्रत को ग्रहण कर तदनन्तर निरन्तर  
मुनियों की क्रियाओं और नित्यविधियों की उपासना करते हुए अब उस ब्रत के  
रक्षण के विषयो मे समाहित होकर तत्त्व का चिन्तन करते हैं ।

( ३२ )

अधीत्य शास्त्रागमसंग्रहं स्वतस्तश्च कैवल्यधरैः पुरस्कृतम् ।  
प्रयाति धर्मं वचनैः समादिशन् गुरूपदिष्टेन पथामरो मुनि ॥

अन्वय — ततश्च स्वतः शास्त्रागमसंग्रहम् अधीत्य कैवल्यधरैः  
(महापुरुषैः) पुरस्कृत धर्मं वचनैः समादिशन् अमर (अमरसिंह) गुरूपदि-  
ष्टेन पथा प्रयाति ।

अर्थ—तदनन्तर अपने आप शास्त्र और आगम के संग्रहो का अध्ययन कर  
केवली महापुरुषो के द्वारा पुरस्कृत धर्म का प्रवचनो से प्रचार करते हुए मुनि  
अमरसिंहजी गुरु के उपदिष्ट मार्ग से प्रयाण करते हैं ।

( ३३ )

अतः परं सर्गविभाजनेच्छया नवीनमन्यन्ननु वर्णनं मुने ।  
निरीक्ष्य सर्गं रचितं चतुर्थकं समारभे सम्प्रति पुष्करो मुनि ॥

अन्वयः—अतः परं मुने. (अमरसिंहस्य) अन्यत् नवीन वर्णनं निरीक्ष्य  
सर्गं विभाजनेच्छया सम्प्रति रचितं चतुर्थं सर्गम् अहम् पुष्कर मुनि समारभे ।

अर्थ—इसके पश्चात् मुनि श्री अमरसिंहजी महाराज के दूसरे नवीन वर्णन  
को देखकर सर्ग विभाजन की इच्छा से अब रचे हुए चतुर्थ सर्ग का मैं पुष्कर मुनि  
आरम्भ किया चाहता हूँ ।

( ३४ )

अथ कवित्वमतीव रसायन किमपि मेऽद्भुतमेव परीक्षणम् ।  
निरुपम कविशेखरमाश्रयाद् मृतमपीत्यमरं विदधात्यद ॥

अन्वयः—अथ कवित्व किमपि रसायनम् (अस्ति), मे अतीव अद्भुतम् परीक्षण (विद्यते) (यतोहि) अद (कवित्व कर्त्तृ) निरुपम मृतम् अपि जनम्, आश्रयात् एव अमरम् कविशेखरम् विदधाति । न तु सेवना-दिति । इत्याक्षिप्तोऽर्थः ।

अर्थ—हो न हो, यह कवित्व कोई न कोई रसायन है, मेरा बड़ा ही अनोखा यह परीक्षण है । क्योंकि (यह कवित्व) उपमारहित मरे हुए भी मनुष्य को, रसायन के आश्रयमात्र से अमर कवि शिरोमणि बना देता है । किन्तु रसायन के सेवन से नहीं । ऐसा यह अर्थ 'इति' आक्षिप्त होता है ।

( ३५ )

सरस ललित नियोजितं सुपदैरेव महाकवेरिदम् ।  
लभते महिमानमेव तत् न तु काव्य पदसंग्रह कवे ॥

अन्वयः—महाकवे इद सरस ललित सुपदै एव नियोजितम् काव्य महिमानं लभते, किन्तु कवे. पदसंग्रह एव तत् काव्यम् भवेत् इति तु न अस्ति ।

अर्थ—महाकवि का यह सरस, ललित और सुपदो से नियोजित काव्य महत्व प्राप्त करता है, किन्तु कवि का पदो का संग्रह ही वह काव्य बन जाय, ऐसा तो नहीं होता, जिससे कि महत्व प्राप्त होता हो इसलिए काव्य वही है जो सरस, ललित और सुपद नियोजित हो । वरना तो वह सब शब्दो का एक ढेर ही है । ऐसा समझना चाहिये ।

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
उपाध्यायपदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
श्रीमदाचार्यामरसिंह महाकाव्ये  
तृतीयः सर्गः

## चतुर्थः सर्गः

( १ )

जयति स शुक्लविवसनाचार्यो यस्य पादपङ्कजस्मरणम् ।  
मार्गं मे विदधाति पवित्रं दोर-सहित-मुख-वाससो मुने ॥

अन्वय —स. शुक्लविवसनाचार्यः जयति, यस्य पादपङ्कजस्मरणं दोर-सहितमुखवाससः मुने मे मार्गं पवित्रं विदधाति ।

अर्थ—उस शुक्ल एव विशिष्ट वस्त्र वाले आचार्य की जय हो, जिसके चरण कमलो का स्मरण ही, डोरे के साथ मुख पर वस्त्र वाले मुनि, मेरे मार्ग को पवित्र करता है ।

( २ )

सेवायां मुनिमण्डले प्रभवति स्थित्वा गुरोः सम्प्रति ,  
व्यासक्तः स्वयमेवमेव सकलान् भक्तान् जनान् श्रावकान् ।  
उद्बोध्य प्रतिभक्तमेव नियत धर्मं यथावस्थितम् ,  
शास्त्रोक्तं चरितुं ततोमुनिरिमान् सङ्गन्तुमिच्छत्ययम् ॥

अन्वयः—दीक्षाप्राप्त्यनन्तरम्—सम्प्रति मुनिमण्डले स्थित्वा गुरो सेवायां व्यासक्तः स्वयमेव (अयम् अमरसिंहो मुनिः) सकलान् भक्तान् एव श्रावकान् जनान् प्रभवति । ततः प्रतिभक्तं शास्त्रोक्तं नियत धर्मं यथावस्थितं चरितुम् उद्बोध्य (पुनः) इमान् (भक्तान्) एव सङ्गन्तुम् इच्छति ।

अर्थ—दीक्षा प्राप्ति के पश्चात्—अब मुनियो के मण्डल मे रहकर गुरु महाराज की सेवा-शुश्रूषा मे सलग्न होकर स्वय ही ये अमरसिंहमुनिजी सब भक्तो को और इसी प्रकार श्रावक पुरुषो को प्रभावित करने लगते हैं । तदनन्तर आए हुए प्रत्येक भक्त को शास्त्रोक्त नियत धर्म का यथावस्थित आचरण करने के लिए उद्बोधन कर, फिर उन भक्तो को सत्सग के लिए प्रेरणा करते हैं ।

• सर्गोऽस्मिन्नपि शाङ्खलविक्रीडितमेव । लक्षणं पूर्वमुक्तमेव



( ३ )

उद्युङ्क्ते वचनानुसारमधुना सत्कर्तुं मेवं मुनिः ,  
 तस्मात्ते मुदिता सदैव मनुजा उद्युञ्जते स्वाशिषा ।  
 कल्याण भवतात्तवेति, हसता प्रत्यक्षमित्युच्यते ,  
 कल्याण सरलं भवेद् यदि पुनर्मह्यं न तद् रोचते ।

अन्वयः—अधुना (आगतान् भक्तान् श्रावकान् वा) वचनानुसार सत्कर्तुं मुनि (अमरसिंह) उद्युङ्क्ते । तस्मात् (वचनादरत्) सदा ते मुदिता मनुजा 'तव कल्याण भवतात्' इति स्वाशिषा उद्युञ्जते । (तदा श्रुत्वा आशिष) हसता मुनिना अमरसिंहेन उच्यते—यदि कल्याणम् (इयत्) सरल भवेत् (पुनस्तु) तत् (इतादृक्) सरल कल्याण मह्यं न रोचते । अर्थात् वचनेनैव तत्कल्याण प्राप्तं न शक्यते ।

अर्थ—अब आए हुए उन भक्तों अथवा श्रावकों का सत्कार करने के लिये मुनि श्री अमरसिंहजी महाराज वचनों से जब प्रयत्न करने लगते हैं तो वे प्रमत्त हुए मनुष्य अपने आशीर्वचन से जैसे कि आगका कल्याण हो । उस आशीर्वचन को सुनकर हँसते मुनि श्री अमरसिंहजी महाराज ने कहा कि यदि कल्याण इतना सुलभ है तो फिर उस ऐसे सुलभ कल्याण की मुझे चाह नहीं है । अर्थात् केवल कहने मात्र से उमको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ।

( ४ )

शङ्कन्ते भुवने स्थितस्य विषये तत्त्वस्य लोका इमे ,  
 तस्मात्ते यदपि प्रथाप्रचलितं जानन्ति तद् वास्तवम् ।  
 कुर्वन्त्वद्भुतमेव कृत्यमपरं तत्त्वातिरिक्तं च ये ,  
 नष्टाशा. प्रजयन्ति ते पुनरिदं सर्वं भवेत् कर्मणा ॥

अन्वयः—दुःखस्य विषयोऽयम्—यत् अस्मिन् भुवने इमे लोका स्थितस्य तत्त्वस्य विषये शङ्कन्ते । तस्मात् (शङ्कित्वा) ते यदपि प्रथाप्रचलितं तद् वास्तव जानन्ति । ये तत्त्वातिरिक्तम् अपरम् अद्भुतम् एव कृत्यम् कुर्वन्ति, (परिणामे) नष्टाशा ते पुन इदं 'सर्वं कर्मणा भवेत्' इति प्रथयन्ति अर्थात् कर्म स्वीकृत्यापि कर्म कृन्तितुं न यतन्ते ।

अर्थ—दुःख की बात यह है कि इस ससार में ये मनुष्य निश्चित तत्त्व के विषय में सन्देह करते हैं । इससे शङ्कित होकर वे जैसा भी कुछ चला आ रहा है, उसको वास्तव मान लेते हैं । और जो तत्त्वातिरिक्त दूसरा अनोखा ही कृत्य कर बैठते हैं, अन्त में हताश होकर वे फिर यह कहते हैं कि सब कर्म से होता है । अर्थात् कर्म को मानकर भी कर्म को काटने के लिए प्रयत्न नहीं करते ।

( ५ )

मृत्यवन्ते पुनरन्यजन्मनि जनोभुङ्क्ते फल कर्मणः ,  
शास्त्रोक्तं विधिवत्करोति निहित निश्चित्य तत्त्व महत् ।  
सर्वोऽसौ फलमीषतेऽपि भविकः कालेन जन्मान्तरे ,  
तर्किकेव लमेवमेव वचनात् कल्याणवन्तो वयम् (?) ॥

अन्वय — वास्तविक चैतदस्ति—यत् मृत्यवन्ते पुन जन अन्यजन्मनि कर्मण फल भुङ्क्ते । (अत ) महत् तत्त्व निश्चित्य (य ) शास्त्रोक्त निहित विधिवत् करोति, असौ सर्व अपि भविक कालेन जन्मान्तरे फलम् ईषते । तत् किं केवल वचनात् एव वयम् एवम् कल्याणवन्त भवितु शक्नुम ? अपितु भवितु न शक्नुम ।

अर्थ—और वास्तविक बात यह है कि मरण के पश्चात् फिर हर एक व्यक्ति दूसरे जन्म में फल देखता है, किए का परिणाम भोगता है, यह सिद्धान्त है । इसलिए जो इस महान् तत्त्व का निश्चय कर शास्त्रोक्त अर्थ का क्रिया के अनुसार पालन करता है, वही प्राणी कालक्रम से दूसरे जन्म में किए का परिणाम भोगता है । तब क्या हम केवल कहने मात्र से कल्याणवान् हो सकते ? अपितु नहीं हो सकते ।

( ६ )

इत्येतद् वचनं यथाश्रुति पुनर्गच्छद्भिरन्यैः श्रुतम् ,  
तैः सर्वैः परिपृच्छ्यते तदखिल कस्मादिद गद्यते ।  
श्रुत्वैतत् समुदीर्यते यदिह तज् जात जनोपस्थितौ ,  
नव्येनैव तु दीक्षितेन मुनिना सत्यं समाधायि यत् ॥

अन्वयः—मुनि प्रतिबोधितम्—इति एतद् यथाश्रुति वचन गच्छद्भिः अन्यै (जनै ) (अपि) श्रुतम् । तै सर्वै (श्रोतृभि ) परिपृच्छ्यते, तद् अखिलम्, इद कस्मात् गद्यते ? एतद्-श्रुत्वा इह जनोपस्थितौ नव्येन दीक्षितेन मुनिना एव तु सत्य समाधायि, यत् जात तद् (सर्व) समुदीर्यते ।

अर्थ—मुनिश्री के प्रतिबोधन का यह यथाशास्त्र वचन, जाते हुए दूसरें मनुष्यों ने भी सुना । उन सब श्रोताओं ने पूछा कि यह सब ऐसा क्यों कहा गया ? यह सुनकर, जनता की उपस्थिति में जो भी कुछ नवीन दीक्षित मुनिजी ने ही सत्य का समाधान किया—हुआ वह सब बता दिया । यह जानकर वे सब आश्चर्य से चकित हो गये कि नये मुनि ने ही जब ऐसा समाधान किया है तो और मुनिजन कैसे क्या होंगे ।

( ७ )

जिज्ञासाप्युदिता यथायथमहो कोऽयं मुनिर्विद्यते ,  
 प्रष्टुं तेऽपि परस्परं मुनिममुं चिन्वन्ति प्रश्नान् बहून् ।  
 प्रश्नानुत्तरितान् विबुध्य मनसा सत्यप्रियाः प्राश्निकाः ,  
 सम्भूताः समुपेत्य तं मुनिवरं तिष्ठन्ति चित्रार्पिताः ॥

अन्वय — सम्प्रति तेपामाश्चर्यचकिताना श्रोतृणाम्—अहो क. अयं मुनि यथायथ विद्यते इति अपि जिज्ञासा उदिता (अभवत्) । (अतः) तेऽपि अमुं मुनिं परस्परं प्रष्टुं बहून् प्रश्नान् चिन्वन्ति । (मुने सकाशात्) प्रश्नान् उत्तरितान् मनसा विबुध्य सत्यप्रियाः प्राश्निकाः तं मुनिवरं समुपेत्य चित्रार्पिता (इव) सम्भूता तिष्ठन्ति ।

अर्थ—अब उन आश्चर्यचकित श्रोताओं की—अरे कौन यह मुनि है—ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई । इसलिए वे भी उन मुनिजी से परस्पर में प्रश्न करने के लिए अनेक प्रश्न चुन लेते हैं । मुनिजी से प्रश्नों को उत्तरित हुए हृदय में जानकर सच्चे प्रश्नकर्ता उन मुनिजी के पास जाकर चित्रलिखित के समान एकत्र होकर खड़े रहते ।

( ८ )

भापाविज्जनताविशेषहृदये विश्वस्तशब्दश्रुतिः ,  
 आह्लादं परमं प्रदाय मुनुरुति विश्वासभापाजनिम् ।  
 प्राप्येयं ध्वनति प्रकाशपरिधेः पारे विलङ्घ्याधुना ,  
 त्रैलोक्यादधिके विशिष्टप्रकृति ब्रह्माण्ड भाण्डं मुनेः ॥

अन्वय — मुनेरमरसिहस्य भापाज्ञानं शब्दोच्चारणञ्च परमं प्रमिद्धं मासीत् । मुने इयं विश्वस्तशब्दश्रुतिः भापाविज्जनता विशेषहृदये परमम् आह्लादं प्रदाय विश्वासभापाजनिं मुनुरुतिं प्राप्य अधुना विशिष्टप्रकृतिं ब्रह्माण्डं भाण्डं विलङ्घ्य त्रैलोक्यात् अधिके प्रकाशपरिधेः पारे ध्वनति ।

अर्थ—मुनि अमरसिंहजी महाराज का भापाज्ञान और शब्दोच्चारण बहुत प्रमिद्ध था—मुनिराज की यह विश्वस्त शब्द श्रुति, भापाओं के जानकार प्रमुख मनुष्यों के हृदय पर परम हर्ष देकर, विश्वास और भापा से उत्पन्न प्रशंसा-स्तुति प्राप्त कर अब विशिष्ट प्रकृति के जगत् रूप वर्तन को उल्लास कर त्रिलोकी से दूर प्रकाश की परिधि में परे इनकार रही है ।

( ६ )

वाणी यो मधुरां निकामसरसां सर्वप्रियां भाषते ,  
 आचार सुविधं प्रसन्नमनसा युङ्क्ते सतां सम्मतम् ।  
 मेघोऽसौ समये सुवर्षणपरः निर्दोषविश्वम्भरः ,  
 सोऽवोचत् परमप्रभावमहिते मानुष्यके मण्डले ॥

अन्वयः—अयं मुनिः सरसवक्ता, परमक्रियावादी यथोचितविशद वक्ता च आसीत्—यं निकामसरसा सर्वप्रिया मधुरा वाणी भाषते सता सम्मत सुविधम् आचार प्रसन्नमनसा युङ्क्ते, समये निर्दोषविश्वम्भर—सुवर्षणपर मेघः (वर्त्ततेस्म) असौ, स (एतादृशोऽमरसिंहो मुनिः) परमप्रभावमहिते मानुष्यके मण्डले अवोचत् ।

अर्थ—ये मुनि सरसवक्ता, परमक्रियावादी और यथोचित खुलकर बोलने वाले थे—जो अत्यन्त रसीली, सबको प्यारी, मीठी बोली बोलते थे, सन्तो के सम्मत सुविध आचार का प्रसन्नचित्त से प्रयोग करते थे, और दोष-रहित ससार के रक्षक, समय पर खूब बरसने वाले मेघ थे—ऐसे श्री अमरसिंहजी मुनि बड़े खाब-दवाब वाले मनुष्यों के समुदाय में भाषण दिया करते थे ।

( १० )

कः श्रेयान् परमप्रकृष्टविधिनां प्रश्नेऽमरो भाषते ,  
 ज्ञानं यस्य, परन्तु कोऽपि न विधिनासौ प्रशस्यो जनः ।  
 एवं यस्य विधिर्न चास्ति परतः सोऽप्यस्ति तद्वत्स्वयम् ,  
 किन्त्वेको विशिनष्टि योऽस्ति परमो ज्ञानक्रियाभ्यां युतः ॥

अन्वय—कस्यापि मुनिमरसिंह प्रति—परमप्रकृष्टविधिना श्रेयान् पुरुष क अस्ति इति प्रश्ने सति मुनि अमरसिंह भाषते—यस्य ज्ञानम् (अस्ति) स श्रेयान् अस्ति । परन्तु यस्य ज्ञान तु (वर्त्तते), क अपि विधिः (क्रिया) न अस्ति (स ज्ञानवास्तु अस्ति, सोऽपि क्रियावान् पुरुष स्वयं तद्वत् प्रशस्यजनवत् न अस्ति—अर्थात् प्रशस्यो नास्ति । किन्तु य पुरुष ज्ञानक्रियाभ्याम् युत अस्ति, स एक परमः विशिनष्टि—अर्थात् स एव सर्वप्रशस्तो विद्यते ।

अर्थ—किसी के, मुनि श्री अमरसिंहजी से—सर्वोत्कृष्ट विधि के साथ श्रेष्ठ पुरुष कौन हो सकता है, ऐसे प्रश्न किए जाने पर मुनिजी श्री अमरसिंहजी महाराज ने बताया कि जो ज्ञानी है, वह सर्वश्रेष्ठ है । परन्तु जो ज्ञानी तो है, क्रियावान् नहीं है, वह प्रशस्य पुरुष नहीं हो सकता और इसी प्रकार जो क्रियावान् है किन्तु ज्ञानी नहीं है, वह भी प्रशस्य नहीं हो सकता । किन्तु जो ज्ञान-क्रिया इन दोनों से युत है, वह अकेला ही परम विशिष्ट है, अर्थात् वही सर्वप्रशस्त है ।

( ११ )

स ब्रूते स्वयमेव सूक्तिमपरां सशुद्धचित्तो मुनिः ,  
 सन्त्येके मनुजाः परं सुनिरतं निन्दन्ति सेच्छ जनम् ।  
 आत्मानं प्रथयन्ति सज्जनतम ते सन्ति निन्द्या. स्वयम् ,  
 नैरोग्याय ददाति भेषजमिवान्यस्मै हितायात्मन. ॥

अन्वय — उक्त विषय लक्ष्यीकृत्य—स मुनि स्वयम् एव अपरा सूक्ति ब्रूते तद्यथा—आत्मन हिताय कोऽपि नैरोग्य लब्धुम् अन्यस्मै पुरुषाय भेषज ददाति । (ससारे) एके मनुजा (एतादृश) सन्ति, (ये) पर जनं सेच्छ सुनिरत निन्दन्ति, आत्मान च सज्जनतम प्रथयन्ति । ते मनुजा सूक्त्यनुसार स्वय निन्द्या सन्ति ।

अर्थ—उक्त वात को लक्ष्य बनाकर—वे मुनिजी अपने आप ही एक दूसरी सूक्ति कहते हैं, जैसे कि अपने भले के लिये कोई व्यक्ति कि, मैं स्वस्थ हो जाऊँ, इसलिए वह किसी दूसरे व्यक्ति को औषध देता है । ससार मे कुछ दूसरे मनुष्य ऐसे भी हैं कि जो दूसरे मनुष्य की भरपेट निरन्तर निन्दा करते रहते हैं और स्वय को बडा अच्छा सिद्ध करते हैं । ऐसे मनुष्य सूक्ति के अनुसार निन्दनीय हैं ।

( १२ )

ससर्गोऽधिकरोति सत्त्वमधिकं सौजन्यदौर्जन्ययोः ,  
 हा । तस्मात्पतति प्रभावमहितो देवोपमः सज्जनः ।  
 सत्पुष्पप्रचयप्रसंगसुकृति प्रव्यक्तरत्नाकृतिः ,  
 संसर्गं समवाप्य शावमशुभ माला खलत्यादरात् ॥

अन्वय—सम्प्रति मुनि सगति महत्त्व निर्दिशति—सौजन्यदौर्जन्ययोः ससर्गं. सत्त्वम् अधिकम् अधिकरोति, तस्मात् हा । प्रभावमहित. देवोपमः सज्जन पतति । यथा—अशुभ शावम् ससर्गं. समवाप्य सत्पुष्पप्रचयप्रसंग सुकृति प्रव्यक्तरत्नाकृति माला आदरात् खलति ।

अर्थ—अव मुनिराज सद्गति के महत्त्व का निर्देश करते हैं—सुजनता और दुर्जनता के विषय मे सद्गति प्राणि पर अधिक अधिकार जमाती है । इस सद्गति के कारण, विपाद होता है कि परम प्रभावी देवतुल्य सज्जन पुरुष पतित बन जाता है । जैसे—अच्छे पुष्पों के साथ सुधड झिलमिलाते रत्नों की आकृति वाली माला शव (लाश) के अशुभ ससर्ग को पाकर आदर से रहित हो जाती है ।

( १३ )

इत्थं सोऽविरतं सदा विहरति प्रज्ञानुसारक्रिय ।  
आदेश च गुरोर्निधाय शिरसा सङ्क्रेतविद्योतितम् ।  
मार्गे त मुनिमाक्षिपन्ति कुधियः पृच्छन्ति गूढं मतम् ,  
क्षन्त्वा तान् सहजस्वभावरहितानच्छोद्य जंगम्यते ॥

अन्वयः—इत्थं सदा स प्रज्ञानुसारक्रिय अमरसिंहो मुनि गुरो सङ्क्रेतविद्योतितम् आदेश शिरसा निधाय अविरत विहरति । मार्गे कुधियः (जना ) त मुनिम् आक्षिपन्ति, गूढ मत (च) पृच्छन्ति, किन्तु (अयम्) तान् सहज स्वभावरहितान् क्षन्त्वा अच्छोद्य जगम्यते ।

अर्थ—इस प्रकार सदा वे प्रज्ञा के अनुसार क्रिया करनेवाले श्री अमरसिंह मुनिराज गुरुदेव के सङ्क्रेत से विद्योतित आदेश को शिरोधार्य मानकर निरन्तर विहार करते थे । मार्ग में कुबुद्धि के मनुष्य उन मुनिराज पर आक्षेप करते और गूढ मत को पूछते थे । किन्तु (आप) उन कुटिल आक्षेप्ताओं को क्षमाकर अच्छा-अच्छा कहकर निरन्तर जल्दी-जल्दी प्रस्थान करते रहते थे ।

( १४ )

लोकास्ते वचनप्रयुक्ति सहितानुद्बोधितानुत्तरान् ,  
श्रुत्वेमान् सुपरस्पर कुशलिनः सद्बुद्धिमन्तः स्वतः ।  
शंसन्ते सततक्रियानुभविनः सद्ज्ञानमूर्त्तैर्मुनेः ,  
माहात्म्यं परमं नितान्तमसकृत् सज्ज्योतिराविष्कृतम् ॥

अन्वयः—तथापि ये बुद्धिमन्तोजना सन्ति—ते लोका वचनप्रयुक्ति सहितान् इमान् उत्तरान् श्रुत्वा सद्बुद्धिमन्तः कुशलिनः सन्तः स्वतः सतत क्रियानुभविनः सद्ज्ञानमूर्त्तैर्मुनेः परम सज्ज्योतिराविष्कृत माहात्म्यम् असकृत् सुपरस्पर नितान्तं शंसन्ते ।

अर्थ—इतने पर भी जो समझदार थे—वे मनुष्य कहने के ढग के साथ इन उत्तरो को सुनकर विवेकी निपुण होकर अपने आप क्रियारत सद्ज्ञान की मूर्त्ति मुनि महाराज के विशिष्ट पवित्र प्रकाश से आविष्कृत माहात्म्य की वार-वार खूब परस्पर में प्रशंसा करते थे ।

( १५ )

वैदुष्यस्य विशिष्टयुक्तिसरणेरस्य प्रभावं मुनेः ,  
 संज्ञातु मनसो विकारमसितुं स्थानान्तराद् धाविता ।  
 सम्भूता मनुजा अर प्रतिदिनं व्यञ्जन्ति चित्रं महत् ,  
 आहोस्वित्सततं भ्रमन्ति मनसः शङ्कां निवृत्त्य स्वतः ॥

अन्वय—अपरेऽपि केचन जिज्ञासवः—अस्य विशिष्टयुक्तिसरणे मुने.  
 वैदुष्यस्यप्रभाव संज्ञातुम् मनसग्व विकारम् असितु प्रतिदिनम् स्थानान्तरात्  
 धाविताः सम्भूता मनुजा अर महत् चित्र व्यञ्जन्ति । आहोस्वित् (ते मनुजा )  
 स्वतः मनस गङ्का निवृत्त्य सतत भ्रमन्ति ।

अर्थ—हमारे भी कुछ जिज्ञासु—इन, प्रमुख युक्तियों का मार्ग है जिनका ऐमे  
 मुनि श्रीअमरसिंहजी महाराज के वैदुष्य का प्रभाव भलीप्रकार समझने के लिए  
 और मन में मैल को दूर करने के लिए प्रतिदिन न्यान-स्थान में दौडकर एकत्रित  
 हुए मनुष्य हमेशा बड़ा अचम्भा प्रकट करते थे, अथवा वे मनुष्य अपने आप मन के  
 सन्देह मिटाकर निरन्तर घूमते-फिरते थे ।

( १६ )

सन्त त विमलप्रभावमनुलं द्रष्टुं समस्ता जनाः ,  
 आयान्ति क्रमशो मनोजमनसो भक्त्युन्मुखा नित्यशः ।  
 आश्चर्यं त्विदमेव ते प्रतिदिनं चायान्ति गच्छन्त्यपि ,  
 किं त्वेते कृतदर्शना अपि जनाः प्रत्युत्सुकाः केवलम् ॥

अन्वय—मुने विशिष्टज्ञानदर्शनात्—समस्ता जना तम् अतुल  
 विमलप्रभाव मन्तं द्रष्टु भक्त्युन्मुखा मनोजमनस नित्यश क्रमश आयान्ति ।  
 किन्तु आश्चर्यम् इदम् एव (आसीत्) (यत्) ते प्रतिदिनम् आयान्ति च  
 गच्छन्ति अपि, एते कृतदर्शना अपि केवलम् (द्रष्टु) प्रत्युत्सुका एव (आसन्) ।

अर्थ—मुनिराज के विशिष्ट ज्ञान और दर्शन के कारण सभी मनुष्य उस  
 अनुपम विमल प्रभाव मन्त के दर्शन के लिए भक्त भावुक होकर नित्य एक के बाद  
 एक आते ही रहते थे । किन्तु आश्चर्य तो यह था कि प्रतिदिन आने-जाने पर भी  
 दर्शन किए हुए भक्त, फिर भी दर्शन के लिए उत्कण्ठित ही रहते थे ।

( १७ )

आयातान् जनसंकुलान् प्रतिहरित् दृष्ट्वा परं मोदते ,  
किन्तत्कान् सुतरामय रमयितु शङ्का शतं पृच्छति ।  
आतोष विगलन् कुतर्कमपरं निश्शङ्कमुट्टङ्कते ,  
शङ्कन्ते तमिमं मुनिं स्वहृदये स्वेच्छागत गौतमम् ॥

अन्वयः—सम्प्रति—प्रतिहरित् आयातान् जनसंकुलान् दृष्ट्वा मुनि पर मोदते । किन्तु उत्कान् जनान् सुतरा रमयितु शत शङ्का पृच्छति । आतोषम् अपर कुतर्कं विगलन् अयं मुनि निश्शङ्कम् उट्टङ्कते । (निश्शङ्कम् उट्टङ्कमानं) तम् इमम् मुनिम् आयाता जना स्वहृदये स्वेच्छागत गौतमं शङ्कन्ते ।

अर्थ—अब—प्रत्येक दिशा से आये हुए जनसमूहों को देखकर मुनिजी बहुत प्रसन्न होते थे । किन्तु उत्कण्ठित पुरुषों को आनन्दित करने के लिए सैकड़ों शङ्काएँ पूछने लगते थे । किन्तु जब तक सन्तोष न हो, तब तक दूसरे कुतर्क को मिटाते हुए वे निश्शङ्क बोलते ही रहते । इसलिए आये हुए मनुष्य अपने हृदय में अपनी इच्छा से आये गौतम हो-ऐसी शङ्का करने लगते थे ।

( १८ )

दृष्ट्वेम परमं हसन्तमनिश सन्त परे मन्वते ,  
स्याच्चैतत् स्वयमेव ये दिविषदो भ्राम्यन्ति पारेजगत् ।  
आत्मानं विशद सुवैभवपर मन्वन्त आनन्दतः ,  
मिथ्यैषेति मतिः परा दिविषदा तस्मादय मोदते ॥

अन्वयः—मुनिमिमं सदा प्रसन्नं दृष्ट्वा जनास्तर्कन्ते—जना परमं हसन्तम् सन्तम् इमं दृष्ट्वा परे मन्वते—यत् एतत्—ये दिविषद स्वयमेव पारे-जगत्, आत्मानं विशद सुवैभवपरम् मन्वते, (अतस्ते) आनन्दतः—भ्राम्यन्ति, इति तेषां दिविषदा मतिः एषा—परा मिथ्या अस्ति । तस्मात् अयं मुनि मोदते । अर्थात् अहं भूमावेव स्थित परमस्तपोधनोऽस्मि !

अर्थ—मनुष्य सदा इन मुनिजी को प्रसन्न देखकर तर्क करते हैं—कि हो न हो, ऐसा जान पड़ता है कि जो देवगण स्वयं ही दुनिया भर में—अपने आप को परम वैभव सम्पन्न मानते हैं, इसलिए मौज उड़ाते फिरते हैं—ऐसा उनका विचार विल्कुल थोड़ा है । इस कारण से ये मुनिजी सम्भवतः हँसते-करते हैं । अर्थात् मैं पृथ्वी ही रहकर परम तपोधन हूँ । मेरे सामने तुम क्या हो !



( १६ )

भावं दीपयति प्रथां रचयति प्रज्ञानमालम्बते ,  
 श्रद्धां स्थापयति प्रभां स्थिरयति व्यामोहमुल्लंघते ।  
 क्षोभं दूरयति प्रभावमसमं लोके समुत्पादयन् ,  
 याति प्रातरय शरीररचितां शौचक्रियां वर्तितुम् ॥

अन्वयः—साधु. परकार्यं साध्नोति—तस्मात् अय मुनि (अमरसिंह.)  
 साधु. सन् (यदा) प्रातः शरीररचिता शौचक्रिया वर्तितुं याति, (तदा) लोके  
 भाव दीपयति, प्रथा रचयति, प्रज्ञानम् आलम्बते, श्रद्धा स्थापयति, प्रभा  
 स्थिरयति, व्यामोहम् उल्लंघते, असम प्रभाव समुत्पादयन् क्षोभ दूरयति ।

अर्थ—साधु पर-हित के लिए कार्य करता है, अतः वह साधु कहलाता है—  
 इसलिए आप (मुनि श्री अमरसिंहजी महाराज) जब प्रभात में शरीर के द्वारा रचित  
 शौचक्रिया को बरतने के लिए जाते थे, तब सप्ताह में भाव को दीप्त करते थे, प्रथा  
 को जन्म देते थे, प्रज्ञान का महारा लेते थे, श्रद्धा को जमाते थे, धाक को कायम  
 रखते थे, व्यामोह को अध.कृत रखते थे, और असाधारण प्रभाव को पैदा करते हुए  
 क्षोभ को दूर करते थे ।

( २० )

निर्वृत्तञ्च विधेस्ततो मुनिममुं पृच्छन्ति जिज्ञासवः ,  
 प्रश्ने सोऽभ्यदधात् विशेषविषये चाध्यात्मविद्यात्मके ।  
 आत्मा यत्स्पृशति श्रय नियमतो द्वेषस्य रागस्य वा ,  
 तद्वद्धो लभते व्यथां तदितरो मुक्तश्च मोमुद्यते ॥

अन्वय —तत विधे निर्वृत्तम् अमु मुनि जिज्ञासव (श्रावका) विशेष  
 विषये अध्यात्मविद्यात्मके प्रश्ने (किञ्चित्) पृच्छन्ति । अतः स (मुनि  
 अमरसिंह) अभ्यदधात् यत्तदा च आत्मा द्वेषस्य वा रागस्य श्रय नियमत  
 स्पृशति, तदा द्वेषरागाभ्यां वद्ध (आत्मा) व्यथा लभते, रागद्वेषाभ्याम्  
 इतर (आत्मा) च मोमुद्यते ।

अर्थ—तदनन्तर शौचादि क्रिया से निर्वृत्त इन मुनिजी से जिज्ञासु श्रावक  
 विषय वाले अध्यात्मविद्या सम्बन्धी प्रश्न के विषय में कुछ पूछते हैं, तब  
 श्री ने कहा कि जब आत्मा, द्वेष अथवा राग के आश्रय को नियम से छूने  
 ली है, तब रागद्वेष से बँधी हुई आत्मा दुःख का अनुभव करती है और रागद्वेष  
 १८.॥ निरन्तर हर्ष ही हर्ष का अनुभव करती है । अर्थात् आत्मा  
 किन्तु ससर्ग से सुखी-दुःखी हो जाती है ।

( २१ )

प्रापन्नान् महिमानमाप्तसुविधानभ्युद्यतान् सम्पदे ,  
जिज्ञासूनयमेव पृच्छति मुनिर्धर्म दधीरन्न वा ।  
पृष्टास्ते समुदीरयन्ति भगवन् कुर्मो वय दर्शनम् ,  
साधूनां खलु दर्शनं भवति नो मुक्त्यै पर कारणम् ॥

अन्वयः—सम्प्रति अयमेव मुनि महिमानम् प्राप्तान् सम्पदे अभ्युद्यतान् आप्त सुविधान् जिज्ञासून् पृच्छति (यत् भवन्त) धर्मं दधीरन् वा न ? पृष्टा ते समुदीरयन्ति, हे भगवन् ! वय साधूना दर्शनं कुर्मः । (यतो हि) साधूना) दर्शनं खलु न मुक्त्यै पर कारणं भवति ।

अर्थ—सम्प्रति ये ही मुनिराज प्रख्यात, सम्पत्ति के लिए सर्वथा सन्नद्ध, जिनको सुविधाएँ प्राप्त हैं, ऐसे उन जिज्ञासुओं से प्रश्न करते हैं कि धर्म करते हो कि नहीं ? पूछे गये वे कहने लगे कि हम तो मुनियों के दर्शन करते हैं । क्योंकि यह निश्चय है कि मुनिजन का दर्शन मुक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कारण है । अर्थात् दर्शन करते हैं और कुछ नहीं करते ।

( २२ )

उद्धारो भवतां विना सुकृतिभिश्शक्योऽपि किं विद्यते ,  
अस्मान्मे मतमस्ति सत्यमपर कृत्वा च तद् दर्शनम् ।  
युष्माभिः क्रियता तपस्तु सतत कर्मक्षयोऽयं भवेत् ,  
अन्ते यूयमतो भवेत् नु परे मुक्तेः पद गामिनः ॥

अन्वय—केवल दर्शनादेव कार्यं न फलति—अतो मुनिना प्रश्नः क्रियते—किं भवताम् उद्धारं सुकृतिभिः विना अपि शक्य (अस्ति), अर्थात् शक्यो नास्ति । अस्मात् मे मतम् अस्ति, यत् तत् दर्शनं कृत्वा युष्माभिः तु तप सततम् क्रियता—अपर सत्यम् (इदं) यत्—अयं कर्मक्षयश्च भवेत् । अतः अन्ते परे यूयम् मुक्तेः पद गामिनः नु भवेत् ।

अर्थ—केवल दर्शन से कार्य नहीं फलता—इसलिए मुनिराज ने प्रश्न किया—कि क्या आपका उद्धार विना सुकर्मों के शक्य है, अर्थात् हो सकता है । तो उत्तर—‘नहीं हो सकता’ यही आता है । इससे मेरा मत तो यही है कि उस दर्शन को छोड़कर तुमको तो सदा तप करना चाहिए, और दूसरा सत्य यह भी है कि कर्मों को क्षय भी हो जायेगा । हो सकता है कि परिणाम में तुम तब मुक्ति के स्थान के अधिकारी ही बन जाओ ।

( २३ )

सद्ज्ञानाद् मनुजो न जातु कमपि क्लेशं वहत्यात्मना ,  
 तद्धेतु बहिरेव चास्ति नियत तस्माद्विकारः कुत . ।  
 स्वच्छात्मा स्वत एव सलसति यद् रत्नत्रयेणामुना ,  
 तेनाहं प्रथयामि चिन्मयमिमं जीवं सदा रक्षत ॥

अन्वय—सम्यग् ज्ञानमपि यूयमुपासयेत—(यतोहि) सद्ज्ञानात् मनुज जातु आत्मना कमपि क्लेश न वहति । (यत ) क्लेशस्य हेतु बहि एव नियतम् अस्ति, तस्मात् (आत्मनि) विकार कुत (आगच्छेत्) । यद् अमुना रत्नत्रयेण स्वच्छात्मा स्वत एव सलसति तेन अहन्तु प्रथयामि यद् यूयम् इमं चिन्मय जीव सदा रक्षत ।

अर्थ—सम्यक्ज्ञान भी तुमको प्राप्त करना चाहिये—क्योकि सम्यक्ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य कभी स्वय किसी क्लेश को नहीं झेलता । क्योकि क्लेश का कारण बाहर ही नियत है । इससे आत्मा मे विकार कहाँ से पहुँचे ? कारण यह है कि रत्नत्रय से शुद्ध आत्मा स्वत ही प्रतिष्ठित रहती है । इससे मैं तो यही बताता चला आ रहा हूँ कि तुम इस चेतन जीव की सदा रक्षा करो ।

( २४ )

प्रश्नोऽयं भवति व्यथामनुभवन्नात्मा विशुद्ध कथम् ,  
 'तस्मात्ते वचनं न सम्यगिति नश्चित्ते विश्रामो वयम् ।  
 पृष्टोऽसौ प्रथते मुनि सविशदं प्रश्नस्य तथ्याशयम् ,  
 शुद्धोऽवश्यमसौ परन्तु यदि यो रागादि बद्धो भवेत् ॥

अन्वयः—तदा ते जिज्ञासवोऽवोचन्—हे भगवन् ! प्रश्न अयं भवति (यद्) व्यथाम् अनुभवन् आत्मा शुद्ध कथं भवितुं शक्यति ? तस्मात् नश्चित्ते ते वचनं सम्यक् न (अस्ति) इति वयं विश्रामः । पृष्टं सन् असौ मुनि प्रश्नस्य तथ्याशयं सविशदं प्रथते—अवश्यम् असौ आत्मा शुद्धः अस्ति, परन्तु यदि रागादिबद्धः य आत्मा भवेत् तदा व्यथाम् अनुभवेत् ।

अर्थ—तब वे जिज्ञासु श्रावक कहने लगे कि महाराज ! प्रश्न यह है कि व्यथा का अनुभव करती हुई यह आत्मा शुद्ध कैसे हो सकेगी ? इससे हमारे मन मे आपका कथन ठीक नहीं लगता—ऐसा हम सोचते हैं । पूछे गये वे मुनि (श्री अमरसिंहजी महाराज) प्रश्न के वास्तविक अभिप्राय को बताते हैं कि यह आत्मा अवश्य शुद्ध है, किन्तु जब यह रागादि से बँधी हुई रहती है तो यह सुख-दुःख का अनुभव करने नगती है ।

( २५ )

आशङ्कामसितुं प्रदेशमतितुं धर्मक्रिया वर्त्तितुम् ,  
 वर्त्ति साधयितु प्रथा गमयितु विश्वासमुद्योतितुम् ।  
 नित्य योऽयतताऽऽसदातनतम धर्म समाबोधयन् ,  
 आसीत्सोऽमरसिंहदेव इतिह प्रासादमौलिमुनिः ॥

अन्वयः—मुनि कवि परिचाययति—य आशङ्काम् असितुम्, धर्म क्रिया वर्त्तितुम्, वर्त्ति साधयितुम्, प्रथा गमयितुम्, विश्वासम् उद्योतितुम् आसदातनतम धर्म समाबोधयन् नित्यम् अयतत, स इतिहप्रासादमौलि. मुनि. अमरसिंहदेव आसीत् ।

अर्थ—कवि मुनि का परिचय कराता है कि—जिसने शङ्का को दूर करने के लिये, स्थान-स्थान पहुँचने के लिये, धर्मक्रिया को बरतने के लिये, वर्त्ति को साधने के लिये, रीति को व्यवस्थित करने के लिये सदा से चले आने वाले धर्म को बताते हुए प्रयत्न किया, वे इतिहास के प्रासाद के मस्तक मुनि श्री अमरसिंहजी ही थे ।

( २६ )

सायुज्येन विहृत्य भारतभ्रुवो देश-प्रदेशान् बहून् ,  
 जैनान् य समबोधयत् प्रतिपद जैनं पर शासनम् ।  
 ज्ञप्तोक्तं विशद प्रयुक्तिमुलभं हृद्यानवद्यं शुभम् ,  
 सिद्धोऽभूदयमेव साधुसरणौ धन्वप्रधानो मुनि ॥

अन्वयः—भारतभ्रुव बहून् देश-प्रदेशान् सायुज्येन विहृत्य य प्रतिपद जैनान् ज्ञप्तोक्त शुभ हृद्यानवद्य प्रयुक्तिमुलभ पर जैन शासन समबोधयत् अयमेव मुनि साधुसरणौ धन्वप्रधानः सिद्ध अभूत् ।

अर्थ—भारत भूमि के अनेक छोटे-बड़े स्थानो पर सायुज्य के साथ विहार कर जिन्होंने स्थान-स्थान पर जैन जगत् को ज्ञप्तोक्त, शुभ, प्रिय और पवित्र प्रयुक्तिप्राप्य महान् जैनशासन स्पष्टता से समझाया । वे ही थे मारवाड मे प्रधान अथवा प्रमुख मुनिराज साधु मार्ग मे सफल सस्थापक थे ।

( २७ )

कर्त्तव्ये प्रथमः क्रियासु कुशलः शास्त्रोदधौ पारगः ,  
 निष्णातो गहने विधौ सुविषमे विश्वे स्वयं सारवित् ।  
 उद्युक्तः प्रसृतप्रमादविगमे गन्ता स्थले दुर्गमे ,  
 विख्यातो जगतीतले मुनिरयं सिंहस्वरूपोऽमरः ॥

अन्वयः—सिंहस्वरूप अयं मुनिः अमरसिंहः कर्त्तव्ये प्रथमः, क्रियासु-  
 कुशलः, शास्त्रोदधौ पारगः, गहने विधौ निष्णातः, सुविषमे विश्वे स्वयं सार-  
 वित्, प्रसृतप्रमादविगमे उद्युक्तः, दुर्गमे स्थले गन्ता, जगतीतले विख्यात  
 (अस्ति) ।

अर्थ—सिंहस्वरूप ये मुनि श्री अमरसिंहजी कर्त्तव्य मे प्रथम, क्रियाओ मे  
 कुशल, शास्त्ररूप सागर मे पारगामी, गहन विधि मे निपुण, महाविषम सार मे  
 स्वयं तत्त्ववेत्ता, फँसे हुए प्रमाद के निरसन मे उद्युक्त (और) दुर्गमे अर्थात् अगम्य  
 स्थल मे जाने वाले विश्वविख्यात पुरुष थे । अर्थात् वे अपने समय के सर्वगुणसम्पन्न  
 मुनि थे ।

( २८ )

सर्वज्ञस्य जिनेश्वरस्य परमं ज्ञप्तं तु धर्मं मरौ ,  
 वीरस्यैव यथोदितं प्रचरितुं श्वेताम्बर स्थानकौ ।  
 द्वाविंशोत्तममण्डली भगवतोऽगच्छन्मुनियो मरुम् ,  
 सोऽयं मेऽमरसिंह एव मुनिषु श्रेष्ठो विशिष्टोऽभवत् ॥

अन्वयः—मरौ देशे सर्वज्ञस्य जिनेश्वरस्य भगवतः वीरस्य परमं ज्ञप्तं  
 तु धर्मं यथोदितं प्रचरितुं यः श्वेताम्बर स्थानकौ द्वाविंशोत्तममण्डली मुनिः  
 मरुम् अगच्छत्, अयं स मुनिषु श्रेष्ठः मे विशिष्टः अमरसिंहः अभवत् ।

अर्थ—मारवाड देश मे सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान् महावीर के परम ज्ञप्त धर्म  
 को जैसा कहा गया है, उसका अतिक्रमण न कर प्रचार करने के लिये जो श्वेताम्बर  
 स्थानकवासी वाईस सम्प्रदाय के मुनि मरुदेश पहुँचे, वे ये ही मुनिओ मे श्रेष्ठ मेरे  
 विशिष्ट श्री अमरसिंह जी महाराज थे ।

( २६ )

यस्य ज्ञानविशेषसूर्यकिरणैर्दिव्यैर्नवैर्निर्मलैः ,  
 विद्वन्मानसपुष्कर प्रतिदल शोभाविकाशं दधत् ।  
 आलोक जनमण्डल प्रभवितु धर्मप्रभाभूषया ,  
 माहात्म्यं त्वधुनामरस्य च मुनेस्तस्यापि सराजते ॥

अन्वय.—यस्य नवैर्निर्मलैर्दिव्यैर्ज्ञानविशेषसूर्यकिरणैर्विद्वन्-  
 मानसपुष्करप्रतिदलशोभाविकासदधत्आलोकजनमण्डलं धर्मप्रभा-  
 भूषया प्रभवितु तस्य मुने अमरस्य (अमरसिंहस्य) माहात्म्यं तु अधुना  
 अपि सराजते ।

अर्थ—जिसकी नई निर्मल दिव्य ज्ञानविशेषसूर्य की किरणों से विद्वानों के  
 हृदय कमल को, कली-कली की छटा के साथ धारण करता हुआ, ससार भर के  
 मनुष्यों को धर्म की ज्योति से भूषित कर प्रभावित करने के लिए उन मुनि श्री  
 अमरसिंह जी महाराज का माहात्म्य तो अब भी विद्यमान हैं ।

( ३० )

निकामं प्रव्यक्तुं यदपि न हि मे कापि सुगति ,  
 तथापीमं ख्यातु मनसि मम जाता रुचिरियम् ।  
 अतोऽहं विख्यात सुगुणिगणनायाः शिखरिणम् ,  
 तदग्रे सर्गेऽमुं पुनरपि मुनिं तं व्यभिदधे ॥

अन्वयः—यदपि निकामप्रव्यक्तुं मे का अपि सुगति न हि अस्ति,  
 तथापि इमं मुनिं ख्यातुं मम मनसि इयं रुचि जातास्ति । अतस्तद् अहं  
 पुनरपि अग्रे सर्गे तं सुगुणिगणनाया शिखरिणं विख्यातं मुनिं व्यभिदधे ।

अर्थ—यद्यपि पूर्णरूपेण वर्णन करने की मुझ में कोई भी शक्ति नहीं है,  
 तथापि इन मुनि महाराज के वर्णन करने की मेरे मन में यह इच्छा है कि मैं फिर  
 भी आगे के सर्ग में उन महान् गुणियों की गिनती के शिखरी विख्यात मुनि महाराज  
 का और वर्णन करूँ ।

( ३१ )

न कोऽपि कवितामह यदि रचेय सेच्छ कदा ,  
 शृणोति भवता समो मयि कृपा निघायाप्यसौ ।  
 कविर्न सहते पुन. सुपदमेकमस्या अहो ,  
 करोमि ननु साहसं तदपि ते दयायाः फलम् ।

अन्वय.—कवि कथयति—कदापि सेच्छ अह यदि कविता रचेय (तदा ता) क अपि न शृणोति, यदि भवता सम. अमौ ता शृणोत्यपि, ततस्तु, अहो, कवि अस्या (मम कविताया) एक सुपदमपि न सहते । तथापि अह (कवितायै) साहस करोमि, तदपि हे सज्जनश्रोत ! ते दयाया. फलम् (अस्ति) । (यत् त्व शृणोपि ।

अर्थ—कवि कहता है कि जब कभी इच्छा से मैं कविता की रचना करूँ तो कोई सुनता नहीं है, और यदि आपके नमान कोई मुझ पर दया कर मुनता भी है तो फिर मैं क्या बताऊँ ! ये कवि मेरी कविता की बात तो दूर रही, उसके पद्य का एक पद भी नहीं सहन कर पाते । (इससे मेरा निराश होना स्वाभाविक है) । फिर भी मैं जो कविता के लिए साहस करना हूँ, वह भी हे सज्जन ! आपकी दया का फल है कि जो आप मुनते हों, अन्यथा तो कौन पूछे !

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
 उपाध्याय पदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
 श्रीमदाचार्यामरसिंह महाकाव्ये  
 चतुर्थ सर्गः



## पंचमः सर्गः

( १ )

अथ प्रज्ञप्तात्माऽशरणशरणो मङ्गलभुवम् ,  
अखण्डब्रह्माण्ड-प्रथितमहिमान जिनवरम् ।  
स्वतो नामं नामं जगति जयिन प्राणिनिवहान् ,  
जनि लेभे लोकाममरमुनिरेव व्यवसितुम् ॥

अन्वयः—अथ अशरणशरण प्रज्ञप्तात्मा अमरमुनि मङ्गलभुवम्  
अखण्डब्रह्माण्डप्रथितमहिमानम् जिनवरम् स्वत नाम नाम प्राणिनिवहान्  
एव लोकन् जयिन व्यवसितु जगति जनि लेभे ।

अर्थ—दीक्षाग्रहणानन्तर अशरणो के शरण प्रज्ञप्तात्मा अमरसिंहजी महाराज  
ने मङ्गलस्थान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे प्रख्यात है महिमा जिसकी ऐसे जिनेश्वर भगवान्  
को स्वत वार वार नमन कर प्राणियों के समूहो को और इसी प्रकार मनुष्य को  
विजयी बनाने के लिए जगत् मे जन्म ग्रहण किया था, यह सिद्ध कर दिखाया ।

( २ )

शुभं वर्षावास मुनिजनमनोज्ञ ज्ञविहितम् ,  
समाप्येम गन्तुं गुरुजनसमेतोऽमरमुनि ।  
मर्ति चक्रे शश्वत्त्वमरसरनामेति नगरम् ,  
इद शिष्यस्थान दशमगुरुगोविन्दरचितम् ॥

अन्वयः—तत. इमम् ज्ञप्तविहितम् मुनिजनमनोज्ञम् शुभ वर्षावासम्  
समाप्य गुरुजनसमेत अमरसिंहमुनि अमरसरनामेति नगरम्, यत् इद नगर तु  
दशमगुरुगोविन्दरचितम् शिष्यस्थानम् (अस्ति ।), गन्तु शश्वत् मर्ति चक्रे ।

अर्थ—तदनन्तर इस ज्ञ-विहित मुनिजन के प्रिय शुभ वर्षा के आवास अर्थात्  
चतुर्मास को पूर्णकर गुरुजनो के साथ अमरसिंह जी महाराज अमरसर नाम के नगर  
जो कि दशमेश गुरुगोविन्दसिंहजी महाराज का रचित, सिक्खो का वसाया हुआ है,  
को जाने के लिए वारवार विचारने लगे ।

० सर्गोऽस्मिन् 'शिखरिणी यमौ न्सौ भूलौ गृतुच्छा ।'





( ६ )

घरन्तं तं सन्तं धवलवसनं पात्रसहितम् ,  
पदाति गच्छन्तं प्रथितमहिमान मुनिवरम् ।  
सवेत्र सूणीं घं क्रमिकगमनं वक्त्रपिहितम् ,  
महान्तं संवीक्ष्यारमति सुतरां प्राणिनिवहः ॥

अन्वय — प्राणिनिवह पात्रसहित धवलवसन सवेत्र सूणीं घ घरन्त क्रमिकगमन वक्त्र पिहित पदाति गच्छन्त त महान्त सन्त प्रथितमहिमान मुनिवर संवीक्ष्य आरमति ।

अर्थ—जनता, पात्रो के सहित, श्वेतवस्त्र, वेत्र के साथ श्रेष्ठ ऊन के ओषे को धारण किए हुए, धीरे-धीरे चलने वाले मुखवस्त्राच्छादित पैदल जाते हुए महान् सन्त कीर्तिशाली मुनिश्रेष्ठ श्री अमरसिंहजी महाराज को निहार कर आनन्द विभोर हो गई ।

( १० )

विहारं कुर्वन्तं नगरममृतं स्पष्टुमनसम् ,  
जनाः पृच्छन्तीम कथयतु कथङ्कारमिति यत् ।  
गृहं त्यक्त्वा गच्छेत् सुघटिततमे भोगरुचिरे ,  
शरीरे नाद्यापि श्रुतमतिकृतं नाप्यधिगतम् ॥

अन्वयः—तदा जना अमृत नगर स्पष्टुमनस विहार कुर्वन्तम् इम मुनिम् अमरसिंह पृच्छन्ति, यत् सुघटिततमे भोगरुचिरे शरीरे सति गृह त्यक्त्वा गच्छेत् इति कथङ्कारं जात कथयतु । यतोहि अद्यापि न श्रुतम् नापि अतिकृतम् अधिगतम् ।

अर्थ—तब मनुष्य, अमृतसर नगर को स्पर्श ने की इच्छावाले विहार करते हुए इन मुनिराज श्री अमरसिंहजी से प्रश्न करते हैं कि सुघड से सुघड भोगरुचिर शरीर के रहते हुए घर को छोड़कर चल दे ! —ऐसा कैसे हुआ ? आप बताइये । क्योंकि हमने न तो आज तक ऐसा सुना और नहीं आज तक ऐसा गजब ढाहने वाला पाया ।

( ७ )

अतस्ते साशङ्काः प्रतिमुनि पिपृच्छां विदधति ,  
 ततस्तेषां शङ्कां निरसितुमनास्तामरमुनिः ।  
 अवोचन्तां वाणी शमयति सदा या विमनसम् ,  
 गृहस्थाः सन्तुष्टा अभिदधति निश्चप्रचवचः ॥

अन्वयः—उत्तराभावात्ते साशङ्का (अभवन्) अत प्रतिमुनि पिपृच्छां विदधति । पिपृच्छां कुर्वता तेषां ताम् पिपृच्छां निरसितु (स.) अमरमुनि ताम् वाणीम् अवोचत्, या वाणी सदा विमनस (पुरुष) शमयति । तत ते गृहस्था (श्रावका ) ता वाणी श्रुत्वा सन्तुष्टा सन्त. निश्चप्रचवच. अभिदधति ।

अर्थ—उत्तर के अभाव के कारण साशङ्क हो गये और इसीलिए वे मुनि-मुनि से पिपृच्छा करने लगे कि क्या बात हुई जिससे मुनियो मे से कोई कुछ नहीं कहता । पिपृच्छा करने वाले उन श्रावको की उस शङ्का को दूर करने के लिए वे अमरसिंहजी मुनि वह वाणी बोले, जो वाणी सदा असन्तुष्ट पुरुष को शान्त कर देती हैं । तदनन्तर वे श्रावक उस वाणी को सुनकर सन्तुष्ट हो, ठीक है, ऐसा होता ही है ऐसा कहने लगे ।

( ८ )

तदा ते सर्वेऽमुं मुनिजनवृतं वीक्ष्य ससुखम् ;  
 वदन्त सत्सङ्गं सकलफलदं मोक्षसरणिम् ।  
 प्रसन्ना जायन्ते विविधविमताक्रान्तमनसः ,  
 गतास्ते तं द्रष्टुं नगरसुहृदो यान्तु वदितुम् ॥

अन्वयः—तदा ते सर्वे विविधविमताक्रान्तमनस. गृहस्था सकल फलद मोक्षसरणिं सत्सङ्गं वदन्तम् मुनिजनवृतम् अमुम् अमरसिंहमुनिं ससुखं वीक्ष्य प्रसन्ना जायन्ते । (तत च) ते नगरसुहृद वदितुं गताः; (यतो हि तेऽपि) त मुनिम् अमरसिंहं द्रष्टुम् यान्तु ।

अर्थ—तब वे सब अनेक विमतो से आक्रान्त मन वाले गृहस्थ सब फल देने वाले मोक्ष के मार्ग सत्सङ्ग को बतलाते हुए, मुनिजन से घिरे हुए उन श्री अमरसिंहजी महाराज को ससुख अच्छी तरह से देखकर आनन्दित हो उठते हैं । और फिर वहाँ से नगर के मित्रों को कहने के लिए चल देते हैं कि उन अमरसिंह मुनिजी को देखने के लिए आप सब भी चलिए ।

( ५ )

प्रतिग्राम गत्वा विरमति विधेयं गमयितुम् ,  
सतां रात्रौ शेते विमलशुभग मण्डलमिदम् ।  
कृतप्रातःकृत्यं शमयति निशो व्यावहृतिकम् ,  
अतः सन्तस्त्वेते प्रतिकृतिविधान विदधति ॥

अन्वयः—सता विमलशुभगम् मण्डलम् विधेय गमयितुम् प्रतिग्राम गत्वा विरमति, रात्रौ (च) शेते । कृतप्रात कृत्यम् इदम् मण्डलम् निश. व्यावहृतिकं शमयति । अत एते सन्त प्रतिकृतिविधान विदधति ।

अर्थ—इस प्रकार मुनियो का सिंघाडा जो कि शान्तदान्त है, विधेय को साधने के लिए ग्राम-ग्राम पहुँचकर विराम करता है और रात्रि होने पर शयन करता है, प्रात कृत्य करने वाला यह मुनिमण्डल रात्रि के व्यावहृतिक को शान्त करता है । अत प्रत्येक सन्त, प्रतिकृति के कर्तव्य को पूरा करता है, सो ये भी तदनुसार करते चले जा रहे हैं ।

( ६ )

गृहस्था आगत्य त्रिकृतिजनक कर्म नमनम् ,  
विधायान्ते स्थित्वा सुखकरविधि शान्तिसुलभम् ।  
यथाधर्मं पृष्ट्वा विहितसुविधायै प्रयतितुम् ,  
प्रजिज्ञासन्ते तेऽभिदधति न वाचं श्रमणकाः ॥

अन्वय — गृहस्था आगत्य त्रिकृतिजनक नमन कर्म विधाय अन्ते स्थित्वा, सुखकरविधि शान्तिसुलभ यथाधर्मं पृष्ट्वा विहितसुविधायै प्रयति-तुम् प्रजिज्ञासन्ते । किन्तु श्रमणका वाच न अभिदधति ।

अर्थ—ज्ञात होने पर कि मुनिजन पधारे हैं तो श्रावक आकर तिखुत्तो सहित नमन कर्म कर सुखकर विधि वाले शान्तिसुलभ कार्य को धर्म के अनुसार पूछकर, मुनिजन के लिए कल्पित सुविधा के हित प्रयत्न करने के लिए बारवार जानने की इच्छा करते हैं । किन्तु छोटे मुनिजन कोई उत्तर नहीं देते । क्योंकि बड़े सन्त विराजे हुए हैं, जो वे चाहेगे, सो हम करेंगे । इसलिए वे चुप हैं ।

( ३ )

अतोऽसौ श्रीमन्त प्रथितगुरुदेव वदति तम् ,  
 अहं द्रष्टुं याचे यदि समयदेश समुचितम् ।  
 विशाल तत्स्थान परममनुकूलं भवति ते ,  
 ततस्तेनाप्युक्तं मदनुमतिरित्येव समये ॥

अन्वय.—अतः असौ अमरसिंहो मुनिः तं प्रथितगुरुदेवं वदति, यदि ते तत् विशालं स्थानं परमम् अनुकूलं भवति, (तदा) समुचितम् समयदेशं च (निरीक्ष्य) अहम् (अपि) द्रष्टुं याचे । ततः तेन अपि उक्तम् यत् समये मदनुमतिः इति एवास्ति ।

अर्थ—इसलिए वे श्रीअमरसिंह जी महाराज अपने प्रसिद्ध गुरुदेव श्रीलालचन्द्रजी मुनिराज से कहने लगे—यदि वह विशाल स्थान अधिक अनुकूल हो तो समुचित काल-क्षेत्र के अनुसार मैं भी उस स्थान को देखना चाहता हूँ । यह सुनकर—गुरुदेव श्रीलालचन्द्रजी महाराज ने भी कहा कि मेरी तो अनुमति है ही, परन्तु समय पर देखिए ।

( ४ )

अथैकस्मिन् काले परमसुदिने मङ्गलमयम् ,  
 प्रभातं भास्वन्तं दिनकरमिमे चातिसुगमम् ।  
 प्रवीक्ष्य प्रस्थानं विमलमुनयस्ते विदधति ,  
 अतो हर्ष-हर्षं विहरति सता मण्डलमिदम् ॥

अन्वय—अथ एकस्मिन् परम सुदिने काले मङ्गलमयं प्रभातं अति-सुगमं च भास्वन्तं दिनकरम् प्रवीक्ष्य इमे विमलमतयः (मुनयः) ते प्रस्थानं विदधति । अतः सताम् इदं मण्डलं हर्षं हर्षं विहरति ।

अर्थ—वर्षावास के पीछे एक परमसुदिन समय पर मङ्गलमय प्रभात और मन्दमन्द चमकते हुए सूर्य को देखकर ये विमलबुद्धि के मुनि ही प्रस्थान कर देते हैं । इसलिए सन्तो का यह मण्डल हरसता हुआ विहार करता जा रहा है ।

( ६ )

धरन्तं तं सन्तं धवलवसनं पात्रसहितम् ,  
पदाति गच्छन्तं प्रथितमहिमान मुनिवरम् ।  
सवेत्रं सूणीं घं क्रमिकगमनं वक्त्रपिहितम् ,  
महान्तं संवीक्ष्यारमति सुतरां प्राणिनिवहः ॥

अन्वय — प्राणिनिवह पात्रसहित धवलवसन सवेत्र सूणीं घ धरन्त क्रमिकगमन वक्त्र पिहित पदाति गच्छन्त त महान्त सन्त प्रथितमहिमान मुनिवर सवीक्ष्य आरमति ।

अर्थ—जनता, पात्रो के सहित, श्वेतवस्त्र, वेत्र के साथ श्रेष्ठ ऊन के ओषे को धारण किए हुए, धीरे-धीरे चलने वाले मुखवस्त्राच्छादित पैदल जाते हुए महान् सन्त कीर्तिशाली मुनिश्रेष्ठ श्री अमरसिंहजी महाराज को निहार कर आनन्द विभोर हो गई ।

( १० )

विहारं कुर्वन्तं नगरममृतं स्पष्टुमनसम् ,  
जनाः पृच्छन्तीमं कथयतु कथङ्कारमिति यत् ।  
गृहं त्यक्त्वा गच्छेत् सुघटिततमे भोगरुचिरे ,  
शरीरे नाद्यापि श्रुतमतिकृतं नाप्यधिगतम् ॥

अन्वयः—तदा जना अमृत नगर स्पष्टुमनस विहार कुर्वन्तम् इम मुनिम् अमरसिंहं पृच्छन्ति, यत् सुघटिततमे भोगरुचिरे शरीरे सति गृह त्यक्त्वा गच्छेत् इति कथङ्कारं जात कथयतु । यतोहि अद्यापि न श्रुतम् नापि अतिकृतम् अधिगतम् ।

अर्थ—तब मनुष्य, अमृतसर नगर को स्पर्श ने की इच्छावाले विहार करते हुए इन मुनिराज श्री अमरसिंहजी से प्रश्न करते हैं कि सुघड से सुघड भोगरुचिर शरीर के रहते हुए घर को छोड़कर चल दे । —ऐसा कैसे हुआ ? आप बताइये । क्योंकि हमने न तो आज तक ऐसा सुना और नही आज तक ऐसा गजब ढाहने वाला पाया ।

( ७ )

अतस्ते साशङ्काः प्रतिमुनि पिपृच्छां विदधति ,  
 ततस्तेषां शङ्कां निरसितुमनास्तामरमुनिः ।  
 अवोचन्तां वाणी शमयति सदा या विमनसम् ,  
 गृहस्थाः सन्तुष्टा अभिदधति निश्चप्रचवचः ॥

अन्वयः—उत्तराभावात्ते साशङ्काः (अभवन्) अत प्रतिमुनि पिपृच्छा विदधति । पिपृच्छा कुर्वता तेषां ताम् पिपृच्छा निरसितु (स) अमरमुनि ताम् वाणीम् अवोचत्, या वाणी सदा विमनस (पुरुष) शमयति । तत ते गृहस्था (श्रावकाः) ता वाणी श्रुत्वा सन्तुष्टा सन्त निश्चप्रचवच अभिदधति ।

अर्थ—उत्तर के अभाव के कारण साशङ्क हो गये और इसीलिए वे मुनि-मुनि से पिपृच्छा करने लगे कि क्या बात हुई जिससे मुनियो मे से कोई कुछ नहीं कहता । पिपृच्छा करने वाले उन श्रावको को उस शङ्का को दूर करने के लिए वे अमरसिंहजी मुनि वह वाणी बोले, जो वाणी सदा असन्तुष्ट पुरुष को शान्त कर देती हैं । तदनन्तर वे श्रावक उस वाणी को सुनकर सन्तुष्ट हो, ठीक है, ऐसा होता ही है ऐसा कहने लगे ।

( ८ )

तदा ते सर्वेऽमुं मुनिजनवृतं वीक्ष्य ससुखम् ;  
 वदन्तं सत्सङ्गं सकलफलदं मोक्षसरणिम् ।  
 प्रसन्ना जायन्ते विविधविमताक्रान्तमनसः ,  
 गतास्ते तं द्रष्टुं नगरसुहृदो यान्तु वदितुम् ॥

अन्वय—तदा ते सर्वे विविधविमताक्रान्तमनसः गृहस्था सकल फलद मोक्षसरणिं सत्सङ्गं वदन्तम् मुनिजनवृतम् अमुम् अमरसिंहमुनिं ससुखं वीक्ष्य प्रसन्ना जायन्ते । (ततः च) ते नगरसुहृदः वदितुं गताः, (यतो हि तेऽपि) त मुनिम् अमरसिंहं द्रष्टुम् यान्तु ।

अर्थ—तब वे सब अनेक विमतो से आक्रान्त मन वाले गृहस्थ सब फल देने वाले मोक्ष के मार्ग सत्सङ्ग को बताते हुए, मुनिजन से घिरे हुए उन श्री अमरसिंहजी महाराज को ससुख अच्छी तरह से देखकर आनन्दित हो उठते हैं । और फिर वहाँ से नगर के मित्रो को कहने के लिए चल देते हैं कि उन अमरसिंह मुनिजी को देखने के लिए आप सब भी चलिए ।

( १३ )

विरक्तेः सौरम्यं वदनमभितो रूपमधिकम् ,  
 दधानं तं सन्तं नमति सहसा प्राकृतजनः ।  
 तथैवान्ये ते के विकृतमतयो ज्ञानिनमिमम् ,  
 नमेयुर्नैवं नो गमितमहिमानोऽमरमुनिम् ॥

अन्वयः—अयं प्रकृत्या प्रभावी वर्तते स्म—विरक्ते सौरम्यम् वदनम् अभित अधिक रूप दधान सन्त त (दृष्ट्वा) प्राकृतजन (अपि) सहसा नमति । तथैव अन्ये ते के विकृतमतय (स्यु) ये गमितमहिमान सन्त न इम ज्ञानिनम् अमरसिंह मुनिम् एव न नमेयुः ।

अर्थ—आप प्रकृति प्रभावी थे—विरक्ति के सौरम्य मुख के चारो ओर अधिक रूप को धारण किए हुए उन सन्त महाराज को देखकर अल्पज्ञ मनुष्य भी एक साथ नमन करने लगता है । फिर उसके समान दूसरे वे कौन विकृतबुद्धि के हो सकेंगे, जो अपने को झुलाकर हमारे इन ज्ञानी मुनि श्री अमरसिंहजी महाराज को ऐसा नमन न करे । अर्थात् उनको देखते ही सभी नमन करने लगते थे ।

( १४ )

बुभुक्षुन् मांसस्य प्रतिदिनमतः प्रेमवचनैः ,  
 स्वकीये व्याख्याने दिशति रसपृक्तं मुनिरयम् ।  
 यदा त्वन्नेनैवं भवति भवतां पूर्णमुदरम् ,  
 किमर्थं हन्यन्ते पुनरिह तदा मूकपशवः ॥

अन्वयः—अस्मिन् प्रान्ते मासाशन स्वभावतोऽधिक कुर्वन्तीत्यत अयं श्रीमान् अमरसिंह मुनिः स्वकीये व्याख्याने मांसस्य बुभुक्षुन् जनान् रसपृक्तं प्रेमवचनैः प्रतिदिनं दिशति, तद्यथा—यदा एवम् तु भवताम् उदरम् अन्नेन पूर्णं भवति, तदा पुन इह मूकपशवः किमर्थं हन्यन्ते । अतो मूकपशूना हिंसनं निरर्थकमित्यर्थः ।

अर्थ—इस प्रान्त में मासाशन स्वभाव से अधिक करते हैं—अतः आप श्री अमरसिंहजी मुनिराज अपने व्याख्यान में मांस के बुभुक्षुमनुष्यों को करुणाद्रं प्रेम के वचनों से प्रतिदिन उपदेश करते थे, जैसे कि जब इस प्रकार आपका पेट अन्न से भर जाता है, तब फिर यहाँ वेजुवान जानवरों को किसलिए मारा जाता है । इसलिए मूक पशुओं की हिंसा निरर्थक है । धर्म की दृष्टि से तो कितना पाप हैं, वह तो फिर कहने की बात ही क्या ? अभी तो व्यवहार में ही, यह मासाशन वेकार है ।



( ११ )

ततस्तेनागादि प्रकृतिरिति पुण्या भगवताम् ,  
 सदापुण्येनेयं प्रभवति जनं सुन्दरतमम् ।  
 महापुण्यात्मानं विदितपरमं वैभवपरम् ,  
 सुधर्माणं भव्य प्रथितयशसं तं गुणिवरम् ,

अन्वयः—तत तेन मुनिना अमरसिंहेन अगादि यत भगवता जनाना पुण्या प्रकृति इति । इय प्रकृति सदा पुण्येनत सुन्दरतमम् विदितपरमम् वैभवपरम् महापुण्यात्मान प्रथितयशस सुधर्माण गुणिवरम् च भव्य जन प्रभवति ।

अर्थ—तदनन्तर उन मुनि श्री अमरसिंहजी ने कहा कि यह भगवान् महा-पुरुषो का स्वभाव है, क्योंकि पुण्यों का यह खेल है । इसलिए यह प्रकृति, उस सुन्दर से सुन्दर, प्रख्यात, घनाढ्य, महाभाग्यवान्, यशस्वी, धर्मात्मा परमज्ञानी और भव्य पुरुष पर अपना अधिकार रखती है । यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है । अतः आप सब समझने के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा व्यंग्यार्थ है ।

( १२ )

कृतेश्चित्रं मूल्यं स्थिरमतिमतां बुद्धिविभवा ,  
 प्रसिद्धिवैदुष्यं परमविदुषां ख्यातयशसाम् ।  
 सदा सच्चारित्रं प्रथितयमिनां ज्ञानमपरम् ,  
 मुनेर्वा माहात्म्यं प्रकृतिरिति सा भगवताम् ॥

अन्वयः—यथा कृते. मूल्य चित्रम् अस्ति, स्थिरमतिमता प्रसिद्धि-बुद्धिविभवा विद्यते, ख्यातयशसा परमविदुषा वैदुष्यम् वर्तते, प्रथितयमिना सच्चारित्रम् भवति, मुनेः माहात्म्यं वा अपर ज्ञान प्रसिद्ध जायते । एवमेव भगवता महापुरुषाणा सा प्रकृति इति प्रसिद्धैवास्ते ।

अर्थ—इस विषय पर अधिक सोचने की कोई बात नहीं है । क्योंकि जैसे कृति का मूल्य आश्चर्य है, विचारकी प्रसिद्धि बुद्धि विभव है, प्रसिद्ध विद्वानो का वैदुष्य प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध सयमियो की प्रसिद्धि का हेतु सच्चारित्र माना गया है, मुनि का माहात्म्य अथवा विशिष्ट ज्ञान प्रसिद्ध होता है, उसी प्रकार भगव-पुरुषो की प्रकृति प्रसिद्ध है । अतएव यह सब प्रकृति के अनुसार है ।

( १३ )

विरक्तेः सौरम्यं वदनमभितो रूपमधिकम् ,  
 दधानं तं सन्तं नमति सहसा प्राकृतजनः ।  
 तथैवान्ये ते के विकृतमतयो ज्ञानिनमिमम् ,  
 नमेयुर्नैवं नो गमितमहिमानोऽमरमुनिम् ॥

अन्वयः—अय प्रकृत्या प्रभावी वर्त्तते स्म—विरक्ते सौरम्यम् वदनम् अभित अधिक रूप दधान सन्त त (दृष्ट्वा) प्राकृतजन (अपि) सहसा नमति । तथैव अन्ये ते के विकृतमतय (स्यु) ये गमितमहिमान सन्त न इम ज्ञानिनम् अमरसिंह मुनिम् एव न नमेयुः ।

अर्थ—आप प्रकृति प्रभावी थे—विरक्ति के सौरम्य मुख के चारो ओर अधिक रूप को धारण किए हुए उन सन्त महाराज को देखकर अल्पज्ञ मनुष्य भी एक साथ नमन करने लगता है । फिर उसके समान दूसरे वे कौन विकृतबुद्धि के हो सकेंगे, जो अपने को भुलाकर हमारे इन ज्ञानी मुनि श्री अमरसिंहजी महाराज को ऐसा नमन न करे । अर्थात् उनको देखते ही सभी नमन करने लगते थे ।

( १४ )

बुभुक्षून् मांसस्य प्रतिदिनमतः प्रेमवचनैः ,  
 स्वकीये व्याख्याने दिशति रसपृक्तैर्मुनिरयम् ।  
 यदा त्वन्नेनैवं भवति भवतां पूर्णमुदरम् ,  
 किमर्थं हन्यन्ते पुनरिह तदा मूकपशवः ॥

अन्वयः—अस्मिन् प्रान्ते मासाशन स्वभावतोऽधिक कुर्वन्तीत्यत अय श्रीमान् अमरसिंह मुनि स्वकीये व्याख्याने मांसस्य बुभुक्षून् जनान् रसपृक्तैः प्रेमवचनैः प्रतिदिन दिशति, तद्यथा—यदा एवम् तु भवताम् उदरम् अन्नेन पूर्णं भवति, तदा पुन इह मूकपशवः किमर्थं हन्यन्ते । अतो मूकपशूना हिंसन निरर्थकमित्यर्थ ।

अर्थ—इस प्रान्त मे मासाशन स्वभाव से अधिक करते है—अत आप श्री अमरसिंहजी मुनिराज अपने व्याख्यान मे मांस के बुभुक्षुमनुष्यो को करुणार्द्र प्रेम के वचनो से प्रतिदिन उपदेश करते थे, जैसे कि जब इस प्रकार आपका पेट अन्न से भर जाता है, तब फिर यहाँ वेजुवान जानवरों को किसलिए मारा जाता है । इसलिए मूक पशुओं की हिंसा निरर्थक है । धर्म की दृष्टि से तो कितना पाप हैं, वह तो फिर कहने की बात ही क्या ? अभी तो व्यवहार मे ही, यह मामाशन वेकार है ।

( १५ )

भ्रमन्तीमे सन्तः परमशुचितां वृत्तिमभितः ,  
 ग्रहीतुं कर्तुं वा प्रतिगृहमतस्ते निरलसाः ।  
 अनाच्छन्नं मासं नयति मुदितः कोऽपि सरणी ,  
 नमन्तं तं दृष्ट्वा द्रवितहृदया दुःखमनयन् ॥

अन्वय—यदा इमे सन्तः परमशुचिताम् वृत्तिम् अभितः कर्तुं वा ग्रहीत ते निरलसा अतः प्रतिगृह्णन्ति । किन्तु कोऽपि सरणी मुदितः अनाच्छन्नं मासं नयति, (मुनीश्चासौ नमति), तदा तं नमन्तं दृष्ट्वा द्रवितहृदया (मुनयः) दुःखम् अनयन् ।

अर्थ—जब ये सन्तः परम प्रासुक मिश्रावृत्ति को इधर-उधर करने अथवा ग्रहण करने के लिए इससे घर-घर घूम रहे थे । कि इतने ही में कोई रास्ते में प्रसन्न हो, विना ढके हुए मास को ले जा रहा था, (किन्तु उसने मुनियों को नमन किया), तब उस नमन करते हुए को देखकर कोमल हृदय के मुनिजन दुःखी हुए कि यह कितना अवोध है ! किन्तु विनयी है ।

( १६ )

न हेतुं हिंसायाः कमपि मनुते प्राकृतजनः ,  
 परन्त्वेतत्तथ्य प्रियतमममुं पुत्रमवितुम् ।  
 सहस्रं यत्नेभ्यो हितमुपगतो याति रचितुम् ,  
 अतो नित्यं सत्यं गणयति सुखं स्वार्थसहितम् ॥

अन्वयः—मनुष्योऽयं कियान् स्वार्थी विद्यते—प्राकृतजनः हिंसायाः कमपि हेतुं न मनुते, किन्तु अमुं प्रियतमम् पुत्रम् अवितुम् हितम् उपगतः (असौ प्राकृतजनः) सहस्रं हितं यत्नेभ्यः रचितुम् याति । अतः मनुष्यः स्वार्थसहितं सुखं गणयति—एतत् नित्यम् सत्यं निश्चीयते ।

अर्थ—मनुष्य कितना स्वार्थी है—अवोध मनुष्य हिंसा का कोई कारण नहीं मानता, किन्तु अपने इस परमप्रिय पुत्र की रक्षा के लिए हितैषी बनकर वही अल्पज्ञ, हजारों हित यत्नों को कर-करके प्रस्तुत होता है, जैसे कि कोई हानि न पहुँचे । किन्तु दूसरों की जान लेता है । यह कितना बड़ा अनर्थ है । आखिर वह भी तो किसी का पुत्र है । इससे यह नित्य सत्य निश्चित होता है कि मनुष्य स्वार्थ के साथ सुख मानता है, पर हित अथवा हिंसा को वह कुछ नहीं समझता ।

( १७ )

ततोऽनुग्रामं ते प्रतिपदमतिक्रम्य सहसा ,  
समागच्छन्नेतेऽमृतसरमिति ख्यातनगरम् ।  
मुनीनामायानं श्रवणमधिगच्छन्ति शुभगम् ,  
तदा ये भद्रास्ते सुलभसमया यान्त्युपमुनि ॥

अन्वयः—तत. ते मुनयो गुरुदेवं पुरस्कृत्य अनुग्राम सहसा प्रतिपदम् अतिक्रम्य एते अमृतसरम् इति ख्यातनगर समागच्छन् । तदा ये भद्रा मुनीना शुभगम् आयानम् श्रवणम् अधिगच्छन्ति, ते सुलभसमया. उपमुनि यान्ति ।

अर्थ—तदनन्तर वे मुनिजन गुरुदेव को पुरस्कृत कर ग्राम के बाद ग्राम, स्थान-स्थान पर पारकर एकसाथ प्रसिद्ध अमरसर पहुँचे । मुनियों के शुभ आगमन को जो श्रावक सुनते हैं, वे समय प्राप्त कर मुनियों की सेवा में उपस्थित होते हैं ।

( १८ )

त्रिकृत्वस्ते नन्तुं प्रतिमुनि विभक्ताः प्रतिपदम् ,  
समायाता भक्ताश्चिरपरिचितं त मुनिगणम् ।  
सुख शान्तिं पृष्ट्वाऽभिदधति पुनश्चातिविनयम् ,  
महान्तः पद्यन्ते विनयरसिका लोकसरणिम् ॥

अन्वय —सम्प्रति भक्ता विभक्ता सन्त प्रतिमुनि प्रतिपद त्रिकृत्व. नन्तु समायाता, (ततश्च. ते त चिरपरिचित मुनिगण सुख च शान्तिं पृष्ट्वा पुन अतिविनयम् अभिदधति । (यतो हि) महान्त विनयरसिका सन्त लोकसरणिं पद्यन्ते ।

अर्थ— अब भक्त विभक्त होकर मुनि-मुनि की ओर स्थान-स्थान पर वारत्रय अभिवादन करने के लिए उपस्थित हुए । और फिर सुख-शान्ति की विपृच्छा कर फिर अतिविनय के साथ वातचीत करने लगे । क्योंकि वड़े मनुष्य विनय के प्रेमी बनकर ससार की रीति को निभाते हैं ।

( १६ )

समागत्य स्थानं कृतवसतयो ज्ञानिमुनयः ,  
 भवन्ति प्रष्टव्या प्रतिपुरजनं ते रमयितुम् ।  
 समूलं निर्मिथ्यं स्वमति परिणामावधि ततम् ,  
 समीक्ष्यान्तस्तत्त्वं विनिदधति सत्यं हृदि हृदि ॥

अन्वयः—विहारिणो मुनय —स्थान समागत्य कृतवसतय ज्ञानि-  
 मुनय (विराजन्ते) तदा ते प्रष्टव्या भवन्ति । ते ज्ञानिनः (प्रश्ने सति)  
 स्वमतिपरिणामावधि समूल निर्मिथ्य ततम् अन्तस्तत्त्व समीक्ष्य प्रतिपुरजन  
 रमयितु सत्य हृदि हृदि विनिदधति ।

अर्थ—विहरणशील सभी मुनि—स्थानक पहुँचकर जब विश्राम करने वाले  
 ज्ञानी मुनिराज विराजते हैं, तब वे जिज्ञासुओं के द्वारा प्रष्टव्य होते हैं । वे ज्ञानिजन  
 प्रश्न होने पर अपनी बुद्धि के निचोड़ तक सिद्धान्त के अनुसार मिथ्यारहित विस्तृत  
 रहस्य की समीक्षा कर प्रत्येक नागरिक को आनन्दित करने के लिए सत्य को सभी  
 के हृदय में पूरी तरह जमा देते हैं ।

( २० )

यदा चेहायातान् समधिगतसद्धर्मविषयान् ;  
 जनानुद्बोद्धुं ते मतविमतयुक्तया प्रभवितुम् ।  
 समर्था एतेभ्योऽपि च तु परितोषं न ददति ,  
 तदा तान् सन्तोष्टुं मुनिरमरसिंहः प्रभवति ॥

अन्वयः—यदा च ते मुनय इह आयातान् समधिगतसद्धर्मविषयान्  
 जनान् मतविमतयुक्तया प्रभवितु समर्था अपि, (तान् च प्रभवितु) तु एतेभ्य  
 परितोषं न ददति, तदा (स्वयम्) अमरसिंहः मुनि तान् जनान् सन्तोष्टु  
 प्रभवति ।

अर्थ—और जब वे मुनिजन यहाँ आये हुए धर्म के जानकार मनुष्यों को मत  
 और विमत की युक्ति से प्रभावित करने के लिए समर्थ होते हुए भी उनको प्रभावित  
 करने के लिए उनको परितोष न दे सके, तब स्वयं श्रीअमरसिंह जी मुनिराज उन  
 प्रश्नकर्ता अथवा जिज्ञासु मनुष्यों को मन्तोष्ट करने के लिए प्रभाव डालते हैं ।  
 परिणामतः वे मनुष्य सन्तोष्ट होकर मुनिश्रीजी की वाह-वाह करते हैं ।

( २१ )

निरस्तास्ते सर्वे सकलविकलोक्तेर्विचलिताः ,  
 समागत्य ज्ञातुं नियमसहितं पद्धतियुतम् ।  
 विधिं सप्रेहन्ते प्रथितनियमातर्कितविधेः ,  
 मुनेर्विद्यासिद्धेरमरसिंहादविरतम् ॥

अन्वय — यदा सकलविकलोक्ते विचलिता ते सर्वे निरस्ताः, (तदा ते) स्थानक समागत्य प्रथितनियमातर्कितविधे विद्यासिद्धे मुनेः अमरसिंहात् नियमसहितं पद्धतियुतं विधिम्-अरम् ज्ञातुम् सप्रेहन्ते ।

अर्थ—जब सभी विकलोक्ति से विचलित वे उत्तरो से निरस्त हो गए तब स्थानक आकर प्रख्यात नियमों से अच्छी तरह जानली गई है विधि जिसकी ऐसे विद्यासिद्ध मुनि श्रीअमरसिंहजी महाराज से नियम सहित पद्धति के साथ विधि को शीघ्र जानने के लिए बराबर चेष्टा करते हैं ।

( २२ )

स्वदोष सस्मृत्य प्रथितमहिमान् मुनिममुम् ,  
 नमन्ति स्पन्दन्ते विनयजयिनंसस्मितमुखम् ।  
 कराभ्यां प्रत्येकं चरणकमलेतस्य च मुनेः ,  
 स्वतः सस्पृश्येमे विनतवदनास्ते पदमितः ॥

अन्वयः—ततस्ते जिज्ञासवः—विनतवदना सन्त स्वदोष सस्मृत्य अमुम् प्रथितमहिमानम् विनयजयिनः स्मितमुख मुनिम् प्रत्येक कराभ्याम् तस्य मुने चरणकमले सस्पृश्य नमन्ति, इमे च (पुनः) ते स्वतः इत पदम् स्पन्दन्ते ।

अर्थ—तदनन्तर वे जिज्ञासु लज्जित होकर अपनी भूल को स्मरण कर उन परम प्रसिद्ध महाविनयी मुस्कराते हुए मुनि को, और प्रत्येक ने हाथों से इन मुनिजी के चरणकमलों को छू कर नमन किया, और फिर ये अपने आप यहाँ से चल दिए ।

( २३ )

पुनस्ते तर्कन्ते मुनिरयमतो भाविनि युगे ,  
 महानाचार्यः स्यात् परमयशसा दिव्यवदनः ।  
 अवश्यं स्यादेतद् भवति मनसश्शङ्कितमिदम् ,  
 यतो भावी वृक्षो जगति परमश्चिक्कणदलः ॥

अन्वयः—गच्छन्तस्ते पुन. तर्कन्ते यद् भाविनी युगे परमयशसा दिव्यवदन. अय मुनि महान् आचार्य. स्यात् । इदम् मनस. शङ्कितम् अवश्यम् भवति, अत एतत् स्यात् यत जगति भावी वृक्ष. परम. चिक्कण-दल (भवति) ।

अर्थ—जाते हुए वे फिर तर्क करने लगे कि आने वाले युग में अनेक कीर्तियों से उपलक्षित दिव्य वदन महान् आचार्य आप ही होंगे । क्योंकि यह मनका सोचा हुआ अवश्य होता है, अतः ऐसा अवश्य होगा । क्योंकि ससार में होनहार वृक्ष के बड़े चीकने पत्ते होते हैं ।

( २४ )

स्वकीयैः सिद्धान्तैर्विविधविषयभ्रान्तिरहितान् ,  
 अनुष्ठातुं सिंहः कृतपरिचयान् प्रायतत सः ।  
 तदोद्बुद्धा जैना अतिशयितवृत्ति मुनिमिमम् ,  
 विवृद्ध्यै संयोक्तुं समुचितमुपाय विदधति ॥

अन्वयः—स (असरसिंहः) सिंहः स्वकीयैः सिद्धान्तैः कृतपरिचयान् विविधविषय-भ्रान्तिरहितान् अनुष्ठातुं प्रायतत । तदा उद्बुद्धा. जैना इमम् अतिशयितवृत्ति मुनिं विवृद्ध्यै संयोक्तुं समुचितम् उपाय विदधति ।

अर्थ—वे सिंहसदृश श्री अमरसिंह जी महाराज, अपने सिद्धान्तों से जाने-पहिचाने भाइयों को अनेक विषयों की भ्रान्ति रहित बनाने के लिये प्रयत्न करते थे । तब जगें हुए जैन बन्धु इन विशिष्टवृत्ति के मुनिजी की अमिवृद्धि के लिए संयोग की उचित तरकीब सोचने लगे ।

( २५ )

समुद्भूता भावा प्रकटमुदयं लब्धुमधिकम् ,  
 अतोऽहं मे मन्ये मनसि नियतं ते कमपि तम् ।  
 यदाधारं मत्वा मुनिममरसिंहं व्युपगताः ,  
 मुनिं ते शोभन्ते पुनरिममहो शोभयितु मे ॥

अन्वयः—साम्प्रत कवि मुनिमुत्प्रेक्षते सर्वगुणाधारमत —अहम् मे मनसि नियत मन्ये यत् भावा अधिक प्रकटम् उदयम् लब्धुम् समुद्भूताः, तदा ते तम् कमपि आधार मत्वा, (तदा) अमरसिंह मुनिं व्युपगता । (तस्य मुनेराश्रयात् ते तु शोभन्ते, किन्तु अहो ए, एते ते भावा (गुणा) पुन. इम मुनिम् (अपि) शोभयितु (सन्ति) ।

अर्थ—अब कवि मुनिजी को सर्वगुणसम्पन्न हो ऐसी उत्प्रेक्षा करता है— इसलिए वह कहता कि मैं अपने मन में पक्की तरह से मानता हूँ कि भाव अर्थात् गुण जब अधिक प्रकट उदय प्राप्त करने के लिए उठ खड़े हुए, तब उन्होंने किसी को आधार मानने के लिए मुनि श्री अमरसिंह जी को आधार बना लिया । क्योंकि बिना आधार के गुण शोभा नहीं पाते । अतः मुनिजी के आश्रय से वे गुण तो स्वयं शोभा पा रहे हैं, किन्तु कृतज्ञ गुण, मुनिजी को अहो ए शोभित कर रहे हैं ।

( २६ )

अहो सम्प्रत्येव प्रकृतिविषमो रोग उदित. ,  
 गुरुं तं क्लिश्नाति प्रकृतविदितैः कर्मभिरिमम् ।  
 तदा ते सेवन्ते विपदमधिगम्यापि मुनय. ,  
 विहाय स्वालस्य सततनियतं दुःखितममुम् ॥

अन्वयः—विहारसमय एव सम्प्रति, अहो प्रकृतिविषम रोग प्रकृत-विदितै कर्मभि उदित तम् इमम् श्री लालचन्द्र मुनिम् गुरु क्लिश्नाति । तदा ते मुनय (ये शिष्या आसन्) स्वालस्य विहाय विपदम् अधिगम्य अपि अमुम् दुःखित गुरु सततनियत सेवन्ते ।

अर्थ—विहार के समय में ही अब अहो प्रकृति से भयङ्कर रोग, प्रकरणों से जाने गए कर्मों के द्वारा उदित होकर, उन गुरु श्री लालचन्द्र जी महाराजश्री को क्लेश पहुँचाता है । तब आपके वे शिष्य मुनिजन कष्ट सहन करके भी अपने आलस्य को छोड़कर इन दुःखित गुरुदेव की निरन्तर निश्चय के साथ सेवा करते हैं ।



( २७ )

यदा रोगोत्पत्तिर्भवति समये केऽपि च तदा ,  
 भवेयुस्ते नित्यं स्थितिर्विचलिता. सन्ति पुरुषाः ।  
 स्थिरास्तिष्ठन्त्येमे नियतमतयो नश्च मुनयः ,  
 परन्त्वेते सन्तोऽभिदधति सदा मङ्गलपदम् ॥

अन्वय — सेवानिमग्ना सन्त कीदृशा दृढा सन्ति—इति वर्णयन्नाह-  
 समये यदा रोगोत्पत्ति भवति, तदा ते केऽपि भवेयु, नित्य पुरुषा स्थिति-  
 विचलिता सन्ति । (किन्तु) इमे न. नियतमतय मुनयः स्थिरा तिष्ठन्ति  
 न केवल ते स्थिरा एव) परन्तु (आगच्छतो जनान्) सदा एते सन्त मङ्गल-  
 पदम् अभिदधति ।

अर्थ—सेवा निमग्न सन्त कितने दृढ हैं—यह बताते हुए—कवि कहता है  
 कि—कभी जब रोग की उत्पत्ति होती है, तब ये कोई भी क्यों न हो, नित्य ही  
 पुरुष स्थिति में विचलित हो जाते हैं । किन्तु ये हमारे मुनिजन पक्के इरादे के साथ  
 निश्चल खड़े रहते हैं । न केवल वे निश्चल खड़े ही रहते हैं, परन्तु आगत मनुष्यों  
 को निरन्तर ये मुनिजन मांगलिक भी सुनाते रहते हैं ।

( २८ )

पुनर्ज्ञात्वा रोगं परमविकटं वैद्यमुखतः ,  
 तत. कष्टं वोढुं श्रयति सततं कर्मफलकम् ।  
 मुनिष्वेकः प्रष्टो दिशति मरणान्तं व्रतमिदम् ,  
 अतो यावज्जीवं त्यजति गरणञ्चाशनमयम् ॥

अन्वय—पुन वैद्यमुखत परमविकट रोग ज्ञात्वा कर्मफलक कष्ट  
 वोढु सतत श्रयति । तत मुनिषु एक प्रष्ट इदम् व्रतम् मरणान्त सथारेति  
 ख्यात दिशति । अत. (अधुना) अय मुनि श्रीलालचन्द्र गरणम् अशनञ्च  
 यावत् जीव त्यजति ।

अर्थ—फिर वैद्य के मुख से परम विकट रोग को जानकर कर्मफलवाले कष्ट  
 को मंहने के लिये सदा के हेतु सहारा लिया । तदनन्तर सथारा पचखने के लिये  
 मुनिओ में से किसी वरिष्ठ मुनि को बुलाया और यह मरणान्त व्रत मुनिश्री लालचन्द्र  
 जी महाराज ने स्वच्छा में धारण किया । व्रत का स्वरूप यह है कि व्रती पुरुष खाना  
 पीना यावत् जीवन के लिये छोड़ देता है । अतः उन्होंने निगरण (पान) और अशन  
 का यावज्जीवन के लिये प्रत्याख्यान कर दिया ।

( २६ )

ततश्चैते शिष्या गुरुवरमिम सम्प्रति परम् ,  
 स्वत सेवन्ते तं परमपदलब्धारमनिशम् ।  
 तदेतन्माहात्म्यं सकलभुवने केवलमत ,  
 मुनीनां जैनानां स्वयमतिशयं साधयति यत् ॥

अन्वयः—तत एते मुने शिष्या मुनय सम्प्रति इमम् तम् परम-  
 पदलब्धारम् गुरुवरम् स्वत अनिश पर सेवन्ते । अतश्चजैनानाम् मुनीना  
 केवलम् एतत् तत् सस्तारग्रहणात्मक माहात्म्यम् यत् स्वयम् अतिशय साध-  
 यति । स्वभावतस्त जैनमुनयो मूर्धन्या सन्त्येवेत्यर्थ ।

अर्थ—सथारा पचखने के बाद मुनि महाराज के शिष्य मुनिजन इन परमपद  
 को प्राप्त करने वाले गुरुदेवश्री की अपने आप निरन्तर खूब सेवा करते हैं । क्योंकि  
 जैन मुनियो का केवल यही माहात्म्य सर्वमहान् सिद्ध कर देता है । वैसे तो जैन  
 मुनियो के कार्य इस प्रकार के हैं कि जो उनको मूर्धन्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त  
 है—यह व्यङ्ग्यार्थ है ।

( ३० )

अतस्तत्सस्तारात् प्रथममभित. स्वामिनममुम् ,  
 समाहूयाष्टाङ्ग प्रथितमहिमानं समरसम् ।  
 प्रभान्त त्वाचार्य्यं शुभममरसिह गुरुरयम् ,  
 व्यधादाधारादि मरुधरधरोद्धारकमिमम् ॥

अन्वय.—अत सस्तारात् अभित प्रथमम् अमुम् समरसम् अष्टाङ्ग-  
 प्रथितमहिमान प्रभान्त स्वामिनम् शुभम् अमरसिहम् समाहूय गुरु अयम्  
 इमम् (अमरसिहम्) आधारादि मरुधरधरोद्धारकम् आचार्य्यम् व्यधात् ।

अर्थ—अत सस्तारग्रहण से पहले ही इन समरस अष्टाङ्गप्रथित महिमावाले  
 प्रभावी मुनि श्री अमरसिहजी को बुलाकर इन गुरुदेव श्री लालचन्द्रजी महाराज ने  
 इनको मूलरूप मारवाड भूमि के उद्धारक आचार्यपद से अलकृत कर दिया था ।

( ३१ )

समे श्रीसंघास्तं समयमधिकृत्यातिशयितम् ,  
 मुनीनामाचार्यं शुभममरसिंहं गुरुवरम् ।  
 महाज्योतिष्मन्तं परमगरिमाणं प्रतिपदम् ,  
 वहन्त श्रीमन्त विदधति सपर्यां सुनुतिभिः ॥

अन्वय — तदनन्तर समे श्रीसंघा समयम् अधिकृत्य अतिशयितम् महाज्योतिष्मन्तम् गुरुवरम् मुनीनाम् आचार्यम् शुभम् परमगरिमाणं प्रतिपदं वहन्त श्रीमन्तम् अमरसिंहम् सुनुतिभिः सपर्याम् विदधति ।

अर्थ— तदनन्तर सब श्रीसंघो ने समयानुसार अतिशयी महाज्योतिष्मान् गुरुदेव मुनियो के आचार्यं शुभ परमगौरवशाली श्रीमान् अमरसिंहजी महाराज का वास्तविक स्तुतियो से सत्कार किया गया ।

( ३२ )

ततोऽसावाचार्यः परमविनयी संघसदृशम् ,  
 क्रियाचारोत्पन्नं व्यवहृतिसमं सव्यवहरन् ।  
 अवादीत्प्रत्यग्र श्रवणरसपीयूषवचनम् ,  
 प्रकीर्णं व्याख्यानं हृदयकमलं द्योतितुमलम् ॥

अन्वयः— तत परमविनयी असौ श्रीमान् अमरसिंह आचार्यं व्यवहृतिसमम् क्रियाचारात्पन्नं संघसदृशं सव्यवहरन् हृदयकमलम् अल द्योतितुम् प्रत्यग्र श्रवणरसपीयूषवचनम् प्रकीर्णं व्याख्यानम् अवादीत् ।

अर्थ— श्रीसंघो के द्वारा आदर किए जाने पर परमविनयी उन श्रीमान् अमरसिंहजी आचार्यं ने व्यवहार के समान क्रियाचार से उत्पन्न संघ के अनुकूल व्यवहार करते हुए, जनता के हृदय-कमल को पूर्ण विद्योतित करने के लिए नया कानो के लिए रसामृत वचन वाला विखरा हुआ व्याख्यान, जिसमें थोड़ा-थोड़ा समीचा वातो पर प्रकाश डाला गया था, दिया ।

( ३३ )

सहैवैतत्प्रोक्तं यदि परिणमेन्मङ्गलमयम् ,  
शुभाचार्यत्वं मे फलति शुभगं श्रावकजनम् ।  
तदामन्वीयाह यदिह घटित गौरवपदम् ,  
अहिंसा मातेय विलसति यदा मङ्गलमयी ॥

अन्वयः—व्याख्यानेन सह एव एतत् अपि प्रोक्तम् यदि मे शुभा-  
चार्यत्व फलति, तदा श्रावकजनम् मङ्गलमयम् शुभगम् परिणमेत् । यदिह  
गौरवपद घटित विद्यते, अहं तदा गौरवपद घटित मन्वीय, यदा मङ्गलमयी  
इयम् अहिंसा माता विलसति ।

अर्थ—व्याख्यान के साथ ही यह भी बताया कि मैं मेरे इस आचार्यत्व को  
सफल तब समझूंगा, जबकि मेरा श्रावकसमुदाय आनन्दित और सब के लिए भला  
साबित हो । और गौरव पद जो घटित है, उसको गौरवपूर्ण तभी मानूंगा, जब कि  
सब जगह मङ्गलमयी यह अहिंसा माता विद्यमान रहे ।

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
उपाध्याय पदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
श्रीमदाचार्यामिरसिंह महाकाव्ये  
पञ्चम सर्गः



## षष्ठः सर्गः

( १ )

सदैवैतद् दृष्टं जगति परम चित्रजनकम् ,  
यदा किञ्चिद् भिन्नं भवति जगत कृत्यसरणेः ।  
तदा युक्तं कर्तुं परमपुरुष कोऽपि यतते ,  
विधत्ते पन्थानं विषमपि सुग प्राक्तनमसौ ॥

अन्वयः—जगति सदा एव अस्माभिः एतत् परम चित्रजनकं दृष्टं विद्यते, यत् यदा जगत कृत्यसरणेः भिन्नं (कार्यं) भवति । तदा कोऽपि परमपुरुष युक्तं (कार्यं) कर्तुं यतते । असौ (एव) प्राक्तन विषमम् अपि पन्थानं सुगं विधत्ते ।

अर्थ—ससार में सदा ही हमने ऐसा परम आश्चर्यजनक देखा है कि जब ससार की कृत्य-सरणि से पृथक कार्य होता है, तब कोई न कोई महापुरुष (आता है) और उचित कार्य करने के लिए काम करता है और वही सदातन के विषम मार्ग को भी सुगम कर देता है ।

( २ )

अतोऽयं दिव्यात्मा मुनिषु विरलो लोकमहितम् ,  
सदालोकं ज्ञानं वितरति विहातु जगदिदम् ।  
स्वतश्च ज्ञप्तोक्तं व्युपदिशति धर्मं समुचितम् ,  
महान्तं सन्तस्ते परहितरताः केवलमलम् ॥

अन्वयः—अत एव मुनिषु विरल दिव्यात्मा (अमरसिंह आचार्य) इदं जगत् विहातुं सदालोकं लोकमहितं ज्ञानं वितरति, स्वतश्च समुचितं ज्ञप्तोक्तं धर्मं व्युपदिशति । यतो हि केवलं महान्तं सन्तं ते परहितरताः अलम् (भवन्ति) ।

अर्थ—इसलिए ही ये मुनिविशिष्ट दिव्यात्मा आचार्य श्री अमरसिंहजी महाराज इस ससार को छोड़ने के लिए सत्प्रकाश लोकपूज्य ज्ञान का वितरण करते थे । और अपने आप समुचित ज्ञप्तोक्त धर्म का उपदेश करते थे । क्योंकि केवल महान् सन्त ही वे हैं जो सदा परोपकार में ही लगे रहते हैं ।

सर्गोऽस्मिन्नपि 'शिखरिणी' छन्द एवास्ति । लक्षणतु पूर्वमुक्तमेव ।

( ३ )

सुपुत्रा जायन्ते जगति सततं मङ्गलभुवः ,  
 दधत्येते चान्यत् विहितसदृशं कर्म लपितुम् ।  
 परन्त्वेतेभ्योऽन्य सुगुणगरिमाण प्रभवितुम् ,  
 महापुण्यात्मानं सृजति जननी सूनुमपरम् ॥

**अन्वयः**—एवन्तु-जगति मङ्गलभुव सुपुत्रा सतत जायन्ते, एते च विहितसदृश लपितु अन्यत् कर्म दधति, परन्तु एतेभ्य अन्यम् सुगुणगरिमाण प्रभवितु (काऽपि विरला) जननी एव अपर महापुण्यात्मान सूनु सृजति ।

**अर्थ**—ऐसे तो जगत् मे श्रेष्ठ सुपुत्र निरन्तर उत्पन्न होते हैं, और वे धार्मिक कर्म जैसा कहने भर के लिए दूसरा कार्य भी करते हैं, किन्तु इन सब से पृथक् सुगुणो के गौरव को बढ़ाने के लिए कोई विरल माता ही अद्वितीय महापुण्यात्मा पुत्र को जन्म देती है ।

( ४ )

ततश्चाचार्योऽयं विहरति सदा संघमहितः ,  
 प्रतिग्रामं चैवं सकलमुनिभिः साकमपरान् ।  
 जनानायातान् य प्रतिदिशमसौ सोमसदृशः ,  
 सदुद्देश्यं वाक्यं निगदति मुदा स्नेहसरसम् ॥

**अन्वयः**—ततश्च सदा संघमहित अयम् आचार्य अमरसिंह सकल-मुनिभि साक प्रतिग्राम विहरति । एवञ्च य सोमसदृश असौ प्रतिदिशम् अपरान् आयातान् जनान् मुदा स्नेहसरसम्-सदुद्देश्यं वाक्य निगदति ।

**अर्थ**—और फिर सदा सङ्घपूज्य ये आचार्य श्री अमरसिंहजी महाराज अपने सभी मुनियो के साथ ग्राम-ग्राम मे विहार करते थे । इसी प्रकार जो चन्द्र जैसे वे आचार्य महाराज भिन्न-भिन्न दिशाओ से आए हुए दूसरे मनुष्यो से हर्ष के साथ प्रेम-स्निग्ध अच्छे उद्देश्य के साथ बात-चीत करते थे ।

( ५ )

नितान्तं सौभाग्य मनसि मनुजा भक्ति विभवाः ,  
 मुनीनां मन्यन्ते निलयवसिता दर्शनमपि ।  
 वयं कुर्म. श्रुत्वा जगति कृतपुण्या अत इति ,  
 ततश्चान्ये द्रष्टु जहति शरण तान् मुनिवरान् ।

अन्वय.—भक्तिविभवा मनुजा. मनसि नितान्त सौभाग्य मन्यन्ते, यद् निलयवसिता अपि मुनीना दर्शन कुर्म, अत वय कृतपुण्या. स्म इति श्रुत्वा ततश्च अन्येऽपि मनुजा तान् मुनिवरान् द्रष्टु शरण जहति ।

अर्थ—भक्ति है विभव जिनकी अर्थात् भक्त मनुष्य मन मे परम सौभाग्य मानते है कि घर बैठे ही आए हुए मुनियो के दर्शन कर रहे हैं, अत हम भाग्यशाली हैं—यह सुनकर तब और दूसरे भी मनुष्य उन मुनियो को देखने के लिए घर छोड़ रहे है ।

( ६ )

दिदृक्षून् दृष्ट्वा तानथ परिचितांश्चापरिचितान् ,  
 स्वतः शिक्षां दातुं परममरसिंहः करुणया ।  
 अहिंसायाः सारं सरसवचनैः संगदितवान् ,  
 विहातुं ते हिंसामभिदधति शब्दैरनुमतिम् ॥

अन्वयः—परिचितान् अपरिचितान् तान् दिदृक्षून् दृष्ट्वा अथ अमरेषुसिंह स अमरसिंह आचार्य स्वत शिक्षा दातु करुणया अहिंसाया पर सार संगदितवान् । (तत सार श्रुत्वा) ते दिदृक्षव. हिंसां विहातु शब्दै अनुमतिम् अभिदधति । यथा अत. पर वय हिंसा नाचरिष्याम इति ।

अर्थ—परिचित और अपरिचित उन दर्शनार्थियो को देवताओ मे सिंह के ममान वे अमरसिंहजी आचार्य अपनी ओर से शिक्षा देने के लिये करुणा के कारण अहिंसा के वास्तविक रहस्य को सम्यक् रूप मे बताने लगे । तदनन्तर रहस्य सुनकर वे सभी दर्शनार्थी मनुष्य शब्दो के द्वारा अनुमति प्रकट करने लगे, जैसे इसके बाद हम कभी हिंसा का आचरण नही करेंगे ।

( ७ )

विभिन्नग्रामेषु प्ररचितपथेषूपवसतौ ,  
 यथास्थान स्थित्वा मुनिजनसमेतः स्वयमयम् ।  
 प्रदीप्तश्चाचार्यं प्रचरति शुभ शासनमिदम् ,  
 महावीरोपज्ञं परमपदमेतुं निरुपमम् ॥

अन्वय.—विभिन्नग्रामेषु प्ररचितपथेषु सत्सु विहरन् उपवसतौ यथा-  
 स्थान स्थित्वा अय मुनिजनसमेत प्रदीप्त आचार्य स्वयम् अमरसिंह इद  
 शुभ महावीरोपज्ञ शासनम्, निरुपमम् परमपदम् एतु प्रचरति ।

अर्थ—सुगम मार्ग वाले ऐसे अनेक ग्रामो के होते हुए विहार करनेवाले,  
 उपाश्रय मे यथास्थान ठहर कर ये मुनिजन समेत तेजस्वी आचार्य स्वय श्री  
 अमरसिंहजी महाराज इस पवित्र, महावीर स्वामी के द्वारा बताए हुए शासन को  
 निरुपम परमपद मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रचार करते थे ।

( ८ )

तदस्य प्रान्तस्य प्रथितनगरेषु प्रतिगृहम् ,  
 पदैः स्पृष्ट्वाचार्यो रचयति जनान् स्वाशयरतान् ।  
 प्रसन्नानाचार्यं प्रतिपदमतो नन्तुमधिकम् ,  
 समागच्छन्ती मे विनयविनताः श्रावकगणाः ॥

अन्वय —तत् आचार्य श्रीमान् अमरसिंह अस्य प्रान्तस्य पञ्चापस्य  
 प्रथितनगरेषु प्रतिगृह पदै स्पृष्ट्वा प्रसन्नान् जनान् स्वाशयरतान् रचयति ।  
 अतः इमे विनयविनता श्रावकगणा आचार्यं प्रतिपदम् अधिक नन्तु समा-  
 गच्छन्ति ।

अर्थ—तत् पश्चात् आचार्य श्री अमरसिंहजी महाराज इस पजाब प्रान्त के  
 प्रसिद्ध नगरो मे घर-घर चरणो से स्पर्श कर प्रसन्न हुए मनुष्यो को अपने सिद्धान्त  
 के प्रेमी बना लेते थे । इस कारण से ये परम विनीत श्रावकगण आचार्य महाराज  
 को स्थान-स्थान पर अनेक बार प्रणाम करने के लिए उपस्थित हो उठते थे ।



( ६ )

प्रतिस्थानं दृष्ट्वा नगरनगरं शोभिततरम् ,  
 विशालं शैलाभं गगनतलमालम्बिशिखरम् ।  
 यद्दृच्छासंकाशं गतचिचलिषोऽसौ मुनिगणः ,  
 विहायेच्छा सम्यक् विरमति सुखं शाखिनिलये ।

अन्वय — सम्प्रति प्रतिस्थान विशाल शैलाभ गगनतलम् आलम्बि-  
 शिखर शोभिततर नगर नगर दृष्ट्वा गतचिचलिप मुनिगण इच्छा सम्यक्  
 विहाय शाखिनिलये यद्दृच्छासंकाश सुख विरमति ।

अर्थ—सम्प्रति विहार करते हुए स्थान-स्थान पर विशाल पहाड जैसे आकाश  
 को छूने वाली चोटियाँ हैं, जिनकी ऐसे बढ़िया से बढ़िया नगर के बाद नगर को  
 देखकर थकने के कारण चलने की इच्छा समाप्त हो गई है, जिसकी ऐसा मुनिमण्डल  
 इच्छा को एक तरफ कर पेड़ों के वने हुए घर पर मर्जी मुतादिक आराम के साथ  
 विराम करने लगे ।

( १० )

प्रसङ्गादाचार्यः सहजिगमिषून् भक्तिविभवान् ,  
 जनानन्यान्वासा उपदिशति यत् कर्म किमपि ।  
 असद्वा सच्चादो विदधतु कदा नापि सहसा ,  
 विमृश्यैवं कर्त्तृन् वरयति पुन श्रीः स्वयमहो ॥

अन्वयः—प्रसगात् असौ आचार्यः अमरसिंहः सहजिगमिषून् भक्ति-  
 विभवान् जनान् अन्यान् वा उपदिशति यत् किमपि सत् असत् वा अद् कर्म  
 कदापि सहसा न विदधतु । यतो हि विमृश्य कर्त्तृन् पुन अहो श्रीः स्वय  
 वरयति ।

अर्थ—प्रसङ्ग के अनुसार वे आचार्य श्री अमरसिंहजी महाराज साथ चलने  
 वाले भक्त पुरुषों को अथवा दूसरे उपस्थितों को उपदेश करते थे कि कोई भी कर्म  
 फिर चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो कभी सहसा (विना सोचे-विचारे) न करो ।  
 क्योंकि सोच-विचार कर कर्म-कर्त्ताओं को लक्ष्मी स्वय अपना लेती है ।

( ११ )

अनादृत्य ज्ञानं विदधति जनाः कार्यमपि किम् ,  
 विवेकाभावस्तान् नटयति जनान् कष्टनिकरैः ।  
 विमर्शान्निश्चेतुं प्रथममभितो ये सुनियतम् ,  
 यतन्ते जायन्ते फलमुपगतास्ते सुकृतिनः ॥

अन्वयः—पुनरपि स्वयमाचार्यस्तमेवार्थं विशदयति—ये जना ज्ञानम् अनादृत्य किमपि कार्यं विदधति, तान् जनान् विवेकाभाव कष्टनिकरै नटयति । अत अभितः प्रथम ये जना. विमर्शात् सुनियत निश्चेतु यतन्ते, ते सुकृतिन फलम् उपगता जायन्ते ।

अर्थ—फिर उसी को प्रकारान्तर कहते हैं—जो पुरुष ज्ञान की उपेक्षा कर कोई कार्य करते हैं, उन पुरुषो को विवेकाभाव कष्टो से नचाता है । इसलिये जो सबसे पहले विमर्श को लेकर ठीक प्रकार से निश्चय करने के लिए काम करते हैं वे सुकृती पुरुष फल प्राप्त करते हैं । अर्थात् वे सफल होते हैं ।

( १२ )

विहारं कृत्वैवं नियत समये सर्वमुनयः ,  
 समागच्छन्त्येते गुरुवरममुं स्थानकमिमे ।  
 पुरस्कृत्यातस्ते नियमसहित नित्यनियमम् ,  
 विधातुं चेष्टन्ते प्रतिदिनमथ ज्ञानमभित ॥

अन्वयः—वर्षावासार्यम्—एते एव विहार कृत्वा सर्वमुनय इमे अमुम् गुरुवर पुरस्कृत्य स्थानक समागच्छन्ति । अथ अभितः ज्ञानम् ते नियम-सहित नित्यनियमम् विधातु प्रतिदिन चेष्टन्ते ।

अर्थ—वर्षावासार्य—ये इस प्रकार विहार कर सभी मुनि अपने गुरुदेवश्री को आगे रखकर स्थानक पहुँचे । तदनन्तर ज्ञानपूर्वक वे मुनिजन नियम सहित नित्य नियम को करने में प्रतिदिन लगे रहते थे ।

( १३ )

चतुर्णां मासानां समयमधिगम्यैव मुनयः ,  
 व्यवस्थां कुर्वन्ति प्रतिदिनमिदं यातु नियतम् ।  
 जपस्तोत्रञ्चैतद् भवतु च गुरो. सत्प्रवचनम् ,  
 व्यवस्थातारोऽतो विदधति यथा बोधितमदः ॥

अन्वय.—मुनय एव समयम् अधिगम्य चतुर्णां मासाना व्यवस्थां कुर्वन्ति, तद्यथा—प्रतिदिनम् नियतम् इदं जपस्तोत्रं यातु, गुरोश्च एतत् सत्प्रवचनं भवतु—अतः व्यवस्थातारं यथा बोधितम् अदः विदधति ।

अर्थ—मुनिजन ही समय के अनुसार चार मासों की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि प्रतिदिन नियत जपोपवामादि हो और प्रतिदिन ही गुरुदेव श्री का सत्प्रवचन हो । इसलिए व्यवस्था करने वाले जैसा बताया गया, वही करते हैं ।

( १४ )

चतुर्मासं यावत् प्रतिदिनमिमे ज्ञप्तनियमान् ,  
 विधीन्वाऽनुष्ठातुं किमिति मुनयः किन्तु भविकाः ।  
 समे धर्मिष्ठास्ते नियतसमय व्येतुमनिशम् ,  
 न ते चेच्छन्त्यन्ये कथमथ पुनः शक्नुयुरिमे ॥

अन्वय —चतुर्मासं यावत् किमिति इमे मुनयः ज्ञप्तनियमान् वा विधीन् अनुष्ठातुम् (आसन्) किन्तु समे भविका धर्मिष्ठा ते अपि नियत-समयम् अनिश व्येतु न इच्छन्ति, तर्हि च अन्ये इमे नियतसमय व्येतुम् अथ कथं पुनः शक्नुयुः ।

अर्थ—चार मास पर्यन्त क्या ये ही मुनिजन ज्ञप्तनियमों को अथवा विधियों को करने के लिए थे ? किन्तु यहाँ के सभी धार्मिक पुरुष भी ऐसे थे कि वे नियत समय को निरन्तर खोने के लिए इच्छा नहीं रखते थे, तब फिर और दूसरे थे कौन होंगे जो कि यो ही कुछ कर-धर सकेंगे ! अर्थात् व्यर्थ समय खोने के लिए यहाँ कोई नहीं था ।

( १५ )

तथापीमान् साधून् रमयति परं श्रावकगणः ,  
 यथेच्छं भिक्षेच्छून् प्रतिगृहमितः सङ्गमयितुम् ।  
 अनायासो रन्तुं जन इव जनान् प्रेरयति तान् ,  
 सुखेच्छाविश्रान्तान् सुनियतमुनीन् गन्तुमपथम् ॥

अन्वयः—शरीरयात्रार्थं मुनयोऽपि कल्पिता भिक्षामाचरन्ति, तथापि विनोदार्थं श्रावकगण, इत इमान् भिक्षेच्छून् साधून् यथेच्छ सङ्गमयितु प्रतिगृह पर रमयति, अनायास जनः रन्त जनान् अपथ गन्तु प्रेरयति इव, प्रतिगृहं गन्तु सुखेच्छाविश्रान्तान् सुनियतमुनीन् प्रेरयति ।

अर्थ—शरीरयात्रा के लिए मुनि भी कल्पनीय भिक्षा ग्रहण करते हैं, तथापि विनोद के लिए कोई श्रावकगण उपाश्रय से इन भिक्षेच्छु मुनिओ को यथेच्छ साथ ले चलने के लिए घर-घर पर विनोद करते हैं । अनायास कोई मनुष्य, विनोद के लिए मनुष्यो को अपथ की ओर प्रेरित करता है, ठीक इसी तरह वह श्रावकगण भी प्रति-गृह जाने के लिए सानन्द विराजित प्रतिष्ठित मुनिओ को प्रेरित करता है । किन्तु कुछ भी मुनिजन तो नियमपूर्वक सूजती भिक्षा करते हैं, अत विनोदार्थं प्रेरणा से कुछ नहीं होता ।

( १६ )

अतश्चैवं सर्वे विनयिमुनयो ज्ञप्तविहितम् ,  
 प्रवर्षावासं त सुविधिसहितं ते कथयितुम् ।  
 समाप्य श्रीमन्त गुरुममरसिंह सविनयम् ,  
 अभिप्रायं स्वेषा प्रणयमभित संनिरगमन् ॥

अन्वयः—अत च एव त ज्ञप्तविहित सुविधिसहित प्रवर्षावास समाप्य ते सर्वे विनयिमुनय श्रीमन्तम् अमरसिंह गुरु स्वेषाम् अभिप्राय प्रणयम् अभित सविनय कथयितु संनिरगमन् ।

अर्थ—और फिर उस ज्ञप्तविहित सुविधिसहित उत्कृष्ट वर्षावास को समाप्त कर वे सभी विनयी मुनिजन, श्रीमान् अमरसिंहजी गुरुदेव को अपने अभिप्राय को प्रणयपुरस्सर विनय के साथ कहने के लिए चल दिए ।

( १७ )

हसन्तस्ते सन्तः सततविनया यान्त्युपगुरु ;  
 समायातान् दृष्ट्वा गुरुरपि हसन् प्रष्टुमभितः ।  
 समुत्कोत्कण्ठा तां ज्ञपयति पुनस्तान् स्मितमुखम् ;  
 मनीषी तत्त्वज्ञो ज्ञपयितुमलं सिद्धमनसा ॥

अन्वयः—ते सततविनया हसन्तः सन्तः (यदा) उपगुरु यान्ति, (तदा) अभितः प्रष्टुम् समायातान् (मुनीन्) दृष्ट्वा हसन् गुरुः अपि तान् तां समुत्कोत्कण्ठा स्मितमुख ज्ञपयति । यतो हि तत्त्वज्ञो मनीषी ज्ञपयितु सिद्ध-मनसा अलम् (भवति) ।

अर्थ—वे विनयी मुनिराज हँसते हुए जब गुरुजी के पास पहुँचते हैं, तब पूछने के लिए आए हुए मुनियों को देखकर हँसते हुए गुरुदेव श्री ने भी उस, उत्कण्ठितों की उत्कण्ठा मुस्कराने के साथ बतला दिया कि आप सब किस लिए आये हैं । क्योंकि तत्त्ववेत्ता ज्ञानी जान लेने के लिए अपने सिद्धि-प्राप्त मन से सर्वथा समर्थ होते हैं ।

( १८ )

अतस्ते सन्तस्तं प्रकटमभित सद्गुरुमपि ,  
 स्वकीयाभिप्रायं ज्ञपयितुमलं व्यक्तवचसा ।  
 भवन्त्युत्प्रेक्षन्ते स्वपरमपरं सन्तमनिशम् ;  
 गुरुर्ज्ञानी बुद्ध्या प्रथयति फलं स्वेङ्गितसमम् ॥

अन्वयः—अतः ते तन्तः अपि तः सद्गुरुम् स्वकीयाभिप्रायं प्रकटम् अभितः ज्ञपयितु व्यक्तवचसा अलं भवन्ति । (किन्तु ते शिष्यमुनयः) स्वपरम् अपरं मन्तम् अनिशम् उत्प्रेक्षन्ते यद् (अस्माकं गुरुः) ज्ञानी सन् बुद्ध्या स्वेङ्गितसमं फलम् प्रथयति ।

अर्थ—उनलिए वे मुनि भी अपने गुरुदेव को स्वकीय अभिप्राय प्रकट रूप में बताने के लिए स्पष्ट शब्दों में नाफ-साफ तत्पर हो गए । किन्तु वे शिष्यमुनि अपने से दूसरे मन्त को अपनी कल्पना के साथ कहते थे कि हमारे गुरुदेव अन्तर्यामी होकर बुद्धि के द्वारा अपने मोचे हुए के समान नुब कृष्ण बतला देते हैं ।

( १६ )

तदाचार्योऽयं तान् विदितमनसः स्पष्टवचसा ,  
 मुनीन् स्वाभिप्रायं विशदयति तं स्वीकृतिमयम् ।  
 विहत्तुं स्वच्छेच्छां भवदभिमतां मेऽभिलषिताम् ,  
 स्वयं जानन्त्वेतां कथमपि परां मा व्यवगमन् ॥

अन्वयः—तदा अयम् आचार्यं तान् विदितमनसं मुनीन् स्पष्टवचसा  
 तं स्वाभिप्रायं स्वीकृतिमयं विशदयति । यद् विहत्तुं भवदभिमताम् एता  
 स्वच्छेच्छां मे स्वयम् अभिलषिता जानन्तु, कथम् अपि (इमा) परा मा  
 व्यवगन् ।

अर्थ—तब इन आचार्यं श्री ने उन समझे हुए मुनियों को स्पष्ट वचन से  
 उस अपने अभिप्राय को स्वीकृतिमय बताया कि विहार के लिए आपकी चाही हुई  
 स्वच्छ इच्छा ही मेरी स्वयं की इच्छा है—ऐसा इसको जानिए और किसी प्रकार  
 से दूसरी इच्छा मत समझिए ।

( २० )

अतस्ते सन्तोऽमी स्वगतमभितो वक्तुमनसः , .  
 निवृत्ता प्रासीदन् सममविकलं स्वाशयमिमम् ।  
 स्वतो व्यञ्जन्तीमे परमनुपमं चर्चितमितः ,  
 यतो वर्ण्येनाल गुरुरयमहोनो गुरुरयम् ॥

अन्वयः—अत ते अमी सन्त अभित स्वगत वक्तुमनसं निवृत्ता  
 प्रासीदन् । इमे इमम् स्वाशयम् अविकलं समम् इत स्वतः चर्चितम् परम्  
 अनुपमं व्यञ्जन्ति । यत अहो न अयं गुरुः, गुरुः अयम्, वर्ण्येन अलम् ।

अर्थ—अत वे ही सन्त स्वगत को लेकर कहते-कहते वापिस आए और  
 बहुत प्रसन्न थे । ये इस अपने आशय को पूरा का पूरा यहाँ अपने आप कहने को  
 काफी अनोखा समझते थे । क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज तो वास्तव में गुरुजी ही  
 हैं, हम इस अर्थ को कहकर सावित नहीं कर सकते ।

( १७ )

हसन्तस्ते सन्तः सततविनया यान्त्युपगुरु ;  
 समायातान् दृष्ट्वा गुरुरपि हसन् प्रष्टुमभितः ।  
 समुत्कोत्कण्ठां तां ज्ञपयति पुनस्तान् स्मितमुखम् ;  
 मनीषी तत्त्वज्ञो ज्ञपयितुमलं सिद्धमनसा ॥

अन्वयः—ते सततविनया हसन्तः सन्तः (यदा) उपगुरु यान्ति, (तदा) अभितः प्रष्टुम् समायातान् (मुनीन्) दृष्ट्वा हसन् गुरुः अपि तान् तां समुत्कोत्कण्ठां स्मितमुखं ज्ञपयति । यतो हि तत्त्वज्ञो मनीषी ज्ञपयितुं सिद्धमनसा अलम् (भवति) ।

अर्थ—वे विनयी मुनिराज हँसते हुए जब गुरुजी के पास पहुँचते हैं, तब पूछने के लिए आए हुए मुनियों को देखकर हँसते हुए गुरुदेव श्री ने भी उस, उत्कण्ठितों की उत्कण्ठा मुस्कराने के साथ बतला दिया कि आप सब किस लिए आये हैं । क्योंकि तत्त्ववेत्ता ज्ञानी जान लेने के लिए अपने सिद्धि-प्राप्त मन से सर्वथा समर्थ होते हैं ।

( १८ )

अतस्ते सन्तस्तं प्रकटमभितः सद्गुरुमपि ,  
 स्वकीयाभिप्रायं ज्ञपयितुमलं व्यक्तवचसा ।  
 भवन्त्युत्प्रेक्षन्ते स्वपरमपरं सन्तमनिशम् ,  
 गुरुर्ज्ञानी बुद्ध्या प्रथयति फलं स्वेङ्गितसमम् ॥

अन्वय —अतः ते तन्तः अपि तः सद्गुरुम् स्वकीयाभिप्रायं प्रकटम् अभितः ज्ञपयितुं व्यक्तवचसा अलं भवन्ति । (किन्तु ते शिष्यमुनयः) स्वपरम् अपरं सन्तम् अनिशम् उत्प्रेक्षन्ते यद् (अस्माकं गुरुः) ज्ञानी सन् बुद्ध्या स्वेङ्गितसमं फलम् प्रथयति ।

अर्थ—इसलिए वे मुनि भी अपने गुरुदेव को स्वकीय अभिप्राय प्रकट रूप में बताने के लिए स्पष्ट शब्दों में साफ-माफ तत्पर हो गए । किन्तु वे शिष्यमुनि अपने से दूर गन्त को अपनी कल्पना के साथ कहते थे कि हमारे गुरुदेव अन्तर्यामी होकर बुद्धि के द्वारा अपने सोचे हुए के नमान सब कुछ बतला देते हैं ।

( २३ )

पदाति सङ्गन्तुं विदितयशसं शिष्यमुनयः ,  
 चतुर्णां मासानां गुरुवरमिमं ते सहचरा ।  
 व्रजन्त चान्वीक्ष्य गमनसमये जानपदिका ,  
 तदोत्तिष्ठन्तेऽन्ते विदधति नतिं प्रेक्ष्य युगपत् ॥

अन्वय—चतुर्णां मासानाम् अन्ते गमनसमये ते सहचरा शिष्य  
 मुनय विदितयशस गुरुवर पदाति प्रेक्ष्य सङ्गन्तुम् उत्तिष्ठन्ते, तदा च जान-  
 पदिका (श्रावका अपि) इम व्रजन्तम् अन्वीक्ष्य युगपत् नतिं विदधति ।

अर्थ—चार मासों के अन्त में प्रस्थान के समय पर वे सहचर शिष्य मुनिजन  
 प्रख्यात गुरुदेव को पैदल चलते देखकर साथ चलने के लिए उठ खड़े हुए । और  
 तब जनपद-निवासी श्रावक भी आपश्ची को पधारते हुए देखकर एक साथ नमन  
 करने लगे ।

( २४ )

अथ स्वान्ते शुद्धः कृतसुविनतिः श्रावकगणः ,  
 महान्तं श्रीमन्तं महितमहिमानं सुमनसम् ।  
 गुरुं सिहाचार्यं गमयति कथां भक्तिसहिताम् ,  
 वय सर्वे क्षम्याः प्रति किमपि जात त्रुटिगतम् ॥

अन्वयः—अथ महितमहिमान सुमनस सिहाचार्यं महान्त श्रीमन्त गुरु  
 प्रति कृतसुविनति स्वान्ते शुद्ध श्रावकगण भक्ति सहिताम् कथा गमयति,  
 (यत्) किमपि त्रुटिगत जात (भवेत्), (तर्हि) वय सर्वे क्षम्या स्म ।

अर्थ—विहार के समय—परमप्रसिद्ध प्रसन्नचित्त प्रशस्त आचार्य महान्  
 श्रीमान् गुरुदेवश्री से भोले-भाले वे श्रावक भक्तिपूर्वक बात चलाकर बोले कि हम से  
 यदि कोई भूल हुई हो तो हम सभी क्षम्य हैं । क्योंकि हम अवोध हैं—यह व्यङ्ग-  
 यार्थ है ।



( २१ )

ततस्ते पञ्चापं विहितविधयस्त्यक्तुमनसः ।  
 मुहूर्त्तं प्रस्थातुं गुरुवरनिदेशं प्रभवितुम् ।  
 प्रतीक्षन्ते कर्त्तुं सुविधिविहितं पात्रनिचयम् ,  
 समुद्धर्त्तुं वासः ग्रन्थनसहितं ग्रन्थनिवहम् ॥

अन्वयः—ततः ते पञ्चापं त्यक्तुमनसं विहितविधयः (मुनयः) सुविधिविहित पात्रनिचयं कर्त्तुं वासः ग्रन्थनसहितं ग्रन्थनिवहम् समुद्धर्त्तुं गुरुवरनिदेशं प्रभवितुं मुहूर्त्तं च प्रस्थातुं प्रतीक्षन्ते ।

अर्थ—तदनन्तर पञ्चाप प्रान्त को छोड़ने की भावना वाले सर्व कार्य पूरा कर वे मुनिजन, मली प्रकार से जमाए जाने वाले पात्रों को सगृहीत करने के लिए, कपडों से लपेटने के साथ ग्रन्थों को ढोने के लिए, गुरुदेवश्री के निदेश को मूर्त्तरूप देने के लिए और मुहूर्त्त पर प्रस्थान करने के लिए प्रतीक्षा करने लगे ।

( २२ )

पुनश्चान्ते सन्तो विदितगुणभूमेः सुयमिनः ,  
 गुरोः सद्यः सिद्धेस्तमभिलषितं मङ्गलमयम् ।  
 पुरस्कृत्यादेशं परममहिते मङ्गलयुते ,  
 प्रयाणं प्रेक्षन्ते सुयशसि मुहूर्त्तं सशकुनम् ॥

अन्वयः—अन्ते च पुनः ते सन्तः विदितगुणभूमेः सुयमिनः सद्यः सिद्धेः गुरोः तम् मङ्गलमयम् अभिलषितम् आदेशम् पुरस्कृत्य परममहिते मङ्गलयुते सुयशसि मुहूर्त्तं सशकुनम् प्रयाणं प्रेक्षन्ते ।

अर्थ—और फिर अन्त में वे सभी सन्त, महागुणी सुयमी सद्यः सिद्धि वाले गुरुदेव के उक्त मङ्गलमय अभिलषित आदेश को पुरस्कृत कर परमाहत मङ्गल समेत प्रसिद्धि मुहूर्त्त पर सशकुन प्रयाण की तलाश करने लगे ।

( २३ )

पदाति सङ्गन्तुं विदितयशसं शिष्यमुनयः ,  
 चतुर्णां मासानां गुरुवरमिमं ते सहचराः ।  
 व्रजन्तं चान्वीक्ष्य गमनसमये जानपदिकाः ,  
 तदोत्तिष्ठन्तेऽन्ते विदधति नर्ति प्रेक्ष्य युगपत् ॥

अन्वय — चतुर्णां मासानाम् अन्ते गमनसमये ते सहचरा शिष्य मुनय विदितयशस गुरुवर पदाति प्रेक्ष्य सङ्गन्तुम् उत्तिष्ठन्ते, तदा च जानपदिका (श्रावका अपि) इम व्रजन्तम् अन्वीक्ष्य युगपत् नर्ति विदधति ।

अर्थ—चार मासों के अन्त में प्रस्थान के समय पर वे सहचर शिष्य मुनिजन प्रख्यात गुरुदेव को पैदल चलते देखकर साथ चलने के लिए उठ खड़े हुए । और तब जनपद-निवासी श्रावक भी आपश्री को पधारते हुए देखकर एक साथ नमन करने लगे ।

( २४ )

अथ स्वान्ते शुद्धः कृतसुविनतिः श्रावकगणः ,  
 महान्तं श्रीमन्तं महितमहिमानं सुमनसम् ।  
 गुरुं सिंहाचार्यं गमयति कथां भक्तिसहिताम् ,  
 वय सर्वे क्षम्याः प्रति किमपि जातं त्रुटिगतम् ॥

अन्वयः—अथ महितमहिमान सुमनस सिंहाचार्यं महान्त श्रीमन्त गुरु प्रति कृतसुविनति स्वान्ते शुद्ध श्रावकगण भक्ति सहिताम् कथा गमयति, (यत्) किमपि त्रुटिगत जात (भवेत्), (तर्हि) वय सर्वे क्षम्या स्म ।

अर्थ—विहार के समय—परमप्रसिद्ध प्रसन्नचित्त प्रशस्त आचार्य महान् श्रीमान् गुरुदेवश्री से भोले-भाले वे श्रावक भक्तिपूर्वक वात चलाकर बोले कि हम से यदि कोई भूल हुई हो तो हम सभी क्षम्य हैं । क्योंकि हम अबोध हैं—यह व्यङ्ग्य-यार्थ है ।

( २५ )

दयालुः सिंहोऽसौ मुनिजनसनाथः सुसमये ,  
 स्वकीय प्रस्थानं सुविधिविहितं कर्तुं मनिशम् ।  
 अवोचत् सर्वस्वं महितवचसां सातिशयितम् ,  
 मुनीनां जैनानां श्रमणशरणं मङ्गलवचः ॥

अन्वयः—तदा सुसमये स्वकीय सुविधिविहित प्रस्थानम् अनिश-  
 कर्तुम् असौ मुनिजनसनाथ दयालु सिंहः महितवचसा जैनाना मुनीना  
 सातिशयित सर्वस्व श्रमणशरण मङ्गलवच. अवोचत् ।

अर्थ - तब अच्छे समय पर अपने यथोचित प्रस्थान को निरन्तर बनाए रखने  
 के लिए वे मुनिओ के साथ रयालु आचार्यश्री पूज्यवचन वाले जैनमुनियो का  
 सर्वोत्कृष्ट सर्वस्व श्रमणशरण माङ्गलिक फरमाने लगे ।

( २६ )

यथा मन्दं मन्दं वहति पवनो नन्दनवने ,  
 पुनर्नासारन्ध्रे सरति सुरभिः पुष्पसमये ।  
 तथा निस्स्वे विश्वे चलति दमनः संघशरणः ,  
 मुनिष्वाचार्योऽसौ श्रमण-रमणो धोरणगुणः ॥

अन्वय —सम्प्रति मुनयो गुरुं पुरस्कृत्य शनैः शनैः प्रतिष्ठन्ते-नन्दन-  
 वने यथा पवनः मन्द मन्द वहति, पुनः पुष्पसमये यथा सुरभिः नासारन्ध्रे  
 सरति, यथा निस्स्वे विश्वे असौ मुनिषु आचार्य दमन संघशरणः श्रमण-  
 रमण धोरणगुण सन् चलति ।

अर्थ—अब मुनिजन गुरुदेवश्री को आगे कर धीरे-धीरे प्रस्थान कर रहे हैं—  
 इन्द्र के उद्यान नन्दनवन मे जैसे वायु मन्द-मन्द चलती और फिर महक वसन्त मे  
 जिस प्रकार नाक के रन्ध्रे मे धीरे-धीरे प्रवेश पाती हैं, उसी प्रकार असार ससार मे  
 दमी, संघ के शरण, श्रमणो के आनन्ददाता, धोरणगुणवाले वे मुनियो मे आचार्य  
 श्री अमरसिंहजी महाराज धीरे-धीरे विहार कर रहे हैं ।

( २७ )

अनुग्रामं गत्वा पुनरपि समे शान्तगतय. ,  
 कथंचिद् विश्रम्य प्रमुनय इमे तं परिचयम् ।  
 विबुद्धान्ते तेभ्यो नियमसहितां वृत्तिमपराम् ,  
 विधाय ग्रामान्ते नियतमशनं यान्ति रचितुम् ॥

अन्वयः—ग्रामस्य पश्चात् ग्राम गत्वा समे इमे शान्तगतय प्रमुनय  
 कथ चित् विश्रम्य, त परिचय विबुद्ध्य, अन्ते तेभ्य (श्रावकेभ्य) पुनरपि  
 अपरा वृत्ति विधाय ग्रामान्ते नियतम् अशनम् रचितुम् यान्ति ।

अर्थ—ग्राम के बाद ग्राम का स्पर्श कर सब ये धीमी गति वाले प्रकृष्ट  
 मुनिजन थोडा-बहुत विश्राम लेकर पूर्व परिचय को जानकर, अन्त मे उन श्रावको से  
 ही दूसरी गोचरी कर ग्राम के बाहिर नियत अशन के लिये चल देते हैं ।

( २८ )

तदा सर्वे लोका अतिपरिचितान् नन्तुमधिकम् ,  
 मुनीनायान्त्येते चतुरचतुरा संग्रहरताः ।  
 ततश्चानन्दार्थं प्रतिपदमहो कौतुकमताः ,  
 जिघृक्षां दीक्षायाः समभिदधतीमान् नटयितुम् ॥

अन्वयः—पुनरागमन श्रुत्वा—एते संग्रहरता चतुरचतुरा सर्वे  
 लोकाः अतिपरिचितान् मुनीन् नन्तुम् आयान्ति । तत. च अहो कौतुकमताः  
 (ते) आनन्दार्थम् इमान् मुनीन् नटयितुम् दीक्षाया जिघृक्षा प्रतिपद समभिद-  
 धति । (यत दीक्षायै समुद्यत जन मुनय. पर स्पृहयन्ति, शृण्वन्ति, अनु-  
 गृह्णन्त्यपि ।

अर्थ—मुनिजन के पधारने की बात सुनकर—ये संग्रही अधिक चतुर सभी  
 मनुष्य पूर्ण परिचित मुनियो की वारवार वन्दना करने के लिए आते हैं । और वे  
 कौतुकी बनकर आनन्द के लिए इन मुनियो को चक्कर देने के लिए दीक्षा लेने की  
 इच्छा को प्रतिपद कहते थे । क्योंकि दीक्षा लेने वाले मनुष्य से मुनिजन बहुत स्पृहा  
 रखते हैं, सुनते भी है और अनुग्रह भी रखते हैं ।

( २६ )

अतस्ते सानन्दा परमविनताः श्रोतुमधिकम् ,  
 तदीय वृत्तान्त किमिव घटितं जानुमपरे ।  
 समागच्छन्त्येते परमविदशास्तेऽपि मुनयः ,  
 ततो जात्वा तत्त्वं समभिदधतीमं कुरु कृपाम् ॥

अन्वयः—दीक्षा जिघृक्षोर्वृत्त श्रुत्वा—ते परमविनता सानन्दा मुनय अत. अधिक तदीय वृत्तान्त श्रोतुम्, अपरे किमिव घटित जानुम् च समागच्छन्ति, किन्तु परमविदशास्ते एते मुनय अपि तत्त्व ज्ञात्वा इमम् दीक्षा जिघृक्षुम् समभिदधति यत् तत कृपा कुरु । अर्थात् त्वमितो गच्छ ।

अर्थ—दीक्षा के ग्रहीता की बात मुनकर—वे अतिनम्र आनन्दित मुनि—इमने और अधिक मुनने के लिए, दूसरे मुनि कैसा क्या हुआ जानने के लिए भी था पहुँचने हैं, किन्तु अधिक विद्वान् वे ही मुनिजन तत्त्व जानकर इस दीक्षार्थी से कहते हैं कि तब तू दया पाल । अर्थात् यहाँ से तू लम्बा हो ।

( ३० )

पिपृच्छामेपां ते शमयितुमिमे मे विनयिन ,  
 यतन्तेऽथायान्तं मुनिजनवरं नन्तुमसकृत् ।  
 समुत्तिष्ठन्ते ते स्थलमुपगताः सन्ततमिमम् ,  
 तदाचार्यं दृष्ट्वा विदधति नतीनां शतमिदम् ॥

अन्वयः—किं जातमिति पृच्छताम् - एषा पिपृच्छां शमयितुम् इमे ते विनयिन मुनय यतन्ते, अथ तदा एव ते मुनय आयान्तम् मुनिजनवरम् आचार्यं दृष्ट्वा असकृत् नन्तुम् समुत्तिष्ठन्ते, (किन्तु) ते स्थलमुपगता. जना-इमम् आचार्यं दृष्ट्वा इदं नतीना शत विदधति ।

अर्थ—'क्या हुआ' इस बात को पूछने वाले इन मनुष्यों की पूछने की इच्छा को शान्त करने के लिए ये ही वे मुनिजन जब प्रयत्न करने लगे तभी वे मुनि पधारते हुए मुनियों के पूज्य आचार्य श्री को देखकर बार-बार वन्दना करने को उठ खड़े होते हैं, किन्तु वे भूमि पर बैठे हुए श्रावक इन आचार्य जी महाराज को देख सैकड़ों प्रणाम करने लगे ।

( ३१ )

ततश्चेन्द्रप्रस्थं प्रति विहरणं जायत इदम् ,  
 जनाः श्रुत्वेत्येवं किमिति बहुधा प्रष्टुमनसः ।  
 यतन्तेऽथाचार्यं प्रवदति तदा केवलमलम् ,  
 न कष्टं यत् किञ्चित्तदपि गमनंमे ध्रुवमितः ॥

अन्वय — तत इन्द्रप्रस्थ प्रति विहरण जायते इति श्रुत्वा जनाः इदम् एवम् किम् इति बहुधा प्रष्टुमनस यतन्ते । तदा आचार्यः प्रवदति यत् किञ्चित् कष्ट न (विद्यते), केवलम् इत मे गमनम् तदपि ध्रुवम्, अत निवासाय अथ आग्रहेण अलम् ।

अर्थ—तदनन्तर 'इन्द्रप्रस्थ की ओर विहार हो रहा है' ऐसा सुनकर सभी श्रावक 'यह ऐसा क्यों होता है' ऐसा अनेक प्रकार से पूछने वाले प्रयत्न करने लगे । तब आचार्य श्रीअमरसिंहजी मुनिराज ने फरमाया कि यहाँ कोई कष्ट नहीं है, केवल यहाँ से मेरा प्रस्थान तो फिर भी निश्चित है । इसलिए निवास के हितार्थ आग्रह से कोई काम नहीं चलेगा ।

( ३२ )

तदेन्द्रप्रस्थस्था निखिलजनता धर्मशरणम् ,  
 समागच्छन्तं त मुनिगणघरं स्वागतमलम् ।  
 समायाताः कर्तुं मुनिगणपुरोगाः सविनयम् ,  
 त्रिकृत्व. साष्टाङ्गं प्रणमति मुनीश सुमनसा ॥

अन्वय — तदा इन्द्रप्रस्थस्था मुनिगणपुरोगा निखिलजनता तम् धर्म-शरणम् मुनिगणघर समागच्छन्त मुनीश स्वागतम् अलम् कर्तुं समायाता, ततश्च सुमनसा त्रिकृत्व साष्टाङ्ग सविनय प्रणमति ।

अर्थ—तब दिल्ली की मुनिगण को आगे की हुई सारी जनता उस धर्मरक्षक मुनिमण्डल के साथ आते हुए आचार्य महाराज को स्वागत से सुशोभित करने के लिए पहुँची, और फिर भाव-भीने हृदय से तीन बार साष्टाङ्ग विनय से प्रणाम किया ।

( ३३ )

अथ श्रद्धाराद्धः स्वयमतुलितं वक्तुमपरम् ,  
 स्वकीयं मन्तव्यं परमुपगतान् सन्मुनिवरान् ।  
 समाख्यातुं स्वीयै रुचिरमधुरैस्तत्त्ववचनैः ,  
 प्रवृत्तः शीर्षस्थान् यदिति करणीय पुनरिमान् ॥

अन्वयः—अथ स्वागतसमये श्रद्धाराद्ध (आचार्य. अमरसिंह मुनि) अपरम् अतुलित स्वकीय पर मन्तव्य यत् करणीयम् इति स्वय वक्तुम् इमान् उपगतान् शीर्षस्थान् स्वीयै रुचिरमधुरै तत्त्ववचनैः समाख्यातु प्रवृत्तः ।

अर्थ—तदनन्तर स्वागत के समय, श्रद्धा से आराधनीय आचार्य श्रीअमरसिंह मुनिजी महाराज 'दूमरा अनोखा अपना बड़ा मन्तव्य, जो किया जाना चाहिए' यह स्वयं बताने के लिए इन आये हुए श्रेष्ठ मुनियों को अपने प्यारे-मीठे खाश वचनों से खुलासा करने के लिए तत्पर हुए ।

( ३४ )

मरोभुव श्रामणजैनशासने, नियोक्तुमिच्छ्यासदृशं गुरोरयम् ।  
 ततो विधातुं श्रमणावतंसकः, स्वयं मरुं गन्तुमित्तं समीहते ॥

अन्वय — ततः अयं श्रमणावतंसकः मरोः भुव श्रामणजैनशासने नियोक्तुम् अतः गुरो इच्छ्यासदृशं विधातुम् स्वयं मरुं गन्तुं समीहते ।

अर्थ—तत्पश्चात् ये आचार्य जी महाराज मरु की पृथिवी को श्रमणोपामक जैन धर्म में लगाने को जिससे गुरुदेव की इच्छा के अनुसार कार्य हो, करने के लिए मारवाड़ पहुँचने की चेष्टा करने लगे ।

( ३५ )

अतोऽग्रिमेऽङ्के यदि वर्णनं मुनेः, प्रसङ्गसङ्गेन भुविस्तृतं भवेत् ।  
 ततो निरागा अहमस्मि साम्प्रतम्, गुणा अनेकेऽस्य गुरोस्तुदन्ति माम् ॥

अन्वयः—यदि अग्रिमे अङ्के मुने वर्णनं विस्तृतं भवेत्, ततः तु साम्प्रतम् अहम् निरागा अस्मि, (यतो हि) अस्य गुरोः—अनेके गुणा (वर्णनाय) मां तुदन्ति ।

अर्थ—यदि आगे के सर्ग में मुनिमहाराज का वर्णन प्रसङ्ग के साथ विस्तृत होता हो, तो फिर अब मैं निरपराध हूँ, क्योंकि इन गुरुदेव के अनेक गुण वर्णन करने को मुझे विवश करते हैं ।

( ३६ )

इयं वसन्तस्य ऋतोर्विशेषता, प्रपर्णवृक्षोऽपि तु पुष्पितः पुन ।  
सुमूकपुंस्कोकिल एव कूजते, कविर्भवाम्येवमहं गुणैर्मुने ॥

अन्वयः—इयं वसन्तस्य ऋतो विशेषता अस्ति, यत् प्रपर्ण अपि वृक्ष, तु पुन पुष्पित भवति (पर्णानां तु कथं व का), एव सुमूक पुस्कोकिल एवापि कूजते (रवाणां तु वर्णनं किम्) ? एवम् मुने गुणैः अहं कविः भवामि । मुनेर्गुणानां विशेषतेत्यर्थः ।

अर्थ—यह वसन्त ऋतु की विशेषता है कि पत्ररहित भी वृक्ष, तो फिर फूलवाला हो जाता है, पत्तों की तो बात ही क्या ? ऐसे ही पूर्ण चुप रहने वाला कोकिल कूजने लगता है, गुणगुणाने का कहना ही क्या ? इसी प्रकार मुनिमहाराज के गुणों से, मौन रखने वाला मैं जैनमुनि कवि बन रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह मुनिमहाराज के गुणों की विशेषता है ।

( ३७ )

अहं तु शब्दैरनुरञ्जयेयं भक्तान् गुरोर्मेऽमरसिंहशास्तु ।  
भवेदिदं काव्यगुणेन तुल्यं तदा कृपैवास्ति महाकवीनाम् ॥

अन्वयः—अहं तु शब्दैः अनुरञ्जयेयम् (इति विचार्य वर्णनमकुर्वम्) किन्तु इदं वर्णनं यदि काव्यगुणेन तुल्यं भवति, तदा इयं महाकवीनां कृपा एव अस्ति ।

अर्थ—मैं तो श्रीअमरसिंहाचार्य मेरे गुरु के भक्तों को केवल शब्दों से ही अनुरक्त किया चाहता हूँ—ऐसा विचारकर मैंने वर्णन किया । यदि फिर भी यह वर्णन काव्य के अनुरूप मान लिया जाता है तो फिर मैं इसको, महाकवियों की कृपा है, ऐसा समझूंगा !

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
उपाध्यायपदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
श्रीमदाचार्यामरसिंह महाकाव्ये

षष्ठः सर्गः



## सप्तमः सर्गः

( १ )

दयाविचारेन्दुविभाविलासिनो जिनेन्द्रसिद्धान्तशिरोमणेर्मुने ।  
नखप्रभाभूषितयोः पदाब्जयोर्नतोऽस्म्यह भक्ति विरक्तिनालयोः ॥

अन्वय — दयाविचारेन्दु विभाविलासिन जिनेन्द्र सिद्धान्त शिरोमणे.  
मुने नखप्रभा भूषितयोः भक्ति-विरक्तिनालयोः अह (पुष्करमुनि) नत.  
अस्मि ।

अर्थ—दया के विचार रूपी चन्द्रमा की विभा के विलासी जिनेन्द्र के सिद्धान्त  
की शिरोमणि मुनि के नख की प्रभा से अलंकृत भक्ति और विरक्ति हैं दण्ड  
जिनके ऐसे चरण रूपी कमलो मे मैं पुष्करमुनि नत हूँ ।

( २ )

अथागतं मण्डलिनं गुरुं जना, उपाश्रये संस्थितमात्मदैवतम् ।  
अहर्मुखे द्रष्टुमिमं प्रियंवदं, समागताः सलपितुं च ते समे ॥

अन्वयः—अथ ते समे जना उपाश्रये संस्थितम् मण्डलिनम् आत्म-  
दैवत प्रियवदम् इमम् आगत गुरुम् अहर्मुखे द्रष्टुसलपितु च समागता ।

अर्थ—नगर मे पदार्पण करने के पश्चात् वे सब श्रावक उपाश्रय मे विराजे  
हुए मुनिमण्डल के साथ आत्मदेव स्वरूप प्रियभापी इन आए गुरुदेव को प्रभात मे  
दर्शन करने के लिए और परस्पर मे बातचीत करने के उपस्थित हुए ।

( ३ )

विहारमुल्लक्ष्य समे प्रसङ्गत, सुखेन शान्त्या च पदार्पणं पुन ।  
इद तु जात किमुतान्यथेति वा, जना अनुप्रश्नमुदाहरन्ति ते ॥

अन्वय — विहारम् उल्लक्ष्य समे ते जना प्रसङ्गत अनुप्रश्नम् उदा-  
हरन्ति, यत् ते पुन इद पदार्पण तु सुखेन शान्त्या च जात किम् उत वा  
अन्यथा इति ?

अर्थ—विहार को लक्ष्य मान कर वे सब श्रावक प्रसंग के अनुसार प्रश्न पर  
प्रश्न करते हैं कि आपका फिर यह पदार्पण सुख और शान्ति के साथ हुआ क्या,  
अथवा कोई तरह से हुआ ? यह वे जानना चाहते हैं ।

मर्गेऽस्मिन् 'वशास्था ज्तौ ज्रौ ।'

( ४ )

ततो जनास्ते मुनयोऽनुभाविन् वदन्ति प्रत्युत्तरमेव केवलम् ।  
विहारिणः स्युर्मुनयः सदेत्यसौ, शशास शास्ता भगवान्जिनो मुनि ॥

अन्वय — तत ते अनुभाविन् मुनयः केवल प्रत्युत्तरम् एव वदन्ति,  
यत् असौ शास्ता जिन मुनि भगवान् शशास, यन् सदा मुनय विहारिण  
स्युः । अतो वय तु विहराम — इति जानीम ।

अर्थ—तत ये दयालु मुनिजन केवल प्रत्युत्तर ही देते कि उस शास्ता जिन  
मुनि ने शासन किया, कि सदा मुनिजन विहार करने वाले होने चाहिये । इससे हम  
तो घूमते रहते हैं—यही हम जानते हैं, शेष सब गृहस्थो के लिए छोड़ दिया है ।

( ५ )

शनैः शनैरेवमुपागता इमे, निदेशानां दातुमिहार्थयन्ति तम् ।  
गुरुं स्वकीयं प्रतिभाविलासिनम्, समागतं पञ्चनदादिम जनाः ॥

अन्वयः—शनैः शनैः एवम् उपागता इमे जना इह निदेशानां दातुम्  
इमं तम् पञ्चनदात् समागतं प्रतिभाविलासिनं स्वकीयं गुरुम् अर्थयन्ति ।

अर्थ—धीरे-धीरे इस प्रकार ये श्रावक यहाँ पर उपदेश देने के लिए इन्हीं  
पजाब से आए हुए प्रतिशाली अपने गुरुदेवश्री से अर्ज करते हैं ।

( ६ )

निवेदनं जैनमतानुयायिनाम्, तथा परेषामपि धर्मधारिणाम् ।  
निशम्य शुक्लाम्बरजैनभास्कर, जिनागमज्ञानविभां स्फुरत्यसौ ॥

अन्वय — असौ शुक्लाम्बरजैन भास्कर आचार्यामरसिंह जैनमता-  
नुयायिनाम् तथा परेषां धर्मधारिणां निवेदनं निशम्य जिनागमज्ञानविभां  
स्फुरति ।

अर्थ—तब वे शुक्लाम्बर जैनो के सूर्य आचार्य श्री अमरसिंहजी महाराज ने  
जैनधर्म के अनुयायी और उसी प्रकार अन्य धर्म के मानने वालों के भी निवेदन को  
सुनकर जिनभगवान् के आगमों के ज्ञान के प्रकाश को और ज्योतिष किया ।

( ७ )

उपाश्रय वोधमतो ङिशत्यसौ, समागतेभ्योऽनुदिनं तदोषसि ।  
क्षिणोति तेषां मनसो विकारजम्, शनैर्मुनिर्दोषमशेषमालपन् ॥

अन्वयः—तदा मुनि उपसि, अनुदिनम् उपाश्रय समागतेभ्य (श्राव-  
केभ्य) वोध दिशति । अत असौ तेषा (श्रावकाणा) मनस विकारजम्  
अशेषम् दोषम् शनै क्षिणोति ।

अर्थ—तव मुनिश्री प्रभात मे प्रतिदिन उपाश्रय आए हुए श्रावको के लिए  
ज्ञान का उपदेश करते थे । अतएव वे उन आए हुए श्रावको के मन के विकारज  
सम्पूर्ण दोष को धीरे-धीरे क्षीण करते थे ।

( ८ )

इदं मनोऽश्वो विकटोऽतिदुर्दम. समुच्यते यद्रभसोक्तमस्ति तत् ।  
अहं तु मन्ये परम सहायकम् यतो मनो वेत्ति रहस्यमात्मन ॥

अन्वयः—आचार्योऽय शनै शनैरुपदिशति—यत् कैश्चित् समुच्यते  
यत् इद मन —अतिदुर्दम विकट अश्व (अस्ति) । तत् रभसोक्तम् अस्ति ।  
अहं तु (मन) परम सहायक मन्ये । यत मन एव आत्मन रहस्य वेत्ति ।

अर्थ—आचार्यजी महाराज शनै शनै उपदेश करते थे कि कुछ मनुष्यो ने  
समझाया है कि यह मन वेकावू भयङ्कर घोडा है । वह जल्दी मे कहा गया है । मैं  
तो मन को परम सहायक मानता हूँ । क्योंकि मन ही आत्मा के रहस्य को  
जानता है ।

( ९ )

जगद्विधातृ प्रथमं विधायकम्, विनाशकञ्चापि कथोत्तमोद्गतम् ।  
मनोऽनुकूलीकरणाय सन्ततम्, प्रयत्न एषोऽस्तु मनोऽस्त्यतो महत् ॥

अन्वयः—अत मन महत् अस्ति, (यत) इद कथोत्तमोद्गतम् जगद्-  
विधातृ प्रथम विधायकम् विनाशकम् च अपि अस्ति, (तस्मात्) मनोऽनुकूली-  
करणाय एष प्रयत्न अस्तु ।

अर्थ—यह मन महान् है । क्योंकि यह जगत् बनाने वाला पहला विधाता है  
और कहानियों के उत्तम इतिहास से उत्पन्न है, साथ ही जगत् विनाशक भी यही  
मन है । इसलिए आपका मन को अनुकूल बनाने के लिए सदा प्रयत्न रहना चाहिए ।

( १० )

ततोमन सत्यमिदं जगद्वृथा, कथेयमित्येव मनीषिभिर्मता ।  
भवद्भिरेवाकलनीयमन्यत, मनोजमस्त्येव जगद् यतः स्वयम् ॥

अन्वयः—तत इद मन सत्यम् जगत् वृथा इति इय कथा एव मनीषिभिर्मता । अन्यत भवद्भि अपि एव आकलनीयम् यत जगत् स्वयम् मनोजम् एव अस्ति ।

अर्थ—इसीलिए यह मन सत्य है, जगत् वृथा है, ऐसी यह बात विवेकियो ने भी मानी है । दूसरे आप भी समझ ही रहे हो कि जगत् स्वय मन से ही पैदा होता है ।

( ११ )

भवी यदाऽऽयाति कृतं निर्वर्त्तितुम्, ऋते शरीरान्न हि तस्य सन्निधौ ।  
पुनश्च तस्यैव कला प्रकल्पितम्, विशालमागारमिद तथापरम् ॥

अन्वय —यदा जन्मी कृतं निर्वर्त्तितु (जगति अस्मिन्) आयाति, तदा तस्य सन्निधौ शरीरात् ऋते (किमपि) न हि (आसीत्) । पुनश्च तस्य एव इद विशालम् आगारम् अस्ति तथा अपरम् (अपि अस्ति) ।

अर्थ—जब प्राणी किए हुए को भुगतने के लिए इस जगत् मे आता है, तब उसके पास मे शरीर को छोडकर, कुछ नही होता । किन्तु उसके ही फिर कारीगरी वाले विशाल भवन उसी प्रकार और दूसरे सामान सब बन जाते है ।

( १२ )

प्रवर्त्ततेऽसौ मनस समुद्भव., समस्तससारं विकासकल्पित ।  
अतोऽहमेव समितौ समब्रुवम्, मनो विधात्त्रेव मन सुहृत् पर. ॥

अन्वय.—आचार्य उपदिशन् समर्थयति—यत् मनस समुद्भव असौ समस्त ससारविकासकल्पित प्रवर्त्तते । अत अहम् एवम् समितौ समब्रुवन् यद् (इद) मन एव विधात्त्रेव मन एव पर सुहृत् अस्ति ।

अर्थ—आचार्यश्री उपदेश करते हुए समर्थन देते हैं कि मन से पैदा हुआ यह सम्पूर्ण ससार का विकास कल्पित है । इसलिए मैंने सभा मे बताया था कि मन ही विधाता है और मन ही बडा मित्र है ।

( ७ )

उपाश्रयं बोधमतो दिशत्यसौ, समागतेभ्योऽनुदिनं तदोपसि ।  
क्षिणोति तेषां मनसो विकारजम्, शनैर्मुनिर्दोषमशेषमालपन् ॥

अन्वयः—तदा मुनि उपसि, अनुदिनम् उपाश्रय समागतेभ्य (श्राव-  
केभ्य) बोध दिशति । अत असौ तेषा (श्रावकाणा) मनस. विकारजम्  
अशेषम् दोषम् शनै क्षिणोति ।

अर्थ—तव मुनिश्री प्रभात मे प्रतिदिन उपाश्रय आए हुए श्रावको के लिए  
ज्ञान का उपदेश करते थे । अतएव वे उन आए हुए श्रावको के मन के विकारज  
सम्पूर्ण दोष को धीरे-धीरे क्षीण करते थे ।

( ८ )

इदं मनोऽश्वो विकटोऽतिदुर्दमः समुच्यते यद्रभसोक्तमस्ति तत् ।  
अहं तु मन्ये परमं सहायकम् यतो मनो वेत्ति रहस्यमात्मन ॥

अन्वयः—आचार्योऽय गनै शनैरुपदिशति—यत् कैञ्चित् समुच्यते  
यत् इद मन.—अतिदुर्दम. विकट. अश्व (अस्ति) । तत् रभसोक्तम् अस्ति ।  
अहं तु (मन) परमं सहायक मन्ये । यत मन एव आत्मन रहस्य वेत्ति ।

अर्थ—आचार्यजी महाराज शनै. शनै उपदेश करते थे कि कुछ मनुष्यो ने  
समझाया है कि यह मन वेकानू भयङ्कर घोडा है । वह जल्दी मे कहा गया है । मैं  
तो मन को परम सहायक मानता हूँ । क्योंकि मन ही आत्मा के रहस्य को  
जानता है ।

( ९ )

जगद्विधातृ प्रथमं विधायकम्, विनाशकञ्चापि कथोत्तमोद्गतम् ।  
मनोऽनुकूलीकरणाय सन्ततम्, प्रयत्न एपोऽस्तु मनोऽस्त्यतो महत् ॥

अन्वयः—अत मन. महत् अस्ति, (यत) इद कथोत्तमोद्गतम् जगद्-  
विधातृ प्रथम विधायकम् विनाशकम् च अपि अस्ति, (तस्मात्) मनोऽनुकूली-  
करणाय एप. प्रयत्न. अस्तु ।

अर्थ—यह मन महान् है । क्योंकि यह जगत् बनाने वाला पहला विधाता है  
और कहानियों के उत्तम इतिहास से उत्पन्न है, नाय ही जगत् विनाशक भी यही  
मन है । इसलिए आपका मन को अनुकूल बनाने के लिए सदा प्रयत्न रहना चाहिए ।

( १० )

ततोमन सत्यमिदं जगद्वृथा, कथेयमित्येव मनीषिभिर्मता ।  
भवद्भिरेवाकलनीयमन्यत, मनोजमस्त्येव जगद् यतः स्वयम् ॥

अन्वयः—तत इद मन सत्यम् जगत् वृथा इति इय कथा एव मनीषिभिर्मता । अन्यत भवद्भि अपि एव आकलनीयम् यत जगत् स्वयम् मनोजम् एव अस्ति ।

अर्थ—इसीलिए यह मन सत्य है, जगत् वृथा है, ऐसी यह बात विवेकियो ने भी मानी है । दूसरे आप भी समझ ही रहे हो कि जगत् स्वय मन से ही पैदा होता है ।

( ११ )

भवी यदाऽऽयाति कृतं निर्वर्त्तितुम्, ऋते शरीरान्न हि तस्य सन्निधौ ।  
पुनश्च तस्यैव कला प्रकल्पितम्, विशालमागारमिद तथापरम् ॥

अन्वय —यदा जन्मी कृत निर्वर्त्तितु (जगति अस्मिन्) आयाति, तदा तस्य सन्निधौ शरीरात् ऋते (किमपि) न हि (आसीत्) । पुनश्च तस्य एव इद विशालम् आगारम् अस्ति तथा अपरम् (अपि अस्ति) ।

अर्थ—जब प्राणी किए हुए को भुगतने के लिए इस जगत् मे आता है, तब उसके पास मे शरीर को छोडकर, कुछ नही होता । किन्तु उसके ही फिर कारीगरी वाले विशाल भवन उसी प्रकार और दूसरे सामान सब बन जाते है ।

( १२ )

प्रवर्त्ततेऽसौ मनस समुद्भवः, समस्तसंसार विकासकल्पित ।  
अतोऽहमेवं समितौ समब्रुवम्, मनो विधात्रेव मन सुहृत् परः ॥

अन्वय.—आचार्य उपदिशन् समर्थयति—यत् मनस समुद्भव असौ समस्त संसारविकासकल्पित प्रवर्त्तते । अत अहम् एवम् समितौ समब्रुवन् यद् (इद) मन एव विधातृविद्यते, मन एव पर सुहृत् अस्ति ।

अर्थ—आचार्यश्री उपदेश करते हुए समर्थन देते हैं कि मन से पैदा हुआ यह सम्पूर्ण संसार का विकास कल्पित है । इसलिए मैंने सभा मे बताया था कि मन ही विधाता है और मन ही बड़ा मित्र है ।

( १३ )

सुकर्मणां पुण्यफलोदयं मनः, प्रभुर्महावीर इति समुक्तवान् ।  
न रत्नमेक लभते विना मनः, सुदूरमेतत्कथनात् पुनस्त्रयीम् ॥

अन्वयः—प्रभु महावीर समुक्तवान् यद् मनः सुकर्मणा पुण्यफलो-  
दयम् अस्ति इति । प्राणी मन विना एक रत्न न लभते, पुनः त्रयी लभते,  
एतत् सर्वं कथनात् सुदूर वर्तते ।

अर्थ—भगवान् महावीर ने फरमाया है कि मन सुकर्मों के पुण्यफल का उदय  
जिससे होता हो-ऐसा है । प्राणी मन के विना एक रत्न को प्राप्त नहीं कर सकता,  
तब फिर तीन रत्नों को प्राप्त कर लेगा—यह सब कहने से काफी दूर है । अर्थात्  
ऐसा हो नहीं सकता ।

( १४ )

अतो मनः साधयितुं सुचञ्चलम्, स्वभावतो योजयितुं सुकर्मभिः ।  
रसेऽनुलिप्त यदि वा भवेदिदम्, महाजयोऽयं जयिनो महारणे ॥

अन्वय — अतः सुकर्मभिः योजयितुम् इदम् स्वभावतः सुचञ्चल मनः  
भवेत्, यदि वा सुकर्मणा रसे अनुलिप्त भवेत्, तर्हि द्रष्टव्यम्—कियदाश्चर्यं-  
मन करोति । किन्तु अहं मन्ये यदि एव भवेत्-तदा तु महारणे अयं जयिनः  
महाजयः (अस्ति) ।

अर्थ—इसलिए सत्कर्मों के साथ जब इस चञ्चल मन को जोड़ने के लिए  
अनुकूल प्रयत्न होगा अथवा सत्कर्मों के रस में यह मन गर्क रहेगा, तब देखेंगे कि यह  
मन क्या गजब ढाता है ! यदि ऐसा बनता हो तो मैं यह मानूँगा कि एक योद्धा ने  
महायुद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त करली ।

( १५ )

रसोपलब्धेर्यदि मूलमिष्यते, तदोपसाधु प्रति गन्तुमीहताम् ।  
यदा सनिष्ठो यतते निरन्तरम्, रसानुभूतिः स्वयमव जायते ॥

अन्वयः—यदि, रसोपलब्धे मूलम् इष्यते, तदा उपसाधु प्रति गन्तुम्  
ईहताम् । यदा सनिष्ठः सन् निरन्तरं यतते, तदा रसानुभूतिः स्वयम् एव  
जायते ।

अर्थ—यदि आत्मरस की प्राप्ति का मूल चाहते हो, तब साधक गुरु की  
सेवा में पहुँचने का प्रयत्न करना होगा । जब सनिष्ठ होकर मूलजिज्ञासु प्रयत्न  
करता है, तब रस की अनुभूति स्वयं ही पैदा हो जाती है ।

( १६ )

न कोऽपि शक्तो भुवने मनोजनः, रसं विना योजयितुं भवेदसौ ।  
रसं सनिष्ठोऽनुभवाय शक्यति, रसस्य निष्ठा जननी सतां मते ॥

**अन्वय**—असौ, क अपि भुवने शक्त न अस्ति, (य) रस विना मन योजयितुं भवेत् । अतः सनिष्ठ. (साधक एव) रसम् अनुभवाय शक्यति । (यतो हि) सताम् मते निष्ठा रसस्य जननी (विद्यते) ।

**अर्थ**—ससार मे ऐसा कोई भी समर्थ पुरुष नहीं है, जो रस के बिना इस मन को अपने साथ लगाए रखे । अतः सश्रद्ध साधक ही रसका अनुभव करने के लिए समर्थ हो पायेगा । क्योंकि सन्तो के सिद्धान्त मे रस की जन्मदात्री श्रद्धा है ।

( १७ )

अतो मन पातुमिमं रसं प्रियम्, समीहते नित्यमिदं स्वभावतः ।  
परन्तु निष्ठा परमा वियोगिनी, रिरसुरेषा नितरा भ्रमत्यसौ ॥

**अन्वय**—अत इदं मन स्वभावतः इमं प्रियं रसं पातुं नित्यं समीहते । किन्तु असौ एषा रिरसुः निष्ठा परमा वियोगिनी सती नितरा भ्रमति ।

**अर्थ**—इसलिए यह मन स्वभाव के कारण इस प्रिय रस को पीने के लिए सदा लालायित रहता है । किन्तु वही यह रमणशील श्रद्धा एक वियोगिनी बनकर मारी-मारी फिरती है । अतः समय पर मन को रस नहीं मिल पाता तो यह भी विवश होकर चकराने लगता है । यह इसका व्यङ्ग्यार्थ है ।

( १८ )

रसं विना चञ्चलतामुपेत्य तत्, प्रयत्नमन्यं कुरुते यथास्थिति ।  
रसं प्रदातुं मनसे सुखार्थिनः, भवन्त्वतस्ते सततं समाहिता ॥

**अन्वय**—रसं विना तत् (मन) चञ्चलताम् उपेत्य यथास्थिति (रसं प्राप्तुम्) अन्यं प्रयत्नं कुरुते । अतः ते सुखार्थिनः मनसे रसं प्रदातुं सततं समाहिता भवन्तु ।

**अर्थ**—विना रस के वह मन अधीर होकर स्थिति के अनुसार रस की प्राप्ति के लिए दूसरा प्रयत्न करने लगता है । इस कारण से वे सुख के चाहने वाले अथवा कल्याणार्थी पुरुष मन को रस देने के लिए सदा सावधान रहें ।



( १९ )

अतो विकल्पान् परिहाय दूषितान्, सुकल्पमेकं सुरसे निमज्जितुम् ।  
निधाय चित्ते सततं भ्रमन्तु ते, न कोऽपि किञ्चित् प्रतिकर्तुमीहते ॥

अन्वय — अत दूषितान् विकल्पान् परिहाय सुरसे निमज्जितुम् एकं सुकल्प चित्ते निधाय ते सतत भ्रमन्तु, (यत तेषां) क अपि किञ्चित् प्रति-  
कर्तुं न ईहते ।

अर्थ—अत एव दूषित विकल्पो को छोड़कर सुरस मे डुवाने के लिए एक सुकल्प को हृदय मे रखकर वे आत्मकल्याणार्थी मदा घुमे, क्योंकि फिर उनका कोई भी कुछ विगाड करने का प्रयत्न नही करेगा ।

( २० )

समाप्य चित्तस्य विवादसंग्रहम्, मुनिप्रगल्भोऽन्यदिनस्य भाषणे ।  
अभीष्टचेष्टाघटनापटीयसम्, तमात्मकं ख्यातुमतो व्यकल्पयत् ॥

अन्वयः—चित्तस्य विवादसंग्रह समाप्य मुनिप्रगल्भ स. आचार्य. श्रीमान् अमरसिंह अत अन्यदिनस्य भाषणे तम् अभीष्टचेष्टाघटनापटीयसम् आत्मकम् आत्मान वा ख्यातुम् व्यकल्पयत् ।

अर्थ—जनता के चित्त की उलझनो को समाप्त कर मुनिश्रेष्ठ आचार्य श्री अमरसिंहजी महाराज ने अब दूसरे दिन के भाषण मे उस मन चाहे जैसे कार्य करने में अत्यन्त प्रवीण आत्मा को प्रकट करने के लिए इच्छा व्यक्त की ।

( २१ )

अतोऽद्य संसारविधानकारणम्, स्वभाव विद्योतितरत्नमेतकम् ।  
तमात्मनामानमहं सदातनम्, विचार चर्चाविषयीकृत ब्रुवे ॥

अन्वय — अतः अद्य अह विचारचर्चाविषयीकृत त संसारविधान-  
कारण स्वभावविद्योतितरत्नम् सदातनम् आत्मनामानम् एक ब्रुवे ।

अर्थ—इसलिए क्योंकि मैंने आज विचार की चर्चा का जो विषय नही था, फिर भी विषय मानकर, आज मैं उस संसार के बनाने के कारण, स्वभाव से चमकने वाले रत्न के समान अजर-अमर आत्मा जिगका नाम है, ऐसे एक को बताना चाहता हूं ।

( २२ )

अयं सदात्मा सकलैर्विबोधितः, सुविज्ञवर्ग्यैः प्रथमैर्मनीषिभिः ।  
तथापि युक्त्या विदितं स्वरूपिणम्, महान्तमात्मानमिमं समादधे ॥

अन्वयः—सदा प्रथमैः सकलैः सुविज्ञवर्ग्यैः मनीषिभिः अयम् आत्मा विबोधितः अस्ति, तथापि (अह) युक्त्या इमं स्वरूपिणं विदितं महान्तम् आत्मानम् समादधे ।

अर्थ—सदा पूर्व के सभी सुविज्ञो मे से भी सुविज्ञ विवेकियो ने इस आत्मा को समझाया है, तथापि मैं युक्ति के साथ इस विशिष्ट विख्यात महान आत्मा को समाहित किया चाहता हूँ ।

( २३ )

अयं विशुद्धः परमोऽतिनिर्मलः कषायरागादिभिरेव साविलः ।  
विकृत्य रूपं परिवर्त्ततेयदा, शरीरसंयोगजनुर्मलं यथा ॥

अन्वयः—अयं परम अतिनिर्मलः विशुद्धश्च आत्मा विद्यते, किन्तु कषायरागादिभिः एव (अयमात्मा) साविलः जायते, तदा विकृत्य रूपं परिवर्त्तते, यथा शरीरसंयोगजनुर्मलं भवति ।

अर्थ—यह परम अतिनिर्मल और विशुद्ध आत्मा है, किन्तु कषाय, राग, आदियो से आविल हो जाता है, तब विकृत होकर रूप बदलता है । जैसे शरीर के संयोग से पैदा होने वाला मल होता है ।

( २४ )

अयं सुकर्त्ता परमोविकर्त्तृकः, तथापि सारोपपरा इमे समे ।  
करौ, शरीरं, करणानि चादयः, मनः समेता हि विकारकारिणः ॥

अन्वयः—अयमात्मा सुकर्त्ता, परम विकर्त्तृकः (अपि) अस्ति । तथापि इमे सर्वे सारोपपरा करौ, शरीरं, करणानि चादयः विद्यन्ते । यतः इमे सर्वे मनः समेता हि विकारकारिणो भवन्ति ।

अर्थ—यह आत्मा महान कर्त्ता है और बड़ा उपद्रवी है । इतने पर भी यह समझना चाहिए कि ये सब विशेषण रस आत्मा के आरोप-परक हैं । क्योंकि यह वास्तव मे विशुद्ध है । जिस प्रकार मन के साथ मिलकर ही हाथ, शरीर और इन्द्रियाँ आदि विकार करने वाली हैं । वस्तुतः ये न विगाडते और न विगडते हैं । ठीक इसी प्रकार आत्मा की स्थिति है ।

( २५ )

पुनश्च मुक्तानवतारिणः समान्, वदन्ति ये ते भ्रमवादिनो जना ।  
न कर्ममुक्तो जनिमावलम्बते, यतो हि जन्मास्ति विकर्मण. फलम् ॥

अन्वय — आचार्य जनभ्रान्ति निरस्यति—पुनश्च कतिपये ये मुक्तान्  
अवतारिण समान् वदन्ति, ते जना भ्रमवादिन. (सन्ति) । यतो हि कर्म-  
मुक्तः (जीव ) जनिम् न आवलम्बते, जन्म तु विकर्मण फलम् अस्ति ।

अर्थ—आचार्यश्री जनभ्रान्ति को निरस्त करते हैं कि कुछ जो मुक्तो को  
अवतारी के समान वताते हैं, वे मनुष्य भ्रान्त हैं । क्योंकि कर्ममुक्त जीव जन्म का  
कमी आलम्बन नहीं करता, जन्म तो विकर्म का परिणाम है ।

( २६ )

अनादिकालात् समटन्त्यनेकश , नितान्तमात्मान इतस्ततः परे ।  
इतीदृशोऽसीमित सख्यका इमे, वदन्ति ते केवलिनो महाशया ॥

अन्वय.—अनेकश परे आत्मान अनादिकालात् इतस्तत नितान्त  
समटन्ति । ईदृश आत्मान इमे असीमितसख्यका (सन्ति) । इति ते महा-  
शया केवलिन वदन्ति ।

अर्थ—अनेकानेक अन्य आत्माएँ अनादिकाल से लेकर इधर-उधर सदा घूमती  
चली आ रही हैं । और ऐसी आत्माएँ ये असीमित सख्या की हैं—ऐसा वे महाशय  
जो केवलज्ञानी हैं, फरमाते हैं ।

( २७ )

अथापरस्मिन्दिवसे महागुरुः, जनानुपेतान् विपयानुसारिणम् ।  
क्रम समुल्लङ्घ्य सुबोधरीतित , सुयोगमाहागतजीवकर्मणो ॥

अन्वयः—अथ अपरस्मिन् दिवसे महागुरु अमरसिंहः विपयानुसारि-  
ण क्रमम् उल्लङ्घ्य उपेतान् जनान् सुबोधरीतित आगतजीवकर्मणो. सुयोगम्  
आह ।

अर्थ—तत्र फिर दूसरे दिन आचार्यश्री अमरसिंहजी महाराज ने विपया-  
नुमारी क्रम को छोड़कर आए हुए श्रावको को समझाने के लिए सुबोधरीति से, उत्पन्न  
जीव और कर्म के नुयोग की व्याख्या करने लगे ।

( २८ )

अयं हि जीव कुरुते शुभाशुभम्, स्वभावत कर्मफलं तथाप्नुते ।  
इद महाश्चर्यकर तु दृश्यते, कृतेऽशुभे कर्माणि चेष्यते शुभम् ॥

अन्वयः—जीव हि अयम् शुभाशुभम् कुरुते, स्वभावत च जीव कर्म-फलम् (अपि) तथा (एव) आप्नुते । किन्तु इद महाश्चर्यकर दृश्यते, यत् (जीवेन) अशुभे कर्माणि कृते सति शुभम् (फलम्) इष्यते ।

अर्थ—यह जीव ही शुभ-अशुभ कर्म करता है और स्वभाव से जीव भी वंसा ही कर्मफल भोगता है । किन्तु यह महाश्चर्यकर हो ऐसा दिखता है कि जीव के द्वारा अशुभ कर्म किए जाने पर शुभ फल चाहता है ।

( २९ )

न कर्म तं प्रेरयति स्वतो विधिम् विधातुमात्मानमिमं सदातनम् ।  
स कर्मबद्धः शुभमेव वाऽशुभं, विधिं विधातुं जगति प्रवर्त्तते ॥

अन्वयः—कर्म तम् इमं सदातनम् आत्मान स्वत विधिं विधातु न प्रेरयति, किन्तु स कर्मबद्ध आत्मा जगति शुभ व अशुभविधि विधातु प्रवर्त्तते ।

अर्थ—कर्म उस सदातन आत्मा को अपनी ओर से क्रिया करने के लिए प्रेरणा नहीं देता, किन्तु वह कर्मबद्ध आत्मा ससार मे शुभ अथवा अशुभ क्रिया करने के लिए प्रवृत्त होता है ।

( ३० )

अतोऽयमर्थो भवति प्रभावितः, शुभाशुभैरेव हि कर्मपुद्गलैः ।  
युतो भवञ् जीव इति स्वयं तत, सुखी च दुःखी परिणाममेत्यसौ ॥

अन्वयः—अत अयम् अर्थ प्रभावित भवति, यद्धि शुभाशुभै कर्म-पुद्गलै युत भवन् जीव तत असौ 'अह सुखी वर्त्ते च अह दुःखी वर्त्ते' इति परिणामम् एति ।

अर्थ—इससे यह अर्थ सिद्ध हुआ कि शुभ और अशुभ कर्मों के पुद्गलों से युक्त हुआ जीव खुद 'मैं सुखी हूँ और मैं दुःखी हूँ' ऐसा परिणाम प्राप्त करता है ।

( ३१ )

यथा हि जीवा विविधा इमे समे, महाविचित्रा प्रकृतिश्च निश्चिता ।  
तथा तु कर्माणि समान्यनादयः, विकल्पमेवा नहि जैनशासने ॥

अन्वयः—यथा हि इमे समे विविधा. जीवा. अनादयः वर्तन्ते तथा  
तु च महाविचित्रा निश्चिता प्रकृति. अनादि, समानि कर्माणि च अनादीनि  
वर्तन्ते । जैनशासने एवा प्रकृति-कर्म-जीवानाम् (अनादिस्थितौ) विकल्प नहि  
(अस्ति) ।

अर्थ—जिस प्रकार से ये सब अनेक जीव अनादि है, तो ठीक यह महाविचित्र  
विद्वान्त सिद्ध प्रकृति भी अनादि है और सभी कर्म अनादि ही हैं । जैन शासन मे इन  
प्रकृति, कर्म और जीवो की अनादि स्थिति मे कोई विकल्प नही है ।

( ३२ )

कपाययोगावथ कर्ममूलकी, यदात्मना सार्धमथानयोर्द्वयोः ।  
समागमोऽय प्रथितः स बन्धकः, कषायिनोऽन्ये गणितादस्तदन्यत् ॥

अन्वयः—कपाययोगीकर्मबन्धस्य हि मूलम् स्तः, यदा आत्मना सार्धम्  
अनयोः द्वयोः कपाय-योगयोः समागम (भवति), अय सः एव बन्धकः बन्ध  
एव वा प्रथित विद्यते । कषायिनः (अपि) अन्ये गणिता. सन्ति तदन्यत्  
अस्ति ।

अर्थ—कपाय और योग ये दोनो बन्ध की मूल है । जब आत्मा के साथ  
कपाय और योग इन दोनो का समागम होता है, तब वही बन्ध कहा जाता है ।  
कपायी भी गिने हुए हैं, किन्तु वह अभी प्रतिपाद्य नही है ।

( ३३ )

अयं सदात्मा सकलैः समन्वितैः, सुदर्शन-ज्ञानचरित्रकर्मभिः ।  
विमुच्यतेऽतः श्रमणा इमे समे, निरन्तर ता त्रितयीमुपासते ॥

अन्वय — सकलैः समन्वितैः सुदर्शन ज्ञानचरित्रकर्मभिः. अयम् आत्मा  
सदा विमुच्यते । अतएव इमे समे श्रमणा. ता त्रितयीम् निरन्तरम् उपासते ।

अर्थ—गभी सम्मिलित सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक्चरित्रकर्मों  
से यह आत्मा शुद्ध हो जाती है । इसीनिमित्ते ये सब श्रमणजन उस त्रितयी की निरन्तर  
उपासना करते हैं ।

( ३४ )

ततः प्रशस्तोज्ज्वलकीर्त्तिमण्डलम्, समे जना दर्शनलाभलालसाः ।  
मुनिं समावृत्य गुणान् जिघृक्षवः, स्तुवन्ति देवेन्द्रमिवेन्द्रवन्दिनः ॥

अन्वयः—तत समे दर्शनलाभलालसा गुणान् जिघृक्षवः जनाः प्रशस्तोज्ज्वल कीर्त्तिमण्डल मुनिम् आचार्यम् अमरसिंहम् समावृत्य इन्द्र-वन्दिन इव देवेन्द्रं स्तुवन्ति ।

अर्थ—आचार्यश्री के उपदेश समाप्त होने पर—समी दर्शन के लाभ की इच्छा रखने वाले गुणों के जिघृक्षु श्रावकजन पवित्र कीर्त्ति से व्याप्त मुनि आचार्य श्रीमान् अमरसिंहजी महाराज को घेर कर इन्द्र के वन्दियों के समान देवेन्द्र की स्तुति करने लगे ।

( ३५ )

रसस्य विस्तारवती सरस्वतीम् ,  
प्रवाहयन्ति श्रुतितत्त्ववेदिन ।  
अह यदास्याः पयसो जिघृक्षया ,  
स्खलामि तस्यां कवयो हसन्ति ते ॥

अन्वयः—श्रुतितत्त्ववेदिन कवय रसस्य विस्तारवती-सरस्वती प्रवाहयन्ति, यदा अह अस्याः सरस्वत्या पयसो जिघृक्षया अस्मि तदा तस्या स्खलामि, अतः ते हसन्ति ।

अर्थ—श्रुति के तत्त्व के वेत्ता कविजन रस की विस्तारवती सरस्वती, बहाने लगे । जब मैं इस सरस्वती के जल को लेने की इच्छा से तैयार होता हूँ, तब उस सरस्वती में खिसल पड़ता हूँ, इससे वे हँसते हैं ।

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
उपाध्याय पदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
श्रीमदाचार्यमिरसिंह महाकाव्ये  
सप्तम सर्गः

## अष्टमः सर्गः

( १ )

सदोरकर्णाश्रितपत्तिमन्मुखम्, गुरुं तमूर्णौ घघराधिकन्धरम् ।  
तडिच्छटाक्षुण्णपटीविशेषया, विभान्तमेनं मुनयो नमन्ति ते ॥

अन्वयः—तम् ऊर्णौ घघराधिकन्धर सदोर - कर्णाश्रितपत्तिवन्मुख  
तडिच्छटाक्षुण्णपटीविशेषया, विभान्तम् एन गुरु ते मुनय. नमन्ति ।

अर्थ—उन ऊन के ओघ को रखने वाले साधन को कन्धरा पर धारण कर  
रखा है जिन्होंने ऐसे, डोरे के साथ कर्णों से आश्रित पत्ति वाला है मुख जिनका ऐसे,  
विजली की छटा निरन्तर स्थिर हो पछेवडी से चमकते हुए इन गुरुदेव को वे मुनिजन  
जो आपत्री के शिष्य हैं, वन्दना करने लगे ।

( २ )

ततः क्रियां नित्यविधिप्रतिष्ठितां, प्रलेखनां कर्तुमिमां प्रवर्त्तते ।  
तथा मुनीश्चापि यथोदितामसौ, विशेषत प्रेरयितुं मुनीश्वरः ॥

अन्वयः—तत असी मुनीश्वर नित्यविविप्रतिष्ठिता क्रिया प्रले-  
खनाम् इमा कर्तुं तथा च मुनीन् यथोदिता कर्तुम् विशेषत प्रेरयितु  
प्रवर्त्तते ।

अर्थ—तदनन्तर वे आचार्यश्री नित्यविवि के रूप से प्रतिष्ठित क्रिया प्रले-  
खना को करने के लिए, तथा और मुनियों जैसा कि कहा गया है, करने के लिए  
विशेषतः प्रेरित करने के लिए प्रवृत्त हुए ।

( ३ )

प्रलेखनान्ते समयेन भाविनीम्, असौ विधातुं ननु वाह्यभूमिकाम् ।  
मुनीन् समाहूय विनोदयन्मुनि, प्रयातुमिच्छासदृश तदुक्तवान् ॥

अन्वयः—प्रलेखनान्ते असी मुनि समयेन भावनी वाह्यभूमिका  
विवातु मुनीन् समाहूय ननु इच्छासदृश प्रयातु तत् विनोदयन् उक्तवान् ।

अर्थ—प्रलेखना के बाद उन मुनि महाराज ने समय से होने वाली वाह्य  
भूमिका को करने के लिए मुनियों को बुलाकर अब इच्छानुसार जाने के लिए  
(तैयार हो जाइये) यदि शक्का हो तो, ऐसा विनोद करते हुए ।

सर्गेऽन्मन्नपि 'वशस्या' एवास्ति । लक्षण तृक्तमेवपूर्वम् ।

( ४ )

उपस्थितानानयितुं मुनीनयम्, प्रवर्त्तयन् वाचमवोचदालयान् ।  
तदा हि प्राप्तुं प्रतियन्तु गोचरीम्, विकीर्णकेशच्छुरितामलच्छवि ॥

अन्वयः—तदा विकर्णकेशच्छुरितामलच्छवि अयम् आचार्यं. उपस्थितान् मुनीन् प्रवर्त्तयन् गोचरीम् आनयितुम् आलयान् प्राप्तुं प्रतियन्तु हि वाचम् अवोचत् ।

अर्थ—तब उपस्थित मुनियो को प्रवृत्त करते हुए, विखरे से केशो की छिटकती हुई स्वच्छ छवि वाले इन आचार्यश्री ने गोचरी लाने के लिए घर-घर पहुँचने को जाइये, इस प्रकार वात कही ।

( ५ )

गृहं गृहं यन्ति यथाप्रकल्पितम्, विधातुमिच्छासदृशी च गोचरीम् ।  
विधाय सर्वे मुनयो यथाव्रतम्, इमामि मे ते प्रतियन्त्युपाश्रयम् ॥

अन्वयः—ते सर्वे मुनय यथा प्रकल्पित इच्छासदृशी च गोचरी विधातु गृहं गृहं यन्ति, इमे मुनय. इमा गोचरी यथाव्रतम् विधाय उपाश्रयम् प्रतियन्ति ।

अर्थ—गुरुदेव के आदेश से वे सब मुनिजन प्रकल्पित के अनुसार इच्छा नुकूल गोचरी करने को घर-घर पहुँचते हैं । ये मुनिजन गोचरी को व्रत के अनुसार कर उपाश्रय लौटते हैं ।

( ६ )

उपाश्रय प्राप्य नता इमे समे, धरन्ति पात्राणि गुरोस्तदान्तिके ।  
मुनीश्वरस्तान्यवलोक्य सस्मितम्, पुनर्गुस्तानशितुं समुक्तवान् ॥

अन्वय —तदा उपाश्रय प्राप्य इमे समे नता मुनय गुरोः अन्तिके पात्राणि धरन्ति । पुन मुनीश्वर गुरु तानि पात्राणि सस्मितम् अवलोक्य तान् मुनीन् अशितुं समुक्तवान् ।

अर्थ—तब उपाश्रय पहुँचकर ये सब तत्र मुनिजन गुरु पास मे अपने पात्रो को रख देते हैं । फिर आचार्य गुरुदेव ने उन पात्रो को मुस्कान के साथ देखकर उन मुनियो को अशानार्थ आदेश किया ।



( ७ )

ततो दिनान्ते समये प्रतिक्रमम्, विधि विधातु समुपस्थिता इमे ।  
कृते विधौ ते मुनयः सुभावत, गुरुं महात्मानमिमं व्युपासते ॥

अन्वयः—तत इमे मुनय दिनान्ते समये प्रतिक्रम विधि विधातु समुपस्थिता (अभवन्) । विधौ कृते सति ते मुनय सुभावत इम महात्मान गुरु व्युपासते ।

अर्थ—तदनन्तर दिनान्त समय पर ये मुनिजन प्रतिक्रम (प्रतिक्रमण) विधि का सम्पादन करने के लिए उपस्थित हुए । प्रतिक्रमण के समाप्त होने पर वे मुनिजन श्रद्धा से इन महात्मा गुरुदेव की विशेष उपासना करने लगे ।

( ८ )

विशिष्ट सेवासमये महाशया, गुरोः सकाशे विविधाशयाश्रयाम् ।  
अशोषशङ्का शमनाय मानसीम्, विरोधिशङ्कामधिगन्तुमीशते ॥

अन्वय — महाशया (मुनय) विशिष्ट सेवासमये अशोषशङ्काशमनाय गुरो सकाशे मानसी विविधाशयाश्रया विरोधिशङ्काम् अधिगन्तुम् ईशते ।

अर्थ—गम्भीर हृदय के मुनिजन विशिष्ट सेवा के समय पर सम्पूर्ण सन्देहो को शान्त करने के लिए गुरुदेव के पास में मन में सम्बन्ध रखने वाली अनेक अभि-प्राय हैं आश्रय जिसके विरोधियों की शङ्का को समझने के लिए समर्थता प्राप्त करते हैं ।

( ९ )

ततश्शयान श्रुतिशेषमुषापति, विरोधिशङ्काशमनाय सुन्दरम् ।  
विचाररत्नं सकलं प्रदेवितुम्, मुनीशवर्यो निकषं व्यबोधयत् ॥

अन्वय — तत शयान श्रुतिशेषमुषापति मुनीशवर्यं विरोधिशङ्का-शमनाय सुन्दर सकल विचाररत्न-प्रदेवितु निकषम् व्यबोधयत् ।

अर्थ—तदन्तर पीढे हुए श्रुतिबुद्धि के स्वामी आचार्य महाराज ने विरोधियों के सन्देहो को शान्त करने के लिए सुन्दर कलाधो के साथ विचार रूपी रत्न को उज्ज्वल करने के लिए कमीटी बतादी ।

( १० )

विलक्षण तं निकषं विबुध्यते, निषेदिवासोऽतिशयं व्यलासिपुः ।  
परस्परं नाम हसन्ति सस्मयम्, कियन्महत्त्वं परम हि नो गुरोः ॥

अन्वय—ते मुनय त विलक्षण निकष विबुध्य निषेदिवास सन्त  
अतिशय व्यलासिपु । (ते च मुनय ) परस्पर-सस्मय हसन्ति, यत् न. गुरोः  
हि कियत् परम महत्त्व नाम ।

अर्थ—वे मुनिजन उस अनोखी कसौटी जानकर बैठे-बैठे अतिशय की चर्चा  
कर उठे । और वे ही मुनिजन मुस्कान के साथ परस्पर मे हँसने लगे कि हमारे  
गुरुदेव का कितना बड़ा महत्त्व है । जिसको हम अब तक नहीं समझ पाए, यह  
व्यङ्ग्यार्थ है ।

( ११ )

अहर्निशं सयमिना सतामिमम् क्रमं निरीक्ष्यातिशयं शरीरिणाम् ।  
समे परं विस्मितमानसा इमे, जना प्रशसन्ति जिनेन्द्रशासनम् ॥

अन्वय.—शरीरिणा सयमिना सताम् अहर्निशम् इमम् अतिशय क्रम-  
निरीक्ष्य इमे समे विस्मितमानसा. जना जिनेन्द्रशासन परप्रशसन्ति ।

अर्थ—शरीरधारी सयमी सन्तो के रात-दिन इस अतिशय क्रम को देखकर  
ये सब आश्चर्यचकित मनुष्य जिन भगवान् के प्रज्ञप्त धर्म की प्रशंसा करते हैं और  
कहते हैं कि धर्म हो तो ऐसा (धर्म) हो ।

( १२ )

इदं महाश्चर्यकरं सुजीवनम्, यशश्च दिल्लीप्रतिसद्म विस्तृतम् ।  
प्रसङ्गशङ्काङ्कुरयुक्तिमद्वच, जनायथेच्छं कथयन्ति चानिशम् ॥

अन्वयः—इदं महाश्चर्यकरं सुजीवनम्, यशश्च दिल्लीप्रतिसद्म विस्तृत  
जातम् । जना च यथेच्छं प्रसङ्गशङ्काङ्कुरयुक्तिमत् वच अनिश कथयन्ति ।

अर्थ—यह मुनिजन-सम्बन्धी अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रशस्त जीवन और यश  
दिल्ली नगर के घर-घर में फैल गया । और जनता क्रम से सन्देह पर सन्देह जोड़े  
हुए कथानक इच्छानुसार हमेशा सुनाने लगे ।

( १३ )

यदा समेषा विषयीभवन्नयम्, महामुनिर्गौरव-सौरभं वहन् ।  
तदाऽनुभूतो यवनाधिभूता, बहादुरेणावगतश्च संश्रुतः ॥

अन्वयः—गौरव-सौरभ वहन् यदा समेषा विषयीभवन् अय महामुनि (अभवत्) । यदा यवनाधिभूता बहादुरेण (अपि) अयम् अनुभूत, अवगतः सश्रुत च जात ।

अर्थ—गौरव की सुगन्ध को वहन करते हुए जब सभी के विषय जैसे वने ये आचार्यजी महाराज मुगल बादशाह बहादुरशाह के द्वारा भी आपश्री अनुभूत, अवगत और सश्रुत हुए ।

( १४ )

तदायमासीच्च बहादुरोऽधिप तनूजनेर्गर्भकथाव्यथाधर ।  
अतो महाक्रोधवशेन तेन सा, तनूजनिर्मृत्युपथाय कल्पिता ॥

अन्वय —तदा च अयम् अधिप बहादुर तनूजने गर्भकथा व्यथाधर आसीत् । अत महाक्रोधवशेन तेन बहादुरेण सा तनूजनि मृत्युपथाय कल्पिता (अभवत्) ।

अर्थ—और उस समय यह बादशाह बहादुरशाह पुत्री के गर्भ की कहानी की व्यथा को धारण किए हुए था । इसमे अत्यन्त क्रोध के अधीन हुए उस बहादुरशाह ने उस पुत्री को मृत्युदण्ड सुना दिया था ।

( १५ )

अनेक यत्नैरवबोधितोऽप्यसौ, दृढोऽभवद् दण्डमिमं व्यवस्थितुम् ।  
तदा स्थितोऽयं निकषा बहादुरम्, न्यवेदयत्त खिवसी महोदय ॥

अन्वयः—(यदा) असौ अनेकयत्नै अवबोधितः अपि इम दण्ड व्यवस्थितु दृढ अभवत् । तदा बहादुर निकषा स्थित अय खिवसीमहोदय त बहादुरशाह न्यवेदयत् ।

अर्थ—वह अनेक यत्नो से समझाया-बुझाया हुआ भी इस मृत्युदण्ड की व्यवस्था करने के लिए जब दृढ रहा, तब बहादुरशाह के पास बैठे हुए दीवान खिवसीजी ने उस बहादुरशाह से निवेदन किया ।

( १६ )

प्रसिद्धभण्डारिकुलावतंसक , महीभृतो योधपुरस्य कारणात् ।  
अय प्रमन्त्री खिवसी महोदय , बहादुरं सम्मिलितु तदागमत् ॥

अन्वयः—तदा अय प्रसिद्ध भण्डारिकुलावतंसक प्रमन्त्री खिवसी-  
महोदय जोधपुरस्य महीभृतो कारणात् बहादुर सम्मिलितु आगमत् ।

अर्थ—तब उस समय ये प्रसिद्ध भण्डारी कुल के भूषण दीवान श्री खिवसीजी  
जोधपुर के महाराज की वजह से बहादुरशाह से मिलने के लिए आए थे ।

( १७ )

बहादुरं तं युवतिद्वयेऽप्यसौ, रिरंसुके गर्भं उपात्तविग्रहः ।  
भवत्यहो मे गुरुदेव उक्तवान्, निवेदयन्नेवमभाषतेति स ॥

अन्वय —रिरंसुके युवतिद्वये सति असौ उपात्तविग्रह गर्भं अपि  
भवति एवम् अहो मे गुरुदेव उक्तवान् इति निवेदयन् स खिवसीमहोदय त  
बहादुरम् अभाषत ।

अर्थ—कामार्त्तं युवतिद्वय के होने पर यह शरीरधारी गर्भ भी होता है, इस  
प्रकार अहो मेरे गुरुदेवश्री ने फरमाया है—ऐसा निवेदन करते हुए उन खिवसीजी  
ने उस बहादुरशाह से कहा था ।

( १८ )

अथेति सत्यं यदि ते भवेदिदम्, तदादिशत्सोऽविरतं प्रतीक्षताम् ।  
वध सुतायाः कृमिजं परीक्षितुम्, किमेति तथ्यं वचसश्च ते गुरो ॥

अन्वय —अथ ते इद सत्य यदि भवेत् तदा स सुतायाः वधम् अविरतं  
प्रतीक्षताम् इति कृमिजं गर्भं परीक्षितुम् आदिशत् । ते गुरो च वचसः किं  
तथ्यम् एति ।

अर्थ—यदि कही तेरा यह सत्य हो—इस आशङ्का से उस समय उस बहादुर-  
शाह ने पुत्री के कत्ल की अब प्रतीक्षा करो—ऐसा कृमिजं गर्भ की परीक्षा करने के  
लिए, आदेश किया और तेरे गुरु के वचन का क्या तथ्य प्राप्त होता है ? यह भी  
ज्ञात हो जायेगा यह व्यङ्ग्यार्थ है ।

( १९ )

तथेति काले विगते यथोदितम्, गुरोर्वचः सत्यमियाय साम्प्रतम् ।  
यतो हि सर्वे स बहादुरैर्जनैः, निरीक्षितो राजसगर्भजः स्वयम् ॥

अन्वय.—विगते काले गुरो यथोदित वच साम्प्रत सत्यम् डयाय ।  
यतो स बहादुरै सर्वै जनै स्वय राजसगर्भज इति तथा निरीक्षित ।

अर्थ—समय बीतने पर गुस्देव के कथनानुमार बात अब सत्य हुई । क्योंकि बहादुरशाह के साथ सभी मनुष्यों ने स्वय रज के गर्भ से पैदा ऐसा बताया हुआ देखा ।

( २० )

अतः स्वयं तद्वचसो यथायथम्, प्रभावमन्तकरणे निधाय स ।  
बहादुरोऽसौ खिवसीसहायितः ददर्श देवेन्द्रगुरुं तदामरम् ॥

अन्वयः—अत स्वयं तद्वचस यथायथ प्रभावम् अन्तकरणे निधाय  
तदा स असौ खिवसीसहायित बहादुर देवेन्द्रगुरुम् अमर ददर्श ।

अर्थ—इसलिए स्वय उनके वचन के यथार्थ प्रभाव को अन्त करण में रखकर  
तब खिवमीजी के नाथ वही यह बहादुरशाह देवेन्द्र के गुरु अमरसिंहजी महाराज  
को देखने पहुँचा ।

( २१ )

दयानिधानं यशसोऽमलच्छविम्, विकारगम्भीरसमुद्रमज्जितम् ।  
जनोधमुत्तारयितुं धृतव्रतम्, तदानमत्तं मुनिपुङ्गवं नृपः ॥

अन्वय —तदा नृप बहादुरशाह त दयानिधान यशस अमलच्छर्वि  
विकारगम्भीरसमुद्रमज्जित जनोधम् उत्तारयितु धृतव्रत मुनिपुङ्गवम्  
अनमत् ।

अर्थ—तब राजा बहादुरशाह ने उस परम दयालु, यश की पवित्र मूर्ति,  
विकार के गम्भीर समुद्र में डूबे हुए जनसमुदाय को पार उतारने के लिए व्रत धारण  
करने वाले आचार्यश्री अमरसिंहजी महाराज को नमस्कार किया ।

( २२ )

महामुनीन्द्रादमरादिहागतात्, तदायमात्मानमुपेत्य शिष्यताम् ।  
उपस्थिते सन्मुनिमण्डलेऽमले, गुरोर्हि भक्तं समघोषयत् स्वयम् ॥

अन्वय — इह आगतात् महामुनीन्द्रात् अमरात् शिष्यताम् उपेत्य तदा उपस्थिते अमले सन्मुनिमण्डले अयम् आत्मान गुरो भक्त स्वयं हि सम-घोषयत् ।

अर्थ—यहाँ पधारे हुए आचार्य श्री अमरसिंहजी महाराज से शिष्यता प्राप्त कर तब उपस्थित पवित्र सन्मुनिमण्डल के रहते हुए इस बहादुरशाह ने अपने आपको गुरुदेव का भक्त स्वयं ही घोषित किया ।

( २३ )

तदा दयालुमुनिपुङ्गवोऽधिपम्, बहादुर पृच्छति धर्ममङ्गलम् ।  
नृप. प्रसन्नो दयया मुनेरिमम्, गुरुं समादेशयितु न्यवेदयत् ॥

अन्वय — तदा दयालु मुनिपुङ्गव अधिप बहादुर धर्ममङ्गल पृच्छति । मुने दयया प्रसन्न नृप. इमं गुरुं समादेशयितु न्यवेदयत् ।

अर्थ—उस समय दयालु आचार्यश्री ने राजा बहादुरशाह से धर्म-मङ्गल की पूछताछ की । मुनि की दया के कारण प्रसन्न हुए राजा ने आदेश करने के लिए निवेदन किया ।

( २४ )

सदाप्रसन्नेन सतामुना हृदा, बहादुरोऽयं दयितुं च जीवितम् ।  
प्रजाजनं धर्मपथेन सेवितुम्, प्रणोदितोऽभूद् भृशमानतस्ततः ॥

अन्वयः—ततः अमुना सदा प्रसन्नेन सता भृशम् आनत बहादुर जीवितं हृदा दयितुं प्रजाजनं च धर्मपथेन सेवितुं प्रणोदित अभूत् ।

अर्थ—तदनन्तर इन सदा प्रसन्न सन्त के द्वारा परमविनीत यह बहादुरशाह जीवित पर दया रखने के लिए और प्रजा को धर्म के मार्ग से पालने के लिए प्रेरित हुआ ।

( २५ )

गुरोर्यथादेशमह यथायथम्, विधातुमेवं प्रयतेय शासने ।  
विना निदेशं यदि राज्यशासने, हस्तस्य न क्षेपमहं सहे पुन ॥

अन्वयः - अह गुरो यथादेश विधातु शासने यथायथम् एव प्रयतेय ।  
यदि राज्यशासने निदेश विना (हस्तक्षेपो भवति), तदा अह पुन. हस्तस्य  
क्षेप न सहे ।

अर्थ—मैं गुरुदेव के आदेश के अनुमार करने के लिए शासन म जैसा चाहिए  
वैसा ही प्रयत्न करूँगा । यदि राजा के शासन मे विना निदेश के हस्तक्षेप होता है,  
तब मैं उस हस्त के क्षेप को नही सह सकता ।

( २६ )

अयं हि भण्डारिपदाभिशांसितः, ततः प्रसङ्गानुमितेन चेतसा ।  
गुरोर्मरु' देशमितः प्रतीरणम्, व्यजिज्ञपत्तं पृथिवीपुरन्दरम् ॥

अन्वय.—तत प्रसङ्गानुमितेन चेतसा भण्डारिपदाभिशांसितः अय  
खिवसी महोदय , इत गुरो ईरणम् मरु देश प्रति भविष्यति इति त पृथिवी-  
पुरन्दर व्यजिज्ञपत् ।

अर्थ—तब फिर प्रसङ्ग से अनुमित चित्त से भण्डारिपदोक्त इन्ही खिवसीजी  
ने—यहाँ से गुरुजी का विहार मारवाड की ओर होगा ऐसा उम वादशाह बहादुरशाह  
को ज्ञात कराया ।

( २७ )

अतः प्रशासासहितेन चेतसा, समादिशत्त खिवसीमहोदयम् ।  
गुरो र्यदृच्छासहित व्यवस्थितुम्, मरोर्धराधीशमह स्वतोऽलिखम् ॥

अन्वयः—अत (स ) बहादुरशाह प्रशासासहितेन चेतसा त खिवसी  
महोदय समादिशत्—यत् अह स्वत मरो धराधीशम् गुरो यदृच्छासहित  
व्यवस्थितुम् अलिखम् ।

अर्थ—इसलिए उम बहादुरशाह ने मय प्रणमा के हृदय से उन खिवसीजी  
को सूचित किया कि गुरुदेव की मर्जी के साथ प्रवन्ध करने के लिए मैंने स्वयं मारवाड  
को लिख भेजा है ।

( २८ )

यथेच्छमिच्छुर्गमनस्य चेद् भवेत्, तदेव नेदं समभीप्सितं मम ।  
यतो हि सन्तः सततोपकारिण सदा सता दर्शनमिच्छवो वयम् ॥

अन्वय —अग्रेऽपि शाहस्त सूचयति—चेत् यथेच्छ गमनस्य गुरु इच्छु भवेत् तदा एव (अहमेतत्कर्तुमिच्छामि, किन्तु) इदं मम समभीप्सितं न (अस्ति) । यतो हि सन्तः सततोपकारिण भवन्ति, अतः वयं सदा तेषां सता दर्शनम् इच्छामः स्म ।

अर्थ—आगे भी बहादुरशाह सूचित करता है कि यदि इच्छानुसार पदार्पण के गुरुदेव इच्छुक हो, तभी मैं यह किया चाहता हूँ, किन्तु यह मेरा चाहा हुआ नहीं है । क्योंकि सन्त निरन्तर उपकारी होते हैं । अतः हम सदा उन सन्तों के दर्शनामिलापी रहते हैं ।

( २९ )

अतः स्थितिं दूरहितार्थसाधने, विचार्य मन्त्री खिवसीमहोदय ।  
विधौ गुरुं योजयितुं हिताय तम्, विनेतुमेव यतते निरन्तरम् ॥

अन्वयः—अतः स्थितिं विचार्य मन्त्री खिवसी महोदय दूरहितार्थ-साधने विधौ हिताय तं गुरुं योजयितुम् एव विनेतुं निरन्तरं यतते ।

अर्थ—इसलिए स्थिति को देखकर दीवान खिवसीजी साहब दूरगामी फल-वाले कार्य के लिए अपने गुरुदेव को योजित करने के लिए ऐसी विनति में ही लगे रहते थे ।

( ३० )

यतोऽपि सत्यं यदि वर्त्तते पुन, तथापि कार्यं समतीव दुष्करम् ।  
मरोर्धरायां यतय प्रपञ्चिनः, किमप्यपूर्वं तनुयुर्विडम्बनम् ॥

अन्वय —यदि अपि सत्यं वर्त्तते, तथापि कार्यं समतीव दुष्करम् अस्ति । यतः प्रपञ्चिनः यतयः मरोर्धरायां सन्ति, (ते) किमपि अपूर्वं विडम्बनं तनुयुः ।

अर्थ—यद्यपि सत्य है, तथापि कार्य बहुत ही कठिन है । क्योंकि प्रपञ्ची यतिजन मारवाड की भूमि पर रहते हैं । वे कुछ भी अपूर्वं विडम्बना फैला देंगे ।



( ३१ )

अथ प्रबन्धाय हितप्रयोजने, विहारकार्ये परमोपयोगिनम् ।  
पुनस्तमादेशमुपाय हेतुकम्, प्रलभ्य हर्षं भजते महोदयः ॥

अन्वयः—अथ हित प्रयोजने विहारकार्ये प्रबन्धाय त परमोपयोगिनम् उपायहेतुकम् आदेश प्रलभ्य पुन महोदय हर्षं भजते ।

अर्थ—वहादुरशाह के लिखित आदेश मिलने पर—हित-उपकार प्रयोजन वाले विहारकार्य के विषय में प्रबन्ध करने के लिए उम परम उपयोगी उपायरूप हेतु आदेश को प्राप्त कर फिर दीवान खिवसी महोदय प्रसन्न हुए ।

( ३२ )

यतो मरो ते यतयः प्रवञ्चका, विहारकार्ये दधति प्रसङ्कटम् ।  
असूचयत्तं खिवसीमहोदयम्, मुनिर्महानेवमिदं तु पूर्वतः ॥

अन्वय —यत् महान् मुनि एवम् इदं तु पूर्वतः तं खिवसी महोदयम् असूचयत् यत् मरो प्रवञ्चका यतयः विहारकार्ये प्रसङ्कटं दधति ।

अर्थ—क्योंकि पूज्य मुनि महाराज ने इस प्रकार यह तो पहले ही इस दीवान खिवसी को सूचित कर दिया था कि मारवाड़ में प्रवञ्चक यतिजन विहार-कार्य में महान् सकट पैदा करते हैं ।

( ३३ )

पुनश्च हस्तीकृत सन्नियोजनम्, प्रबन्धमभ्येत्य दुरूहनिग्रहम् ।  
पथा प्रयातु मरुदेशमुर्वरम्, धर्मं व्यवस्थापयितुं मुनिर्वर्धनी ॥

अन्वय —हस्तीकृत सन्नियोजन प्रबन्धम् अभ्येत्य पथा दुरूहनिग्रहं मरुदेश प्रयातुम् उर्वरं धर्मं व्यवस्थापयितुं मुनिं वर्धनी ।

अर्थ—हस्तगत किया है सुन्दर नियोजन जिसका ऐसे प्रबन्ध को अधिगत मार्ग में अतर्कित है निग्रह जिसका ऐसे मारवाड़ देश को पहुँचाने के लिए उपजाऊ धर्म को व्यवस्थित करने के लिए मुनिश्री दमक उठे ।

( ३४ )

भ्रान्तं तथापि महिमानमुपेयिवांसम् ,  
 जैन जन निगदितुं मुनय परे ते ।  
 सन्तीति त मुनिजनेषु परोऽहमेकः ,  
 शक्नोमि तत्किमपि वक्तुमल परेण ॥

अन्वयः—‘ते परे मुनय सन्ति’ इति मुनिजनेषु पर एक अहम् त भ्रान्त तथापि महिमानम् उपेयिवास जैन जन निगदितु शक्नोमि, तत् किं परेण अपि वक्तुम् अलम् ।

अर्थ—‘वे दूसरे मुनिजन हैं’ ऐसा मुनियो मे एक ही हूँ, जो उस भ्रान्त इतने पर भी प्रसिद्ध जैन जन को कहने के लिए समर्थ हूँ । क्या वह दूसरे भी कहा जा सकता है । अर्थात् नहीं ।

( ३५ )

लोका दिगम्बरमुनि धृतशुक्लवस्त्रम् ,  
 जानन्त्यपि प्रतिमुनि न पर तमन्यम् ।  
 साधोरुपासकमिमां श्रितवक्त्र-पत्तिम् ,  
 जानन्तु तं मुनिरह प्रयते सरौ ते ॥

अन्वय —लोका दिगम्बर मुनि जानन्ति, धृतशुक्लवस्त्र मुनिम् प्रति अपि जानन्ति, (किन्तु) त धृतशुक्लवस्त्रम् अन्यम् श्रिततुण्डपत्ति साधौ उपासकम् इम पर मुनि न जानन्ति । मुनिः अह सरौ त मुनि ते लोका जानन्तु’ (इति) प्रयते ।

अर्थ—मनुष्य दिगम्बर मुनि को जानते हैं, शुक्लवस्त्रधारी मूर्त्तिपूजक मुनि को भी जानते हैं, किन्तु उस शुक्ल वस्त्रधारी दूसरे मुखपति वाले श्रमणोपासक इस दूसरे अर्थात् विशिष्ट मुनि को नहीं जानते । मुनि अमरसिंह में ‘मारवाड मे भी उस मुनि को वे मनुष्य जानें’ ऐसा प्रयत्न करता हूँ ।

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
 उपाध्याय पदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
 श्रीमदाचार्यामरसिंह महाकाव्ये

अष्टम सर्गः



## नवमः सर्गः

( १ )

ये सन्ति देवसदृशो गरिमाणमाप्तम् ,  
धर्मं प्रतिष्ठितमरे लघिमानमन्ये ।  
प्राप्तुं चरन्ति विकृतान् यतिनो जनास्तान् ,  
रोद्धुं कृतोद्यमसमांस्तु मुनीन् नमामि ॥

अन्वय — ये देवसदृश सन्ति, ( ते मुनय ) गरिमाणम् आप्त प्रतिष्ठित धर्मं प्राप्तु चरन्ति, अरे अन्ये यतिन तु ( तमेव ) धर्म लघिमान प्राप्तु चरन्ति । तान् विकृतान् यतिन जनान् रोद्धु ये कृतोद्यमसमा मुनय. सन्ति, तान् देवसदृश कृतोद्यमसमान् मुनीन् ( पुष्कर मुनि ) अह नमामि ।

अर्थ—जो देवों के समान हैं, वे मुनिजन गौरवापन्न प्रतिष्ठित धर्म को प्राप्त करने के लिए आचरण करते हैं, दु ख है कि दूसरे यतिजन तो उसी धर्म को लाघव प्राप्त हो, ऐसा आचरण करते हैं, ऐसे उन विकृत यतिजन को रोकने के लिए जो कृतोद्यम सदृश मुनिजन रहे, ऐसे उन देवतुल्य कृत प्रयत्न जैसे मुनियों को ( पुष्कर मुनि ) मैं प्रणाम करता हूँ ।

( २ )

आसीदसौ जयपुरस्य कथानकेन ,  
लोकेऽपि सिद्ध इव भूमिगतः प्रतीतः ।  
भक्ता इमं त्वमरसिंहं मुनिं मुनीशम् ,  
नन्तुं गुरोश्चरणयो समुपागमंस्ते ॥

अन्वयः—लोके जयपुरस्य कथानकेन अपि भूमिगत सिद्ध इव असौ प्रतीत आसीत् । ते भक्ता तु गुरो चरणयो नन्तुम् इम मुनीशम् अमरसिंह मुनि समुपागमन् ।

अर्थ—ममार मे जयपुर के कथनोपकथन से भी भूमि पर पधारे हुए सिद्ध के समान जान लिए गये थे । वे भक्त तो गुरुदेव चरणों मे प्रणाम करने के लिए इन आचार्यश्री अमरसिंहजी के पास पहुँचे थे ।

सर्गेऽस्मिन् 'धमन्ततिलका त्मी जी गी ।'

( ३ )

जातो महान् जयपुरे पटवाकुलीनः ,  
 श्रीरङ्गलालधनिकः कुरुते प्रतिज्ञाम् ।  
 द्रव्यस्य संग्रहमतस्त्वधिकं न कुर्याम् ,  
 सीमां तदा पुनरयं यतते निकृष्टाम् ॥

अन्वयः—जयपुरे जात. पटवाकुलीन महान् श्रीरङ्गलालधनिक प्रतिज्ञा कुरुते यद् (अहं) तु द्रव्यस्य संग्रहम् अधिकं न कुर्याम् । अतः तदा अयम् (द्रव्यस्य) पुनः सीमा निकृष्टा यतते ।

अर्थ—जयपुर में उत्पन्न हुए पटवा वंश के बड़े धनी श्री रंगलालजी ने प्रतिज्ञा की कि गुरुदेव ! अब मैं तो धन का संग्रह अधिक नहीं करूँगा । इसलिए ये द्रव्य की सीमा बहुत कम करने का प्रयत्न करने लगे ।

( ४ )

बोध्योऽभवन्ननु पुनर्मुनिनामुनासौ ,  
 द्रव्यस्य संग्रहमिमां ननु शोचय त्वम् ।  
 यस्माददः समधिकं धनमेतदेवम् ,  
 दानेऽधिकं पुनरतो व्ययमेतु नित्यम् ॥

अन्वयः—पुनः अमुना मुनिना असौ धनिक श्रीरंगलाल बोध्यः अभवत्, यत्ननु त्वम् इमं द्रव्यस्य संग्रहं शोचय । सीमां सकुचितां न कुर्या इत्यर्थः । यस्मात् अदः समधिकं धनं (भवेत्) अतः एवम् एतत् धनं दाने अधिकं व्ययम् नित्यं पुनः एतु ।

अर्थ—सेठजी के भाव को समझे हुए उन मुनि महाराज के द्वारा उनको समझाया गया कि तुम इस द्रव्य के संग्रह की सीमा सोच लो । जिससे कि यदि यह धन अधिक होगा तो फिर वह दान आदि में दिया जा सकेगा और पुण्य का कार्य चलता रहेगा ।

( ५ )

सर्वे तदानुभविनोऽस्य महामुनेस्ते ,  
 संवीक्ष्य तस्य विभव क्षणशोविवृद्धम् ।  
 श्री रंगलालधनिकस्य मनोरहस्यम् ,  
 सीमाभि-भंग करणे प्रकट प्रथन्ते ।

अन्वयः—तदा ते सर्वे अनुभविन तस्य श्री रङ्गलालधनिकस्य  
 क्षणशो विवृद्ध विभव संवीक्ष्य अस्य महामुने सीमाभिवृद्धिकरणे मनोरहस्य  
 प्रकट प्रथन्ते ।

अर्थ—तब वे सब अनुभवी पुरुष, श्रीरंगलाल घनाह्य के क्षण-क्षण में बढ़ते  
 हुए धन-सम्पत्ति आदि को देखकर इन आचार्यश्री के द्रव्य सग्रह की सीमा के बढ़वाने  
 करने में मन के रहस्य को प्रकट करने लगे ।

( ६ )

साक महामुनिरयं मुनिमण्डलेन ,  
 प्रस्थाय चिच्छति पुनर्नगरादितस्तम् ।  
 मध्येगतं त्वजयमेरुमपीह दृष्ट्वा ,  
 चण्डावल प्रति पुर त्वरया विहर्तुम् ॥

अन्वयः—सम्प्रति अय महामुनि मुनिमण्डलेन साकम् इत नगरात्  
 प्रस्थाय पुन इह तु त मध्येगतम् अजयमेरुम् अपि दृष्ट्वा चण्डावल पुर  
 प्रति विहर्तुम् इच्छति ।

अर्थ—सम्प्रति ये आचार्यश्री अपने मुनि मण्डल के साथ इन जयपुर नगर में  
 प्रस्थान कर और फिर यहाँ पर उस इतिहास प्रसिद्ध मध्यवर्ती अजमेर को देखकर  
 चण्डावल ग्राम को ओर विहार की इच्छा करने लगे ।

( ७ )

श्रीमन्मुनीन्द्रमुनिशुभ्रपदारविन्दम् ,  
 चण्डावलं नगरक प्रति वृद्धिमेति ।  
 श्रुत्वेति हृष्टहृदयाः स्वजना विरेजुः ,  
 दुःख शनैः पुनरिदं यतिभिर्विमृष्टम् ॥

अन्वयः—श्री मन्मुनीन्द्र मुनिशुभ्र पदारविन्द (कर्तृ) नगरक चण्डा-  
 वल प्रति वृद्धिम् एति-इति श्रुत्वा हृष्टहृदया. स्वजना विरेजु । किन्तु  
 यतिभि. पुन शनै इद दुःखमेव विमृष्टम् ।

अर्थ—श्रीमान् आचार्यश्री अमरसिंह मुनि के स्वच्छ अथवा पवित्र चरणकमल  
 उपग्राम चण्डावल की ओर बढ़ रहे हैं—ऐसा सुनकर भक्तजन परम प्रसन्न हो उठे ।  
 किन्तु यतियो ने फिर धीरे-धीरे इसको दुःख ही माना अथवा सोचा ।

( ८ )

स्थाने प्रभावमतुलं प्रसमीक्ष्य तीक्ष्णम् ,  
 तेषां मतौ विकृति सञ्ज्वलनं यतीनाम् ।  
 जातं ततो मनसि ते निरत ज्वलन्तः ,  
 मृत्यु मुने रचयितुं प्रयता अभूवन् ॥

अन्वयः—आचार्यस्य अतुल प्रभाव स्थाने तीक्ष्णम् प्रसमीक्ष्य तेषा  
 यतीना मतौ विकृतिसञ्ज्वलन जातम्, तत ते मनसि निरत ज्वलन्त. मुने  
 मृत्यु रचयितु प्रयता. अभूवन् ।

अर्थ—आचार्यश्री अमरसिंहजी के अनुपम प्रभाव को स्थान पर तीखा विचार  
 कर उन यतियो की बुद्धि पर विकार की जलन बन गया । इससे वे मन मे एक साथ  
 जल उठे । (अतएव) वे आचार्यश्री की मृत्यु के पङ्क्यन्त्र मे सलिप्त हो गए ।

( ६ )

ये सन्ति दुष्टमतयो विपमा दुरन्ताः ,  
 एवं सदैव विकृतिं परमां लभन्ते ।  
 कच्चित् प्रयत्नविफला. परिणाममन्यम् ,  
 भोक्तुं व्रजन्ति नियतं दुरितं सहन्ते ॥

अन्वयः—ये दुरन्ता विपमा दुष्टमतय सन्ति, ते एवम् एव सदा परमाविकृतिं लभन्ते । कच्चित् ते एव प्रयत्नविफला सन्त, अन्य परिणाम भोक्तुं व्रजन्ति, (तदन्ते) ते नियत दुरित (च) सहन्ते ।

अर्थ—यह एक व्यवहार की बात है कि जो दुरन्त, विपम और उधमी होते हैं, वे ऐसे ही बड़े कुढैल बन जाते हैं । मम्मवत वे ही अपने डरादे में विफल हो, दूसरे नतीजे उठाते हैं । और हो सकता है कि वे ही निश्चित पाप भोगते हैं ।

( १० )

ख्यातां विपन्न-हृदया अधिसोजत ते ,  
 यत्नेन मस्जिदगृहे वर्सति विधातुम् ।  
 भूताधिवासनियते मरण विचिन्त्य ,  
 सन्तं निवासयितुमेतमतो यतन्ते ॥

अन्वयः—ते विपन्नहृदया. यतय अधिसोजत भूताधिवासनियते मस्जिदगृहे, मरण विचिन्त्य यत्नेन ख्याता वर्सति विधातुम्, अत एत सन्त (तत्र) निवासयितु यतन्ते ।

अर्थ—वे ही विपन्नहृदय के यतिजन सोजत में जिन्दवाली मस्जिद में मृत्यु को सोचकर कि जो डमरे रहता है, उसको जिन्द मार डालता है—यत्न से 'आप यहाँ ही विराजिए' कहकर इन मन्तजी को मस्जिद में ठहराने के लिए यत्न करने लगे ।

( ११ )

दुष्टा इमे यदि कृतौ सफला भवेयु ,  
जायेततन् जगदिदं विफल पुनस्तु ।  
निश्चेतुमस्मि पुनरेवमिद हि सत्यम् ,  
नित्यं सदा विजयते न तु चानृतं तत् ॥

अन्वयः—इमे दुष्टा यदि कृतौ सफला भवेयु तदा तु पुन इद जगत् तत् विफल जायेत । पुन अहम् 'इद सत्यम् हि तदा नित्य विजयते, न च तत् अनृतम्' एव निश्चेतु तु अस्मि ।

अर्थ—यह व्यवहार की ही बात है कि—ये दुष्ट यदि अपनी करतूत मे सफल हो जाते तो फिर यह जगत् विफल हो जाता । इसलिए मैं—यह सत्य ही सदा जीतता है, और वह झूठ हारता है—इस प्रकार निश्चय करने के लिए समर्थ हूँ ।

( १२ )

धर्म विहाय यतयश्चरितुं कुकृत्यम् ,  
भक्तानिमान् प्रवितथ गमयन्ति भावम् ।  
तस्मादिमं मुनिवरं मुनिभिः समेतम् ,  
नष्टुं तदा विकरणैर्विविधै र्यतन्ते ॥

अन्वय —यतय धर्मं विहाय कुकृत्य चरितुम् इमान् भक्तान् प्रवितथ भाव गमयन्ति । तदा ते तस्मात् विविधै विकरणै मुनिभि समेतम् इम मुनिवर नष्टु यतन्ते ।

अर्थ—यतिजन धर्म को छोड़कर कुकृत्य करने के लिए इन अपने भक्तों को झूठा भाव समझाते हैं । तब वे मुनियों के द्वारा वास्तविक भाव के समझाने के कारण, अनेक उपायों से मुनियों के साथ इन आचार्यश्री अमरसिंहजी महाराज को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करने लगे ।



( १३ )

आसीदय यतिजनै रचितेषु तेषु ,  
 प्रोक्तेषु केवलमतः स उपाय एक ।  
 येन स्वयं मुनिरयं मरणं लभेत ,  
 तर्केत कोऽपि निधने यतिनो न तस्य ॥

अन्वय —अत यतिजनै रचितेषु प्रोक्तेषु तेषु केवलम् स एक अयम् उपाय (अवशिष्ट) आसीत्—येन अयं मुनि स्वयं मरणं लभेत, क अपि च तस्य (आचार्यस्य) निधने यतिनो न तर्केत ।

अर्थ—इसलिए अब यतियों के रचे गए कथित उन उपायों में से केवल यही एक उपाय बाकी था कि जिससे ये मुनिराज स्वयं मृत्यु को प्राप्त करें और कोई भी उन आचार्यश्री के मरण पर यतिजन को तर्क न कर सके ।

( १४ )

वस्तु' तदा मुनिजनेषु महाविशिष्टः ,  
 आयात्यसावनुमतिं पुर एव नेतुम् ।  
 यत्नोऽप्ययं विफल एव भवेद् यतीनाम् ,  
 इत्येव बोधयितुमेवमिहागतोऽयम् ॥

अन्वय.—तदा असी मुनिजनेषु महाविशिष्ट वस्तु पुर एव अनुमतिं नेतुम् आयाति । यतीनाम् अयं यत्न अपि विफल. एव भवेत् इति एवम् बोधयितुम् एव अयम् इह आगत (अस्ति) ।

अर्थ—तब वे मुनिजनो में परम आदरणीय आचार्यश्री निवास करने के लिए पूर्व में ही अनुमति प्राप्त करने को पहुँचे । यतियों का यह पङ्क्यन्त्र भी विफल हो—ऐसा इस प्रकार बतलाने के लिए ही ये यहाँ मस्जिद में उपस्थित हुए ।

( १५ )

घस्रो महामुनिसनाथविराजितेषु ,  
 सोढुं भयङ्करमुपद्रवमेव मातः ।  
 साय प्रतिक्रमविधौ मुनिषु प्रवृद्धः ,  
 भूतस्य तस्य शनकैर्विषमोपसर्गः ॥

अन्वय —इह मस्जिदगृहे महामुनिसनाथविराजितेषु मुनिषु घस्र भयङ्करम् उपद्रव सोढुम् एव यातः । साय प्रतिक्रमविधौ सति तस्य भूतस्य शनकै. विषमोपसर्ग. प्रवृद्ध. (अभवत्) ।

अर्थ—इस मस्जिद के घर में आचार्य श्री के साथ विराजित मुनियों के रहते हुए दिन तो भयकर उपद्रव को सहने के लिए चलता हुआ । साय में प्रतिक्रम के समाप्त होने पर उस जिन्द का धीरे-धीरे विषम उपसर्ग बढ़ने लगा ।

( १६ )

सन्तं विभीषयितुमाकृतिमाविधूय ,  
 भूतो भयङ्करमुखः करपाद-घातैः ।  
 शारीरिकी स्थितिमतीव विकृत्य नृत्यन् ,  
 ब्रूते भवानिह कथं रमते यथेच्छम् ॥

अन्वय —भयङ्करमुखः भूत आकृतिम् आविधूय करपादघातैः सन्तं विभीषयितुं शारीरिकी स्थितिम् अतीव विकृत्य नृत्यन् ब्रूते—इह भवान् यथेच्छं कथं रमते ।

अर्थ—भयङ्करमुख का जिन्द आकृति को कँपाकर हाथ और पैर की चोटों के साथ आचार्यश्री को डराने की इच्छा के लिए शरीर को हालत को खूब बिगाड़ कर नाचता हुआ पूछने लगा कि इस मस्जिद में हजरत कैसे मौज उड़ा रहे हैं ?

( १७ )

नीत्या भयङ्करमशेषमथोपसर्गम् ,  
 मौनं विधाय सहते मुनिपुङ्गवोऽसौ ।  
 वीजाक्षरैः सह जपन् स्तुति-मन्त्र-वृन्दम् ,  
 भूतस्तदा पुनरयं विरराम रात्रौ ॥

अन्वयः—तदा असौ मुनिपुङ्गव अशेष भयङ्करम् उपसर्गं नीत्या मौन विधाय वीजाक्षरैः सह स्तुति-मन्त्र-वृन्दं जपन् सहते । अथ पुन. अय भूत रात्रौ विरराम ।

अर्थ—उस समय उन आचार्यश्री ने पूर्ण भयङ्कर उपसर्ग को नीति के साथ चुप्पी रखकर वीजाक्षरों के साथ स्तुति और मन्त्रों को जपते हुए सह लिया । तदनन्तर फिर यह जिन्द रात्रि में शान्त होकर बैठ गया ।

( १८ )

सन्तं महान्तमनुभूय विचारमग्न. ,  
 ब्रूते कृतोज्जलिरयं गरिमाणमाप्तम् ।  
 भूतः स्वयं कथयितुं श्रयतेऽभिलाषम् ,  
 लज्जे परं मनसि ते विपदं प्रदातुम् ॥

अन्वयः—गरिमाणम् आप्तं महान्तम् सन्तम् अनुभूय अय विचार-मग्न भूत स्वय कथयितुम् अभिलाप श्रयते । कृताञ्जलि. च सन् ब्रूते यत् ते विपदं प्रदातु (अह) मनसि पर लज्जे ।

अर्थ—गौरवशाली महान् सन्त अनुभव कर यह धवड़ाया हुआ जिन्द स्वय अपनी इच्छा में कहने लगा और हाथ जोड़ कर निवेदन करने लगा कि आपको कष्ट देने के लिए मैं अपने मन में बड़ा लज्जित हू ।

( १६ )

कष्टं कदापि यवनो भवते न दद्याम् ,  
 सोऽहं पुनश्च विफलोऽपि फल ददामि ।  
 दोषस्य तस्य च कृते यदि कोऽपि दण्डः ,  
 दीयते तत्र भवता तमह सहेय ॥

अन्वय — यवन स अह कदापि भवते कष्ट न दद्याम्, पुनश्च विफल सन् फल ददामि । तस्य च दोषस्य कृते यदि तत्र भवता क. दण्ड अपि दीयेत तर्हि अह त दण्ड सहेय ।

अर्थ—मुसलमान होकर मैं कभी आपको कष्ट नहीं दूंगा । और फिर विफल रहकर मैं आपको भेट देता हूँ । और मेरे अपराध के लिए यदि आपश्री के द्वारा कोई दण्ड दिया जाता हो तो उस दण्ड को मैं अवश्य बर्दाश्त करूंगा ।

( २० )

जातः प्रसन्न हृदयोऽहमपि प्रसन्नम् ,  
 श्रीमन्तमत्र शयितुं यदि घापि वस्तुम् ।  
 सन्तं कदापि विपरीतमतो न मन्स्ये ,  
 सद्यो विहाय विकृतिं मनसोऽद्य यामि ॥

अन्वयः—अहम् अपि प्रसन्नहृदय जात. (अस्मि) । अत प्रसन्न सन्त श्रीमन्तम् अत्र शयितुं यदि वा वस्तुम् अपि (अह) कदापि विपरीत न मन्स्ये । (अह) मनस विकृतिं विहाय अद्य सद्यः यामि ।

अर्थ—मैं भी प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए प्रसन्न हुए श्रीमान् को यहाँ सोने अथवा रहने को भी मैं कभी उलटा नहीं मानूंगा । मैं अपने हृदय की बुराई को छोड़ आज अभी जा रहा हूँ ।

( २१ )

अद्य प्रभृत्यहमिमान् यवनान् स्वतोऽतः ,  
 स्थानं त्विद परिजिहासयितुं विधास्ये ।  
 अस्मात्परं मुनिजनाः सततं वसेयुः ,  
 प्रोच्येत्यसौ त्वरितमेव ततः प्रयातः ॥

अन्वयः—अतः अहं तु अद्यप्रभृति इमान् यवनान् इदं स्थानं स्वतः परिजिहासयितुं विधास्ये (येन) अस्मात् परम् (अत्र) मुनिजनाः सततं वसेयुः इति प्रोच्य असौ भूतः ततः त्वरितम् एव प्रयातः ।

अर्थ—इसलिए मैं तो आज से इन मुसलमानों को इस स्थान को अपने आप छोड़वा देने के लिए उद्यत करूँगा । जिससे कि इसके बाद मुनिजन यहाँ सदा रह सकें, ऐसा कह कर वह जिन्द उस मस्जिद से शीघ्र ही चल दिया ।

( २२ )

सूर्योदये विशदभासि विचारपापाः ,  
 सन्तं दिने विकृतबुद्धय एव बोद्धुम् ।  
 आयान्ति जातमिति किं विगते निवासे ,  
 दृष्ट्वा मुनिं परिहसन्ति परस्परं ते ॥

अन्वय — विशदभासि सूर्योदये विकृतबुद्धयः विचारपापाः विगते दिने निवासे किं जातम् इति सन्तम् बोद्धुम् एव आयान्ति, (किन्तु) ते मुनिं दृष्ट्वा परस्परं परिहसन्ति ।

अर्थ—स्वच्छ कान्तिवान् सूर्य के उदय होने पर विगड़ी बुद्धि के लोगी, गत दिन में मुनियों के निवास के विषय में 'क्या हुआ' इसमें सन्त को समझने के लिए आते हैं । किन्तु वे मुनिराज को देखकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने लगते हैं ।

( २३ )

हासं विहाय विकृताः प्रतियन्ति भक्ता ,  
 प्रष्टुं पुनर्विकृतिनो यतिनो जनांस्ते ।  
 जातं कुतस्तु निधनं न मुनेरिदं यत् ,  
 यूय स्थ दूषितमता यतयोऽत एवम् ॥

**अन्वयः—**एव पुन हास विहाय ते विकृता (यतीना) भक्ता विकृ-  
 तिनः यतिन जनान् प्रष्टु प्रतियन्ति, यत् मुने इद निधन कुत न जातम् ?  
 अत यतय यूयम् दूषितमता स्थ ।

**अर्थ—**इस प्रकार फिर हँसी-मजाक छोड़कर विगड़े हुए वे यति भक्त विकृत  
 यतिजनो से पूछते हैं कि तुम कहते थे कि मुनिजी को इस प्रकार निश्चितरूप मे  
 ससार से मिटा दिया जायेगा—तो फिर मुनिजी का निधन किस कारण से न हो  
 पाया ? इसलिए तुम यति लोग अपसिद्धान्ती हो । अर्थात् तुम्हारी बात का कोई  
 भरोसा नहीं है ।

( २४ )

रुष्टा विरुद्धगतयो यतिनोदितास्ते ,  
 नित्यं परस्परमतो गमनस्य मार्गम् ।  
 रुन्धन्ति यान्तु यतयो यदि वा वसन्तु ,  
 शान्ति भजन्त्रिति पुनर्वद वा व्रजेतः ॥

**अन्वयः—**अत यतिनोदिता विरुद्धगतय रुष्टा सन्तः ते परस्पर  
 गमनस्य मार्गं रुन्धन्ति । रुध्यमानं प्रेरयन्ति यत् त्वम्—यतय यान्तु यदि  
 वा वसन्तु, किन्तु शान्ति भजन्तु इति वद वा त्वम् इत व्रज ।

**अर्थ—**इसलिए यतिप्रेरित उलटे नाराज हुए वे अब परस्पर मे जाने के  
 रास्ते को रूँध देते हैं और रूँधे हुए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि अब तू, यति  
 लोग जाँँ यदि वा रहे, किन्तु वे शान्त रहे—ऐसा बोल, अथवा यहाँ से भाग ।

( २५ )

इत्थं विवेकिन इमे सरला प्रसन्नाः ,  
 भक्तास्तदा विकृतिनो यतिनो निपेद्भुम् ।  
 गच्छन्ति जातु सकलं निहितं रहस्यम् ,  
 किं वा भवेदिह यदा यदि वा प्रतीयुः ॥

अन्वयः—तदा इमे सरला. प्रसन्ना विवेकिन भक्ता. विकृतिनः—  
 यतिन निपेद्भु गच्छन्ति, इत्थं जातु यदि वा ते मुनिभक्ता सकल निहित  
 रहस्य प्रतीयु यदा इह किं वा भवेत् !

अर्थ—तव ये मीधे-साधे प्रसन्न विवेकी भक्त विकृतयतियो को मना करने  
 पहुँचते हैं और इस प्रकार (कहते हैं) कि कदाचित् यदि उन मुनिभक्तो को सब  
 छिपा हुआ रहस्य मालूम पड जाए, तव फिर क्या होगा ? अर्थात् द्वेष की आग  
 फैल जायेगी, तव लेने-के-देने पड जायेगे ।

( २६ )

तस्मादिमे सुमतयो यतिनां कुसङ्गम् ,  
 भक्ता व्रजन्ति परिहाय मुनेः समीपम् ।  
 पृच्छन्ति तं मुनिवरं सुमतिं ग्रहीतुम् ,  
 दुष्टा भवन्ति समयानुसारम् ॥

अन्वयः—तस्मात् इमे सुमतय यतिभक्ता यतिना कुसङ्ग परिहाय  
 मुने. समीप व्रजन्ति । (ते च भक्ता ) त मुनिवर सुमतिं ग्रहीतु पृच्छन्ति ।  
 यतो हि दुष्टा समयानुसार सुजना भवन्ति ।

अर्थ—इससे ये समझदार यतियो के भक्त अब यतियो के कुसङ्ग छोडकर  
 मुनि महाराज की सेवा मे पहुँच जाते हैं । और वे भक्त सद्ज्ञान प्राप्ति के लिये मुनि  
 राजश्री से प्रश्न करते हैं । क्योकि दुष्ट भी समय के अनुसार अच्छे पुरुष बन  
 जाते है ।

( २७ )

जैनास्तदागमविधिं प्रणिपत्य सत्तुम् ;  
 धर्मं सनातनममुं समुपासताद्यम् ।  
 चक्रं विहाय वितथं यतिनां समेषाम् ,  
 आयान्ति ते मुनिजनस्य पदेषु नन्तुम् ॥

अन्वय—तदा जैना आगमविधिं सत्तुम् अमुम् आद्य सनातन धर्मं समुपासत । समेषा यतिना वितथ चक्र विहाय ते मुनिजनस्य पदेषु नन्तुम् आयान्ति ।

अर्थ—उस समय आगमो के विधान का अनुसरण करने के लिए उस अनादि से सदा चले आने वाले धर्म की उपासना की । सभी यतियो के झूठे जजाल को छोड़ कर वे मुनियो के चरणो मे नमन करने के लिए आए ।

( २८ )

सर्वे ततो मुनिवरं सुसतामधीशम् ,  
 ज्ञातुं विलक्षसदृशः शतशो यतन्ते ।  
 ज्ञात्वा भवन्ति शरणागमिनोविशिष्टा. ,  
 शिष्या इमे प्रमुखत सदुपासकास्ते ॥

अन्वय.—तत सर्वे सुसताम् अधीश मुनिवर ज्ञातु विलक्षसदृश शतश (जना.) यतन्ते । ज्ञात्वा (च) इमे प्रमुखत सदुपासका शरणागमिनः विशिष्टा शिष्या भवन्ति ।

अर्थ—तदनन्तर सभी मनुष्य सन्तशिरोमणि मुनिवर को जानने के लिए आश्चर्यचकित जैसे सैकड़ो ही वार प्रयत्न करने लगे । और जानकर ये मुख्यरूप मे सच्चे उपासक शरणागत विशिष्ट शिष्य बन गये ।



( २६ )

एवं महामुनिरयं प्रथमो विघाता ,  
जातो मरोर्भुवि धराधिपमौलिवन्द्य ।  
सद्धर्मधारकशिरोमणिरेवभूमौ ,  
शास्ता वभूव जगतो जिनशासनस्य ॥

अन्वय.—एव मरो भुवि अय महामुनि. धराधिपमौलिवन्द्य प्रथम विघाता जात । भूमौ एव जिनधर्मशासनस्य जगत. सद्धर्मधारकशिरोमणि शास्ता वभूव ।

अर्थ—इस प्रकार मारवाड की पृथ्वी पर ये आचार्य श्री अमरसिंहमुनि महाराज राजाओं की मौलि से वन्दनीय प्रथम श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के विघाता हुए । पृथ्वी पर ही जिनधर्मशासन के जगत् के सद्धर्मधारकों के अग्रणी आचार्य आप थे ।

( ३० )

ख्यातिं मुनेरतिशयामतुलां निशम्य ,  
सोढुं समे यतिजना विफला वभूवुः ।  
सम्भूय घोपमपरं रटितुं प्रवृत्ताः ,  
शास्त्रानुसारि कथनं न मुनेस्तदैतत् ॥

अन्वयः—मुने अतुलाम् अतिशया ख्यातिं निशम्य सोढु समे यतिजनाः विफला वभूवु, तदा (ते) सम्भूय अपर घोप रटितु प्रवृत्ता (यत्) मुने एतत् कथन शास्त्रानुसारि न (अस्ति) ।

अर्थ—आचार्य श्री अमरसिंहमुनि महाराज की अद्वितीय अतिशय प्रशंसा को सुनकर नहन करने के लिए नभी यतिजन अक्षय हुए, तब वे एकत्र होकर एक नारा रटने लगे कि मुनिराजश्री का यह उपदेश शास्त्र के अनुसार नहीं है ।

( ३१ )

यत्ने पराजयममुं परिभाव्य चित्ते ,  
 भक्तान् विभावयितुमेव तथा हि घोषम् ।  
 कुर्वन्ति ते विवदितु मुनिनैव साकम् ,  
 दुष्टाः सदैव सुजनान् प्रतिकर्तुमीशा ॥

**अन्वयः**—यत्ने सति अमु पराजय चित्ते परिभाव्य एव ते भक्तान् विभावयितुम् घोष हि तथा मुनिना साकम् विवदितुम् एव कुर्वन्ति । (यतो हि) दुष्टा सुजनान् प्रतिकर्तुं सदा एव ईशा (भवन्ति) ।

**अर्थ**—यत्न के होने पर उस पराजय को हृदय मे विचार कर ही वे यतिजन भक्तो को समझाने के लिए नारा, वैसे ही कि मुनि महाराज के साथ शास्त्रार्थ होगा ही, लगाने लगे । क्योकि दुष्ट पुरुष भद्र पुरुषो का प्रतीकार करने के लिए सदैव समर्थ है ।

( ३२ )

एवं सदैव नियतं प्रचरन्ति सर्वे ;  
 नालाति कोऽपि यतिनां कथनाय वृत्तम् ।  
 तस्मात्तथा मुनिरयं स्वयमेवमूचे ,  
 प्रायध्वमस्म्यहमतीव तु तत्परोऽपर ॥

**अन्वय**—क अपि यतिना कथनाय वृत्त न आलाति, एव सर्वे ते नियत प्रचरन्ति । तस्मात् अय मुनि एव तथा स्वयम् ऊचे, यत् यूय प्रायध्वम्, अह तु अपर अतीव तत्पर अस्मि ।

**अर्थ**—कोई भी यतियो के कहने के लिए समाचार नही लाता, इस प्रकार सब वे पक्का प्रचार करते हैं । उससे सावधान हो, आपश्ची अमरसिंह मुनिजी ने भी स्वय ललकार फरमाया कि तुम आओ तो, दूसरे में तो आवश्यकता से अधिक तैयार बैठे हैं ।

( ३३ )

श्रुत्वा मुनेर्वचनमद्भुतमेव मत्त्वा ,  
 हासं विधाय चरमे त इमे यतीनाम् ।  
 स्वीयानमून् यतिवरान् गदितुं यथोक्तम् ।  
 दूता. प्रयान्ति च तदा प्रतिबोधनाय ॥

अन्वयः—तदा एव मुने. वचन श्रुत्वा अद्भुत मत्त्वा हास च विधाय उमे यतीना चरमे ते अमून् स्वीयान् यतिवरान् यथोक्त गदितु (दूतान् नियुक्तवन्त ) । (अतस्ते) दूता प्रतिबोधनाय प्रयान्ति ।

अर्थ—उमी गमय मुनि महाराज के वचन, सुनकर, अद्भुत मान और मजाक उडा इन अतितुच्छ यतियो ने ही उन अपने श्रेष्ठ यतियो को उक्त का अतिश्रमण न कर बताने लिए दूतो को नियुक्त किया । अब वे दूत सूचना देने को चन दिये ।

( ३४ )

पूर्वं तु ते कलयितुं प्रभवो न जाताः ,  
 दूतान् निरीक्ष्य यतयः कथयन्ति सर्वे ।  
 वक्तुं किमर्थमिति ते प्रचरन्ति मिथ्या ,  
 जातं तथापि समये करणीयमास्ते ॥

अन्वय —पूर्वं तु ते कलयितुं प्रभव न जाता (आसन्) । (किन्तु अन्ते नर्वे यतय दूतान् निरीक्ष्य कथयन्ति, ते (स्वीया यतय ) किमर्थं वक्तुमिति' मिथ्या प्रचरन्ति । अस्तु-जात यज् जातम्, तथापि समये (यत्) करणीयम् आन्ते, तत्तु करणीयमेव) । अयमाक्षिप्तोऽर्थः ) ।

अर्थ—पहले तो ये यतियर बान का नम लेने के लिए तैयार ही नहीं हुए, किन्तु अन्त में दूतों का वाया हुआ देख सभी यति पहले नगे कि 'ये किमत्रिए, क्यों' ऐसा कुछ प्रचार करने है कि हम जान्नाचं तरंगे । अस्तु—जो हुआ तो हुआ, फिर भी समय पर जो करने जायत होगा, वह तो करना ही होगा । अच्छा, आप लोग तो गदयें । (वह आक्षिप्त अर्थ है ।)

( ३५ )

एते समस्तयतय. समवेत्य याताः ,  
 शास्त्रस्य तत्त्वमतिवाहयितुं यतन्ते ।  
 मिथ्या मुनेः कथनमस्ति विचारदृष्टे. ,  
 तस्माद् वयं निचिनुम कथनं विरुद्धम् ॥

**अन्वयः**—समवेत्य याता एते समस्तयतय शास्त्रस्य तत्त्वम् अति-  
 वाहयितुं यतन्ते । विचारदृष्टे. मुने. कथन मिथ्या अस्ति । तस्मात् वय  
 कथन विरुद्ध निचिनुम ।

**अर्थ**—एकत्र हुए ये समस्त यतिजन शास्त्र के आशय को अतिवाहित करने  
 का प्रयत्न करने लगे (और आगे कहने लगे) कि विचार की दृष्टि से मुनिजी का  
 कहना मिथ्या है । इससे हम मुनिजी के कथन को शास्त्र के विरुद्ध चुनते हैं ।

( ३६ )

तत्राधिशास्त्रमपि तेऽधिकृतं न मन्तुम् ,  
 शक्ता इमे यतिजना. कथयन्ति मिथ्या ।  
 भक्तास्तदा मुनिमिमं प्रथयन्ति वक्तुम् ,  
 प्रष्टं महातिशयित जयिन विवादे ॥

**अन्वयः**—इमे यतिजना तत्र अधिशास्त्रम् अधिकृतम् अपि मन्तु  
 शक्ता न (सन्ति) । (अपितु) ते (तत्) मिथ्या अपि कथयन्ति । तदा (एत-  
 त्सर्वं निरीक्ष्य) भक्ता इम प्रष्ट महातिशयित मुनि विवादे जयिन वक्तु  
 प्रथयन्ति ।

**अर्थ**—यतिजन उस शास्त्र के अधिकृत विषय को भी मानने के लिए समर्थ  
 ही नहीं हुए, इतना ही नहीं, अपितु वे उसको मिथ्या भी कहने लगे । तब यह सब  
 देखकर भक्तो ने इन अग्रणी सर्वविशिष्ट मुनि महाराज को विवाद मे विजयी कहने  
 के लिए प्रशंसा करने लगे ।

( ३७ )

श्रुत्वा जयं मुनिवरस्य विहाय कार्यम् ,  
 गच्छन्ति त मुनिममुं जयिन प्रशस्तुम् ।  
 शक्तो महामुनिरय प्रथते विचित्रम् ।  
 शास्त्र-प्रमाणमपि ते श्लथयन्ति सत्यात् ॥

अन्वय — मुनिवरस्य जय श्रुत्वा (जना ) कार्यं विहाय अमु मुनि  
 त जयिन प्रशस्तु गच्छन्ति । किन्तु अय गक्त महामुनि विचित्र प्रथते यत्  
 ते शास्त्रप्रमाणम् अपि सत्यात् श्लथयन्ति ।

अर्थ—आचार्यश्री की जय-जयकार मुन, कार्य को छोड श्रावक उन मुनिजी  
 को जो विजयी हुए हैं, उनको प्रशस्त मिद्ध करने को उद्यत हो गए । किन्तु समर्थ  
 आचार्यश्री आश्चर्य करने लगे कि वे शास्त्र के प्रमाण को भी सत्य से गिराते हैं ।

( ३८ )

सत्यं कदापि मनुते न मताग्रहीनः ,  
 रोद्धुं जनं प्रयततेऽत्र तत. परं किम् ।  
 भूमौ स्थितश्च मधुपो लभते हिमांशुम् ,  
 वद्धो यथा शिखरिण शिखरं ग्रहीतुम् ॥

अन्वय — अत आयही ईन पुरुष कदापि सत्य न मनुते, अपि तु  
 मतान्तर जन रोद्धु प्रयतते, अत पर किम् ? कथनीयमिति शेष । स्थिति-  
 रिगमीदृशी परिनक्ष्यते—यथा मधुप भूमौ स्थित अपि हिमांशुं लभते  
 वद्धश्च यथा शिखरिण शिखरं ग्रहीतु प्रयतते ।

( ३६ )

अन्ते यतीनभिहितान् सहसाऽवमन्तुम् ,  
 श्रद्धालवो मुनिजनेषु विशिष्टमेनम् ।  
 पूज्यं विधाय वचनानुचरा यतीनाम् ,  
 जाता. स्वतन्त्रगतय ससुखं विहर्तुम् ॥

अन्वयः—अन्ते अभिहितान् यतीन् अवमन्त यतीना वचनानुचरा श्रद्धालव (जना) सहसा मुनिजनेषु विशिष्टम् एन मुनिं पूज्य विधाय ससुख विहर्तुं स्वतन्त्रगतय जाता ।

अर्थ—अन्त मे उक्त यतियो को अवमानित करने के लिए यतियो के वचनानुचर श्रद्धालु पुरुषो ने एक साथ मुनियो मे विशिष्ट इन मुनि महाराज को पूज्य बनाकर आनन्द से विहरण के लिए इच्छाविहारी हो गये ।

( ४० )

भूमौ मरोरुपकृतेर्गरिमाणमाप्तुम् ,  
 जैन जन विहितपद्धतिमेव सत्तुम् ।  
 यत्नं विधाय परमं मुनिमण्डलेश ,  
 वन्द्योऽभवत्स्वयमहो प्रथमो मुनीशः ॥

अन्वयः—मरो भूमौ उपकृते गरिमाणम् आप्तु जैन जन विहित पद्धतिम् एव सत्तुं परम यत्न विधाय मुनिमण्डलेश प्रथम मुनीश अहो स्वय वन्द्य अभवत् ।

अर्थ—मारवाड की भूमि पर उपकार के गौरव को प्राप्त करने के लिए, जैनजन को विहितपद्धति का अनुसरण करने के लिए, पर्याप्त यत्न कर मुनिमण्डल के भाग्य विधाता प्रथम आचार्य अहो स्वय वन्द्य श्री अमरसिंह मुनि महाराज हुए ।

( ४१ )

मार्गे प्रशस्तसुगमे प्रसरन्ति सर्वे ,  
 दुष्टे महाभयभरे पदमादधान ।  
 भीति विहाय रमते विरलस्तथाऽयम्,  
 जातो मरौ मुनिवरोऽनवर पदाति ॥

अन्वय —सर्वे प्रशस्तसुगमे मार्गे प्रसरन्ति, किन्तु भीति विहाय महाभयभरे दुष्टे मार्गे पदम् आदधान विरल. रमते, तथा मरौ अयम् अमरसिंह मुनि. अनवर मुनिवर पदाति: जात. ।

अर्थ —सब निष्कण्ठक सरल मार्ग पर आनन्द से चलते हैं, किन्तु डर को भगाकर अत्यन्त भय से पूर्ण मार्ग पर पैर रखते हुए विरल ही रमते हैं, उसी प्रकार मारवाड में ये श्री अमरसिंह मुनिराज महान् आचार्य होकर अकेले पैदल-पैदल विहरे ।

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
 उपाध्याय पदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
 श्रीमदाचार्यमिरसिंह महाकाव्ये  
 नवमः सर्गः



## दशमः सर्गः

( १ )

सम्प्रत्यसौ मुनिवरो मनुजान् यतीनाम् ,  
अन्याञ्जनानपि सदातनजैनधर्मम् ।  
सम्बोध्य युक्तिसहितं श्लथितप्रपञ्चम् ,  
यातुं सहैव मुनिभि कुरुते प्रतीक्षाम् ॥

अन्वयः—सम्प्रति असौ मुनिवर यतीना मनुजान् अन्यान् जनान् अपि युक्तिसहित श्लथितप्रपञ्च सदातनजैनधर्मम् सम्बोध्य मुनिभिः सह यातुमेव प्रतीक्षा कुरुते ।

अर्थ—सम्प्रति ये मुनिराज यतियो के मनुष्यो को और दूसरे मनुष्यो को भी युक्तियो के साथ हटा दिया है प्रपञ्च जिससे, ऐसे सदातन जैन धर्म को भली तरह से समझा कर मुनिजन के साथ जाने के लिए ही उद्यत हैं ।

( २ )

अग्रेऽपि तं सततमागतजैनधर्मम् ,  
जैनं तथेतरमिमं जनमप्यभिन्नम् ।  
व्याहृत्य स प्रयतते पुनरप्यतस्तम् ,  
गन्तुं मुनिर्यतिनिदेशितमन्यदेशम् ॥

अन्वयः—अग्रे अपि स मुनि सतत तम् आगतजैनधर्मम् इम जैन तथा इतर जनम् तथा अभिन्नम् अपि व्याहृत्य अत पुन अपि तम् यतिनिदेशितम् अन्यदेश गन्तु प्रयतते ।

अर्थ—आगे भी उन मुनिराजश्री ने सदा से उस आए हुए जैनधर्म को इस जैन को जो भूल रहा था, तथा दूसरे मनुष्य को जो कि जानता ही न था, और फिर अभिन्न जो कि अपने राष्ट्र का अङ्ग है, उसको स्पष्ट बताकर इस स्थान से फिर, उस, यतियो से निदेश प्राप्त किए हुए दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रयत्न किया ।

० सर्गेऽस्मिन्नपि 'वसन्ततिलका' एवास्ति । लक्षण तूक्तमेव ।



( ३ )

पालीपुरादि नगरेषु तथापरेषु ,  
 स्थानेषु तेषु यतिदुर्गमयेष्वतोऽसौ ।  
 गत्वा पुनर्जनगणे तममेव धर्मम् ,  
 गन्तु प्रबोध्य मुनिरिच्छति देशमन्यम् ॥

अन्वय — पालीपुरादि नगरेषु, अपरेषु स्थानेषु तथा तेषु यतिदुर्गमयेषु (स्थानेषु अपि) गत्वा असौ मुनि जनगणे त धर्मम् एव प्रबोध्य पुन अन्य देश गन्तुम् इच्छति ।

अर्थ—पाली आदि नगरो मे, दूसरे स्थानो मे उसी प्रकार से उन यतियो के गढ कहलाने वाले स्थानो मे भी पहुँच कर उन मुनिमहाराज ने जनता के रहते हुए उसी सदातन जैन धर्म को प्रबोधित कर फिर दूसरे स्थान को जाने की इच्छा करने लगे । कहने का अर्थ यही है कि मुनिराज श्री ने मारवाड के प्रतिग्राम मे स्यानकवासी श्रमणोपासक जैन धर्म की धूम मचा दी ।

( ४ )

भक्ता मुनि विनयिनो गुरुणा सहेमम् ,  
 चागत्य प्रत्यहमहो विनिवेदयन्ते ।  
 शान्त्या सुखेन भगवन् यदि सम्भवोऽयम् ,  
 भूमि स्पृशन्तु मुनयो मरुराजधान्याः ॥

अन्वय — प्रत्यहम् आगत्य विनयिन भक्ता इम मुनि निवेदयन्ते, अहो भगवन् । यदि अय सम्भव भवेत् तर्हि शान्त्या सुखेन च मुनयः गुरुणा सह-मरुराजधान्या भूमि स्पृशन्तु ।

अर्थ—प्रतिदिन पहुँचकर विनयी भक्त इन मुनिराज से निवेदन करने लगे कि भगवन् ! यदि यह सम्भव हो सके तो सुख और शान्ति मे गुरुदेव के साथ मुनि-जन मारवाड की राजधानी अर्थात् जोधपुर की भूमि को स्पर्श अथवा परसे ।

( ५ )

ज्ञाता तदागमविधेः प्रतिबोधकोऽपि ,  
 श्रेष्ठश्च सन्नयमतः स्थितिमेव बोद्धुम् ।  
 निश्चित्य भक्तविनतेर्मिषत प्रतस्थे ,  
 सिंहो महामुनिरिवावनिनिर्भयोऽसौ ॥

**अन्वयः**—तदा आगमविधे ज्ञाता आगमविधेश्च श्रेष्ठ प्रतिबोधकः सन् अपि अत अयम् स्थितिम् बोद्धुम् निश्चित्य भक्तविनते मिषत. एव असौ महामुनि अवनिनिर्भय सिंह इव प्रतस्थे ।

**अर्थ**—उस समय आगमो की विधि के ज्ञाता और आगमो की विधि के श्रेष्ठ बोधक सन्त होकर ये स्थिति को जानने का निश्चयकर भक्तो की विनति के वहाने से ही वे आप आचार्यश्री पृथिवी पर निर्भय सिंह के समान चल दिए ।

( ६ )

राज्ये महामुनिरयं परिवीक्ष्य जैनम् ,  
 धर्मं प्रतिष्ठितमपि प्रतिभावितं तम् ।  
 सम्भाविनं परमिमं पुनरेव नीतौ ,  
 पूज्यस्थितिं दृढयितुं स्वयमागतोऽसौ ॥

**अन्वयः**—अय महामुनि. राज्ये प्रतिष्ठितम् अपि जैन धर्मं प्रतिभावित परिवीक्ष्य तम् इम पर सम्भाविन नीतौ पुन पूज्यस्थितिम् एव दृढयितुम् असौ स्वयम् आगत ।

**अर्थ**—ये आचार्य श्री राज्य मे प्रतिष्ठित हुए भी जैनधर्म को प्रतिभावित देखकर उसी को बड़ा सम्भावी व्यवहार मे आदरणीय स्थिति को ही दृढ करने के लिए वे स्वय पदार्पित हुए ।



( ६ )

भक्तैरपीह सततं श्रयितं मुनीशम् ,  
 संवीक्ष्य ते विमनसो ज्वलिता अभूवन् ।  
 तस्मादिमे नृपममुं विनिवेदयन्त . ,  
 प्रोचुर्वयं मुनिमिम न सहेम वस्तुम् ॥

अन्वयः—इह प्रासादगोमुखगृहे अपि सतत श्रयित मुनीश सवीक्ष्य ते विमनस. ज्वलिता अभूवन् । तस्मात् इमे ज्वलिता अमु नृप विनिवेदयन्त. प्रोचुः; यत् वयम् इम मुनि (इह गृहे) वस्तु न सहेम ।

अर्थ—यहाँ महलो के द्वार के घर मे भी निरन्तर आश्रयित आचार्यश्री को देखकर कुढैल दरबारी लोग जल उठे । इससे जले हुए ये स्थानीय राजा से अर्ज करते हुए बोले कि हम तो इन मुनिजी को इन महलो के द्वार के घर पर रहने को नही सह सकेंगे ।

( १० )

किं कारणं मुनिवरस्य निवासनेन ,  
 सर्वे भवन्त इतरे ज्वलिता बभूवु ।  
 ऊचुः समे नृपमिमं सहसैव वस्तुम् ,  
 सन्तं भवन्तमुपरीति कथं सहेम ॥

अन्वय —राजा पृच्छति तान् राजकीयान् मुनिवरस्य निवासनेन भवन्तः इतरे सर्वे ज्वलिता बभूवुः, (अस्य) कारण किम् (अस्ति) ? (तदा) ते समे इम नृप सहसा एव ऊचुः, यत् भवन्तम् उपरि (वय) सन्तं वस्तु कथ सहेम ? इति ।

अर्थ—राजा ने उन राजकीय लोगो से प्रश्न किया कि—आचार्यश्री के यहाँ ठहरा देने से आप दूसरे सभी जल उठे, इसका क्या कारण है ? तब वे सभी इस राजा को एक साथ कहने लगे, कि आपके ऊपर हम मुनि को रहते हुए कैसे सह सकेंगे—ऐसा ।

( ११ )

तस्मादयं नृपवरोऽपि तदैव रुष्टः ,  
 प्रोवाच तान् मुनिमिमं विनिवेदयन्तु ।  
 गच्छन्तु तावदितरत् समुखं भवन्तः ,  
 स्थानं भवद्भ्य उचितं ननु वोघयामः ॥

अन्वयः—तदा अयं नृपवर अपि तस्मात् एव रुष्ट भवन् तान् प्रोवाच, यत् ( भवन्तः ) इमं मुनिं विनिवेदयन्तु तावत् यत् भवन्तः इतरत् स्थानं गच्छन्तु, ननु वयं भवद्भ्य उचितं वोघयामः ।

अर्थ—उम समय पर इम अच्छे राजा ने भी उसी से क्रुद्ध होते हुए उन राजकीय मनुष्यों से कहा कि आप इन मुनि महाराज से निवेदन कीजिए कि आप सब दूमरे स्थान को जाइये । यदि कोई शङ्का हो तो हम आप सबके लिए उचित स्थान बता दें ।

( १२ )

तत्ते मुनीशमपरं छल-छद्म पूर्णम् ,  
 भूताधिवाससहितं भुवि मन्दिरं तत् ।  
 वस्तुं वदन्ति कियदित्यहं सुन्दरं तत् ,  
 स्थानं प्रदर्श्य सहसा प्रविहस्य याताः ॥

अन्वयः—तत् ते मुनि अपरं छल-छद्मपूर्णं भूताधिवाससहितं तत् मन्दिरं वस्तुं स्थानं प्रदर्श्य अहं यत् कियत् (सुन्दरं) स्थानम् (अस्ति) इति वदन्ति (ते च) सहसा प्रविहस्य याताः ।

अर्थ—नरमन्तर वे राजद्वारागी दूमरी जगह पर छल और छद्म से पूरे, भूतों के नियाम ने कुछ महामन्दिर को रहने के लिए दिया कर—अहा ! यह जिज्ञासा मुन्दर स्थान है ! जिज्ञासा रहने लगे और वे एक साथ हँसकर चल दिये ।

( १३ )

रात्रौ महामुनिमिमं दृढकाष्ठ पट्टे ,  
 भूतः शयानमभितः प्रतिबोद्धुमीष्टे ।  
 प्राणान् जिहासितुमितीच्छसि तच्छयस्व ,  
 नेच्छा पुनर्गृहमत प्रतिगच्छ शीघ्रम् ।

अन्वयः—रात्रौ भूत दृढकाष्ठपट्टे शयानम् इम महामुनिम् अभित प्रतिबोद्धुम् ईष्टे—यदि त्व प्राणान् जिहासितुम् इच्छसि, तत् त्व शयस्व, यदि प्राणान् हातुम् इच्छा न (अस्ति) । (तर्हि) पुन अत गृह शीघ्र प्रतिगच्छ, इति ।

अर्थ—रात्रि होने पर भूत, दृढ काष्ठ के पट्टे पर शयन करते हुए इन आचार्यश्री को सब ओर से समझाने को उद्यत हुआ । कहने लगा कि यदि तुझे अपने प्राणों के त्यागने की इच्छा है तो तू शयन कर । और यदि प्राणों के परित्याग की इच्छा नहीं है तो फिर यहाँ से तू अपने घर को शीघ्र लौटजा, ऐसा ।

( १४ )

किन्त्वेव भूत इति सोऽपि महाकराल ,  
 सन्तं महाशयमिमं व्यथते निरन्तम् ।  
 दुःखं विषह्य परम च मुनीश्वरोऽसौ ,  
 भूतं विवश्य विषमं जयते जपन्य. ॥

अन्वय —प्रथम तु भूत एव इति, स अपि महाकराल । स एतादृश. भूत इम महाशय सन्त निरन्त व्यथते, किन्तु असौ महामुनीश्वर परम दुःख विषह्य, विषम भूत च विवश्य य जपन् (विजयते) जयते ।

अर्थ—वह पहले तो भूत हैं, वह भी महाभयङ्कर है, वह ऐसा भूत इन महाशय मुनिराज को कष्ट देता है, किन्तु वे महामुनि महाराज महाकष्ट सहन कर और विषम भूत को कावू में कर ये जपते-जपते विजयी हो गए ।

( १५ )

भूतेन तेन न पुनर्मुनिरेव कृष्टः ,  
 पट्टो दृढोऽपि शकलेषु विखण्डितोऽसौ ।  
 हेतुस्त्वयं मुनिरसौ शयितस्तदासीत् ,  
 क्रुद्धोऽपतत्पुनरतोऽपि च खण्डितोऽद्य ॥

अन्वयः—तेन भूतेन पुन. मुनि एव न कृष्ट. किन्तु दृढ. पट्ट अपि असौ शकलेषु विखण्डित (अभवत्) । अस्य पट्टस्य खण्डने अयं तु हेतु, तदा असौ मुनिः पट्टे शयित. आसीत् शयाने मुनी पुन. क्रुद्ध भूत अपतत् । अतश्च (स) पट्ट खण्डित अद्य अपि विद्यते ।

अर्थ—उस भूत ने न फिर वह मुनि ही सताया अपितु दृढ लकड़ी का पट्टा भी टुकड़ों में बाँट दिया । इस पट्टे के टूटने में कारण यह था कि ये मुनि महाराज पट्टे पर लेटे हुए थे, लेटे हुए मुनिजी पर वह क्रुद्ध क्रुद्ध पडा, जिससे पट्टा खण्डित हुआ आज भी वहाँ पडा है ।

( १६ )

अन्ते मुनि वदति भूतविशेष एषः ,  
 प्रीतोऽस्म्यहं वद यथेति च तेऽनुकूलम् ।  
 कुर्यामहं तदपि ते वचनं ममैतत् ,  
 स्थानं विहाय तदिदं स्वत एव यामि ॥

अन्वयः—अन्ते एष भूतविशेष मुनि वदति यत् अहं प्रीत. अस्मि इति, यथा च ते अनुकूल भवेत् तत् अपि अहं ते (अवश्य) कुर्याम्, मम एतत् वचनम् अस्ति । तत् (अहं) स्वत एव इदं स्थानं विहाय यामि ।

अर्थ—अन्त में यह भूत मुनि महाराज से कहने लगा कि (आपके व्यवहार से) मैं प्रमन्न हूँ—ऐसा । और जैसा आपके अनुकूल होगा, वह मैं अवश्य करूँगा—यह मेरी प्रतिज्ञा है । इसलिए मैं आपकी इच्छा के अनुकूल ही अपने आप इस स्थान को छोड़कर जा रहा हूँ ।

( १७ )

अत्रान्तरे पुनरयं खिवसीर्महौका ,  
 कार्यान्निवृत्य विरतो यतते च राज्ञः ।  
 द्रष्टुं गुरुं व्रजति तं न तु पश्यतीमम् ,  
 खिन्नो भवत्यत इतस्तु गुरो प्रवासात् ॥

अन्वयः—अत्रान्तरे अय महौका खिवसी राज्ञ कार्यात् निवृत्य विरत सन् गुरु द्रष्टु यतते, त च द्रष्टु व्रजति, किन्तु इम गुरु तत्र न पश्यति । गुरो इत प्रवासात् तु खिन्नः भवति ।

अर्थ—इसी बीच मे ये प्रतिष्ठित खिवसीजी साहब राजा के कार्य से लौटकर उदासीन हुए गुरु के दर्शन के लिए सोचने लगे और उसके दर्शन के लिए गए, किन्तु इनको वे न देख सके । गुरुदेव के यहाँ से पधारने के कारण तो वे दु खी भी हुए ।

( १८ )

स्थानान्निवृत्य खिवसी पुनरेति सन्तम् ,  
 द्रष्टुं गुरु स समुनिं प्रनिवासित तम् ।  
 ज्ञात्वा रहस्यमथ तत् प्रतिकर्तुं मेतत् ,  
 सवीक्ष्य धीरहृदयः समय चिखेद ॥

अन्वयः—स्थानात् निवृत्य स धीरहृदय खिवसी पुन. त प्रनिवासित सन्त समुनिं गुरु द्रष्टुम् एति । अर्थात् रहस्य ज्ञात्वा एतत् प्रतिकर्तुं सवीक्ष्य समय चिखेद ।

अर्थ—पहले निवासस्थान से लौट कर वे गम्भीर खिवसीजी फिर उन प्रनिवासित हुए मुनियो के साथ गुरुदेव के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे, (जहाँ पर कि उनको प्रनिवासित किया गया था) तदनन्तर रहस्य को जानकर कि इसका प्रतिकार कैसे होगा ? अच्छी तरह सोच-विचार कर समय के लिए दु खी हुए ।



( १६ )

दृष्ट्वा गुरुं प्रणमति त्रिरथाऽपराधम् ,  
 स्वीकृत्य सोऽप्यवदत्. खिवसीविधिज्ञ ।  
 कुर्यां किमत्र विवशोऽगममागतोऽहम् ,  
 राज्ञो विशेषवचनाद् वहिराशुकारी ॥

अन्वयः—अथ स विधिज्ञ खिवसी गुरु दृष्ट्वा त्रि. प्रणमति, अपराध स्वीकृत्य अपि अवदत्, यत् राज्ञ.विशेषवचनात् विवश. अह वहि अगमम्, अत अत्र किं कुर्याम् ? (सम्प्रति) अहम् आगतः आशुकारी (अस्मि) ।

अर्थ—तब उन विधिज्ञ खिवसीजी ने गुरुदेव के दर्शन कर सतिखुत्तो प्रणाम किया और अपराध स्वीकार कर अर्ज करने लगे कि दरवार के आदेश से विवश होकर मैं बाहिर गया था । इसलिए इस विषय मे मैं क्या कर सकता था ? अब मैं आया हूँ, और शीघ्र ही जो करना चाहिए, वह करता हूँ ।

( २० )

वासस्य तस्य विषये खिवसीर्महौकाः ,  
 सन्तं निरीक्ष्य मनसा व्यथितेन वन्द्यम् ।  
 पप्रच्छ किन्तु बहुधा प्रथमो मुनीनाम् ,  
 हर्षं व्यजीजनदयं सदने निवस्तुम् ॥

अन्वयः—महौका खिवसी व्यथितेन मनसा वन्द्य-सन्त तस्य वासस्य विषये पप्रच्छ, किन्तु अय मुनीनां प्रथम सदने निवस्त बहुधा हर्षं व्यजीजनत् ।

अर्थ—पूर्णप्रतिष्ठित खिवसीजी साहव ने अपने भारी मन से आदरणीय सन्तश्री को उनके महलो के द्वार के ऊपर विराजने के विषय मे प्रश्न किए, किन्तु इन आचार्य श्री ने भूत मन्दिर के विषय मे निवास करने को अनेक प्रकार से हर्ष-जनक बताया ।

( २१ )

जातास्तदा मुनिममुं प्रसितं विलोक्य ,  
 कृत्ये विशिष्टकुटिला सकला सलज्जा ।  
 कार्यं कृतं न फलितं त्विति, शोचयद्भिः ,  
 दुष्टैरधोमुखमिवाकुलितं व्यधायि ॥

अन्वय—तदा कार्ये प्रसितम् अमुं मुनिं विलोक्य सकला विशिष्ट-  
 कुटिला. सलज्जा जाता । कार्यं तु कृतं (किन्तु) न फलितम् इति शोचयद्भिः  
 दुष्टैः आकुलितम् इव अधोमुख व्यधायि ।

अर्थ—उस समय पर धर्मकार्य में सलग्न उन मुनि महाराज को देखकर  
 सभी प्रमुख कुटिल लज्जित हो गए । कार्य तो किया, किन्तु फलित नहीं हुआ-ऐसा  
 सोचने वाले दुष्टों के द्वारा आकुल-व्याकुल जैसे हो, ऐसा नीचे मुखकर लिया गया ।

( २२ )

कृत्ये कृते विफलितेऽपि जना निकृष्टा. ,  
 चित्ते विशेषविकृतिं विषमां विभूय ।  
 अन्यद् दुरन्तदुरितं रचितुं प्रभूतम् ,  
 कुर्वन्ति पापमपरं विसृपा इवोत्का ॥

अन्वयः—निकृष्टा जना कृते कृत्ये विफलिते अपि चित्ते विषमा  
 विशेषविकृतिं विभूय अन्यत् प्रभूतं दुरन्तदुरितं रचितुम् अपरं पापम्, उत्का  
 विसृपा. इव कुर्वन्ति ।

उत्कण्ठित सर्प के समान नीचे पुरुष किये गए कार्य के विफलित होने पर भी  
 चित्त में विषम विशेष विकृति को बढ़ाकर दूसरे बड़े मुश्किल से अन्त होने वाले पाप  
 को रचने के लिए दूसरे जिस से बड़े पाप न हो ऐसे पाप करते हैं । यह निम्न प्रकृति  
 के मनुष्यों का स्वभाव है ।

( ३१ )

धर्मस्य पूज्ययशसोऽस्य मुनेः सुशिष्य ,  
 धन्यो मुनिश्चुतयशा मुनिसङ्गमेतुम् ।  
 आयादिम मुनिमवाप्य न गन्तुमिच्छुः ,  
 दृष्ट्वाऽमिलन्मुनिमिमं चलितुं नगोरम् ॥

अन्वय — विहारमार्गें एव कस्मिञ्चिद् ग्रामे पूज्ययशस मुने श्री धर्मदासस्य सुशिष्यः धन्य मुनि मुनिश्चुतयशा सन् मुनिसङ्गम् एतुम् (इह) आयात्, किन्तु (तस्मिन् ग्रामे) इम श्रीमन्तम् अमरसिंहमुनिं न अवाप्य धन्य मुनि गन्तुम् इच्छु (यदा अभवत्, तदा) इमम् श्रीमन्तम् अमरसिंह मुनिं दृष्ट्वा (धन्य मुनि ) नगोर चलितुम् अमिलत् ।

अर्थ—विहार के मार्ग में ही किसी एक ग्राम में पूज्य मुनि श्री धर्मदासजी के सुशिष्य धन्ना मुनिजी मुनि महाराज का प्रशंसा को सुनते हुए मुनि महाराज के साहचर्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे, किन्तु उस ग्राम में इन श्रीमान् अमरसिंह मुनिजी को न पाकर जाने को तैयार हुए तब उन्होंने इन मुनि महाराज को (देखा), देखकर धन्ना मुनिजी नागोर को चलने के लिए मिले ।

( ३२ )

सर्वे नमन्ति सविधि प्रथमं मुनीनाम् ,  
 आयान्तमेनमिव तं गणगीतमाभम् ।  
 सन्तोऽपि ते सुयशसः कथयन्ति शान्ताः ,  
 माङ्गल्यवाचममुकं प्रथितं महान्तम् ॥

अन्वयः—सर्वे एनम् अपरं गणगीतमाभम् इव आयान्त मुनीना प्रथम सविधि नमन्ति । ते सुयशस शान्ताः सन्तः अपि अमुक प्रथित महान्त माङ्गल्यवाच कथयन्ति ।

अर्थ—सभी इनको दूसरे गणघर गीतम की कान्ति वाले के तुल्य आते हुए उन मुनियों के आचार्य को विधि के साथ प्रणाम करते थे । वे प्रसिद्ध शान्त सन्त भी इन प्रख्यात मुनि को महान् मङ्गलवाक् वताते थे ।

( ३३ )

श्रुत्वा परां मुनिवरस्य यश प्रशस्तिम् ,  
 सर्वे प्रशस्तमुनयोऽपि तपोधरं ते ।  
 श्रोतुं मुनिं महितधर्मधराधुरीणम् ,  
 पृच्छन्ति योधपुर-कीर्तिकथा विलोक्य ॥

अन्वयः—सर्वे प्रशस्तमुनय, अपि मुनिवरस्य परा यश. प्रशस्तिं श्रुत्वा ते महितधर्मधराधुरीण तपोधर मुनिं विलोक्य योधपुर-कीर्तिकथा श्रोतुं पृच्छन्ति ।

अर्थ—सब प्रसिद्ध मुनिजन भी आचार्यश्री की बड़े यश की विशेषता सुनकर वे पवित्र एव आहत धर्म की भूमि के भारवाही तपस्वी मुनि को देखकर जोधपुर की कीर्ति कथा को सुनने के लिए प्रश्न करने लगे ।

( ३४ )

तस्मादिमे विविधकीर्त्तिधरा मुनीशाः ,  
 आर्याश्च तां सहभुजः समभोगवृत्यः ।  
 ख्याताः समेत्य सकला. समसूत्रबद्धाः ,  
 जातास्तत. प्रभृति ते सहभोगभाजः ॥

अन्वयः—इमे विविधकीर्त्तिधरा मुनीशा सहभुज तां च आर्याः समभोगवृत्य सकला समसूत्रबद्धा समेत्य तस्मात् ते तत प्रभृति सहभोग-भाज. ख्याता जाता ।

अर्थ - ये अनेक प्रशसाओं के धारण करनेवाले सन्त सहमोजी और वे सतियाँ सहमोजी सभी जो समान सूत्र-आगमों से बँधे हुए थे इन मुनि महाराज के साथ मिलकर आहार में सम्मिलित होकर ही वे उस समय से लेकर आज तक सहमोगी प्रसिद्ध हुए चले आ रहे हैं ।

१—भोगशब्द —जैनमुनिसमाचरणे, आहारार्थक. प्रसिद्धः ।

( २७ )

अन्ते विहारसमये मुनिदर्शनाय ,  
 श्रद्धा-प्रसून-मधुपोऽजितसिहनामा ।  
 देशस्य तस्य मरुधरप्रथितस्य राजा, ,  
 हर्षं प्रसत्ति-सुगमश्च समागतोऽसौ ॥

अन्वयः—अन्ते च विहारसमये तस्य मरुधरप्रथितस्य देशस्य असौ श्रद्धाप्रसूनमधुप. अजितसिहनामा हर्ष-प्रसत्ति-सुगम राजा (अपि) समागत (अभूत्) ।

अर्थ—और अन्त मे विहार के समय पर उस मरुधर कहे जाने वाले देश का, वह श्रद्धा के पुष्पो के मधु को पीने वाले अजितसिह जिनका नाम था, हर्ष और प्रसन्नता जिनको सुगम थी, ऐसे राजाजी भी आए थे ।

( २८ )

राजाप्ययं कृतनतिर्मु निराजमूचे ,  
 द्रष्टुं भवन्तमनिश पुनरेव रोचे ।  
 सत्यं वदामि बहुशश्च मुनीनपश्यम् ;  
 पश्याम्यहं न सदृशं मुनिमेवमन्यम् ॥

अन्वय.—अयं कृतनति राजा अपि मुनिराजम् ऊचे—यत् अहं भवन्तं पुनः अनिशम् एव द्रष्टुं रोचे । अहं च सत्यं वदामि यत् बहुशः मुनीन् अपश्यम्, (किन्तु) अहम् एवम् अन्यं मुनिं सदृशं न पश्यामि ।

अर्थ—इन प्रणाम किये हुए राजा साहब ने भी आचार्य महाराज से कहा कि मैं फिर आपश्री को सदैव देखने की चाह रखता हूँ । और सच कहता हूँ कि मैंने अनेक बार मुनियों को देखा, किन्तु मैंने ऐसा दूसरा मुनि आपकी वरावरी का नहीं देखा ।

( २६ )

राज्ञि स्तुतिं विदधति प्रथयन्ति चान्ये ,  
 भक्ता वदन्ति गुरवः शिथिलान् क्षमन्ताम् ।  
 शृण्वन्ति तेऽपि गमनं परिवर्त्तयन्तु ,  
 सन्तः स्थिरं न परिवर्त्तयितुं सहन्ते ॥

अन्वय —स्तुतिं विदधति राज्ञि सति अन्ये (अपि) स्तुतिं प्रथयन्ति, भक्ता च वदन्ति—यत् हे गुरव ! (अस्मान्) शिथिलान् क्षमन्ताम् । (सहैव) ते । (मुनय ) गमन परिवर्त्तयन्तु इति अपि शृण्वन्ति । (किन्तु) सन्तः स्थिर (विषय) परिवर्त्तयितु (कदापि) न सहन्ते ।

अर्थ—विहार के समय जब जोधपुर-नरेश स्तुति कर ही रहे थे कि दूसरे भी स्तुति करने लगे और भक्तजन कहने लगे—गुरुजन ! हम शिथिलो की त्रुटि को भी क्षमा कीजिए । साथ ही मुनिजन भी सुन रहे थे कि कृपया विहार को परिवर्त्तित कर दीजिए । किन्तु यह सब जानते हैं कि मुनिजन स्थिर बात को बदलने के लिए कभी तैयार नहीं होते ।

( ३० )

तस्मादयं तु मुनिसंघयुतो मुनीश. ,  
 स्थानादनन्यमहिमा विविधप्रदेशान् ।  
 गन्तुं जनान् विहितधर्मविधौनियोक्तुम्, ,  
 शान्तः स्वभावसरलः कुरुते विहारम् ॥

अन्वय.—अयं तु मुनिसंघयुत अनन्यमहिमा स्वभावसरल. शान्तः मुनीश तस्मात् स्थानात् विविध प्रदेशान् गन्तुं विहितधर्म-विधौ जनान् नियोक्तुं विहार कुरुते ।

अर्थ—ये मुनियो के साथ परमप्रसिद्ध स्वभाव सरल और शान्त आचार्यश्री उस स्थान से अनेक स्थानों का स्पर्श करने के लिए विहित धर्म की क्रिया में मनुष्यों को नियुक्त करने के लिए विहार प्रारम्भ कर देते हैं ।

( ३१ )

धर्मस्य पूज्ययशसोऽस्य मुनेः सुशिष्य ,  
 धन्यो मुनिश्चुतयशा मुनिसङ्गमेतुम् ।  
 आयादिम मुनिमवाप्य न गन्तुमिच्छुः ,  
 दृष्ट्वाऽमिलन्मुनिमिमं चलितुं नगोरम् ॥

अन्वय — विहारमार्गो एव कस्मिंश्चिद् ग्रामे पूज्ययशस मुने श्री धर्मदासस्य सुशिष्यः धन्य मुनि मुनिश्चुतयशा सन् मुनिसङ्गमेतुम् (इह) आयात्, किन्तु (तस्मिन् ग्रामे) इम श्रीमन्तम् अमरसिंहमुनिं न अवाप्य धन्य मुनि गन्तुम् इच्छु (यदा अभवत्, तदा) इमम् श्रीमन्तम् अमरसिंह मुनिं दृष्ट्वा (धन्य मुनि ) नगोर चलितुम् अमिलत् ।

अर्थ—विहार के मार्ग में ही किसी एक ग्राम में पूज्य मुनि श्री धर्मदासजी के सुशिष्य धन्ना मुनिजी मुनि महाराज की प्रशंसा को सुनते हुए मुनि महाराज के साहचर्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे, किन्तु उस ग्राम में इन श्रीमान् अमरसिंह मुनिजी को न पाकर जाने को तैयार हुए तब उन्होंने इन मुनि महाराज को (देखा), देखकर धन्ना मुनिजी नागोर को चलने के लिए मिले ।

( ३२ )

सर्वे नमन्ति सविधि प्रथमं मुनीनाम् ,  
 आयान्तमेनमिव तं गणगौतमाभम् ।  
 सन्तोऽपि ते सुयशसः कथयन्ति शान्ताः ,  
 माङ्गल्यवाचममुकं प्रथितं महान्तम् ॥

अन्वयः—सर्वे एनम् अपर गणगौतमाभम् इव आयान्त मुनीना प्रथम सविधि नमन्ति । ते सुयशस शान्ताः सन्तः अपि अमुक प्रथित महान्त माङ्गल्यवाच कथयन्ति ।

अर्थ—सभी इनको दूसरे गणघर गौतम की कान्ति वाले के तुल्य आते हुए उन मुनियों के आचार्य को विधि के साथ प्रणाम करते थे । वे प्रसिद्ध शान्त सन्त भी इन प्रख्यात मुनि को महान् मङ्गलवाक् वताते थे ।

( ३३ )

श्रुत्वा परां मुनिवरस्य यश प्रशस्तिम् ,  
 सर्वे प्रशस्तमुनयोऽपि तपोधर ते ।  
 श्रोतु मुनि महितधर्मधराधुरीणम् ,  
 पृच्छन्ति योधपुर-कीर्तिकथा विलोक्य ॥

अन्वयः—सर्वे प्रशस्तमुनय, अपि मुनिवरस्य परा यश. प्रशस्ति श्रुत्वा ते महितधर्मधराधुरीण तपोधर मुनि विलोक्य योधपुर-कीर्तिकथा श्रोतु पृच्छन्ति ।

अर्थ—सब प्रसिद्ध मुनिजन भी आचार्यश्री की बडे यश की विशेषता सुनकर वे पवित्र एव आहत धर्म की भूमि के भारवाही तपस्वी मुनि को देखकर जोधपुर की कीर्ति कथा को सुनने के लिए प्रश्न करने लगे ।

( ३४ )

तस्मादिमे विविधकीर्तिधरा मुनीशाः ,  
 आर्याश्च ताः सहभुजः समभोगवृत्यः ।  
 ख्याताः समेत्य सकला. समसूत्रबद्धा. ,  
 जातास्ततः प्रभृति ते सहभोगभाजः ॥

अन्वयः—इमे विविधकीर्तिधरा मुनीशा सहभुज ता च आर्या. समभोगवृत्य सकला. समसूत्रबद्धा समेत्य तस्मात् ते तत प्रभृति सहभोग-भाज ख्याता जाता ।

अर्थ - ये अनेक प्रशसाओ के धारण करनेवाले सन्त सहभोजी और वे सतियाँ सहभोजी सभी जो समान सूत्र-आगमो से बँधे हुए थे इन मुनि महाराज के साथ मिलकर आहार मे सम्मिलित होकर ही वे उस समय से लेकर आज तक सहभोगी प्रसिद्ध हुए चले आ रहे हैं ।

१—भोगशब्द —जैनमुनिसमाचरणे, आहारार्थक प्रसिद्ध ।



( ३५ )

धन्यो मुनिप्रवरमेत्य मुनिर्महान्तम् ,  
 शास्त्रस्य सारमखिलं प्रतिबुध्य धीरः ।  
 नागोर एव मिलितो गुणिभिः प्रशस्तः ,  
 जातो विशेषमहिमा मुनिसङ्गसेवी ॥

अन्वयः—धीर धन्य. मुनि महान्त मुनिप्रवरम् एत्य शास्त्रस्य अखिल सार प्रतिबुध्य नागोरे एव मिलित गुणिभिः प्रमाणित विशेषमहिमा मुनि-सङ्गसेवी जात ।

अर्थ—उस विहारमार्ग के स्थानविशेष नागोर मे—धीर मुनि श्रीधन्नाजी, जो आचार्य श्रीअमरसिंहमुनि जी के साथ-साथ अगवानी कर नागोर आए थे—क्योंकि ये कारणविशेष से नागोर मे रहते थे, आचार्य श्री की सेवा मे आकर और शास्त्र के सम्पूर्ण तत्त्व को समझकर नागोर मे मिले गुणियो से प्रमाणित रह आचार्यश्री की सङ्गति के सेवक प्रसिद्ध हुए ।

( ३६ )

सौहार्दभावमधिगम्य परस्परं ते ,  
 सर्वे महाशयममुं मुनिमादरन्ति ।  
 सोऽय प्रभालसितमण्डलमध्यमूर्त्तिः ,  
 शोभामिवैति परिवेषगतो हिमाशुः ॥

अन्वयः—ते सर्वे मुनयः सौहार्दभावम् अधिगम्य अमुं महाशयं मुनिं परस्परम् आदरन्ति । आहतं सन् स किमिव शोभते—स प्रसिद्ध आचार्यः अयम् अमरसिंहो मुनिः परिवेषगतः प्रभालसितमण्डलमध्यमूर्त्तिः हिमाशुः इव शोभाम् एति ।

अर्थ—वे सभी मुनिजन सौहार्दभाव अधिगत कर इन महाशय मुनिराज को घेर कर आहत करते, तो वे उस समय ऐसी शोभा धारण करते थे, जैसे कि चाँदनी युक्त मण्डल के बीच में हो विम्ब जिसका, ऐसा परिवेषगत चन्द्रमा जैसे शोभा प्राप्त करता है ।

( ३७ )

नानाप्रदेशपरिधौ गमनं चिकीर्षुं ,  
 साधूनिमानपि सहैव निनीषुरेष . ।  
 सम्प्रेष्य वृत्तमभितो जनवृन्दमेतुम् ,  
 श्रेष्ठं महान् मुनिजनेषु दधाति यत्नम् ॥

अन्वयः—नानाप्रदेशपरिधौ गमनं चिकीर्षुं इमान् साधून् अपि सहैव  
 निनीषु मुनिजनेषु महान् एष आचार्यं अमरसिंह मुनि अभित जनवृन्द  
 एतु वृत्तं सम्प्रेष्य श्रेष्ठं यत्नं दधाति ।

अर्थ—अनेक स्थानों की परिधि में जाने की इच्छा रखकर इन मुनियों को  
 भी साथ ही ले चलने की इच्छावाले ये आचार्य श्रीअमरसिंहमुनि महाराज, सब  
 ओर जनता के पास पहुँचने का समाचार भेजकर, बढिया से बढिया यत्न करने लगे ।

( ३८ )

अन्ते विभिन्नविषयान् प्रविहृत्य देशान् ,  
 श्रेष्ठो मुनिप्रवरवृन्दमहाभिवन्द्य ।  
 हृद्यानवद्यविनतिप्रथितेषु शान्तिम् ,  
 वर्षाधिवासनिचयेषु विरम्य लेभे ॥

अन्वयः—विभिन्नविषयान् देशान् प्रविहृत्य मुनिप्रवरवृन्दमहाभिवन्द्य  
 श्रेष्ठो हृद्यानवद्यविनतिप्रथितेषु वर्षाधिवासनिचयेषु सत्सु अन्ते विरम्य शान्तिं  
 लेभे ।

अर्थ—अनेक समस्याप्रधान देशों का विहार कर मुनिवर वृन्द के द्वारा अति  
 अभिवन्दनीय सबसे प्रशस्त आचार्य श्री जी ने प्रिय एवं पवित्र विनतियों से प्रसिद्ध  
 वर्षावास के समूहों के समाप्त होने पर ही अन्त में विराम लेकर शान्त हुए ।

( ३६ )

अस्य प्रभावमतुलं प्रसमीक्ष्य सन्तः ,  
 सर्वे नमन्ति विमलप्रतिभामहिम्नः ।  
 धर्मस्य रूपमधिकं विहित विमृश्य ,  
 चान्ते महामुनिममुं गणयन्ति पूज्यम् ॥

अन्वयः—विमलप्रतिभामहिम्न अस्य अतुल प्रभाव प्रसमीक्ष्य सर्वे सन्त (न) नमन्ति, अन्ते च (अस्य प्रभावादेव) धर्मस्य रूपम् अधिकं विहित विमृश्य अमु महामुनि पूज्य गणयन्ति ।

अर्थ—विमल प्रतिभा की महिमा के इस मुनिजी के अनुपम प्रभाव को सोच-विचार सभी मुनिजन आपश्री को अभिवन्दन करते हैं । और अन्त में आपश्री के प्रभाव से ही धर्म के रूप को अधिक क्रियान्वित विचारकर उन आचार्यश्री को पूज्य गिनते हैं ।

( ४० )

एतेन तेन मुनिनाऽमरसिहनाम्ना ,  
 ज्योतिर्धरेण सकल कुहरं यतीनाम् ।  
 विस्फोटित विमलकेवलिवोधदीप्तः ,  
 धर्म सनातन इह प्रतिबोधितश्च ॥

अन्वय — तेन एतेन अमरसिहनाम्ना मुनिना ज्योतिर्धरेण यतीना सकल कुहर विस्फोटितम्, इह च विमलकेवलिवोधदीप्त सनातन. धर्म प्रतिबोधित ।

अर्थ—उन इन्ही ज्योतिर्धर श्रीमदाचार्यामरसिहमुनिमहाराज ने सारा यतियो का विल फोट डाला और विमल केवलियो के ज्ञान से दिया हुआ यह सनातन धर्म प्रतिबोधित किया ।

( ४१ )

अन्ते नितान्तविमलो विशदांशुमालः ,  
 चन्द्रो महाविकटमेघघटाविलीनः ।  
 संशोभते परमया कलया विहीनः ,  
 व्योम्नीव देवसदृशो विलय गतोऽसौ ॥

अन्वयः—अन्ते असौ देवसदृश आचार्यः विलय गत (अपि) संशोभते, यथा नितान्तविमल विशदांशुमाल महाविकटमेघघटाविलीनः परमया कलया विहीन चन्द्र इव व्योम्नि विलय गत संशोभते ।

अर्थ—अन्त मे वे देव के समान आचार्यश्री विलीन हुए भी शोभा पा रहे हैं, जैसे पूर्ण स्वच्छ स्पष्टकिरणों से वेष्टित भयङ्करकाले मेघ की घटाओं में छिपा हुआ अधिक कला से हीन चन्द्र आकाश में ही लीन होकर भी शोभा पाता है ।

( ४२ )

अमरसिंहमुनौ रजनीपतौ, विमलकीर्त्तिविभामणिमण्डिते ।  
 कवलिते सति केतुभयङ्करः, जयति कालबलीव निशाचरः ॥

अन्वयः—विमलकीर्त्तिविभामणिमण्डिते अमरसिंहमुनौ रजनीपतौ कवलिते सति कालबली केतुभयङ्कर निशाचर जयति ।

अर्थ—विमल कीर्त्ति की विभारूप मणि से शोभित अमरसिंहमुनि चन्द्रमा के कवलित होने पर कालबली केतु भयङ्कर निशाचर के समान जयी है ।

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
 उपाध्यायपदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
 श्रीमदाचार्यामरसिंह महाकाव्ये  
 दशमः सर्गः

## एकादशः सर्गः

( १ )

इयं तु पट्टावलिरस्ति तस्य, प्रकृष्टरूपोत्कटगन्धपुष्पा ।  
स्रगेव सम्प्रत्यपि कालकृष्ठा, विराजते भारतभूमिभागे ॥

अन्वयः—तस्यैवमहामुने श्रीमतोऽमरसिंहस्य इयं पट्टावलि. तु प्रकृष्ट-  
रूपोत्कटगन्धपुष्पा स्रक् कालकृष्ठा एव भारतभूमिभागे सम्प्रति अपि  
विराजते ।

अर्थ—उन आचार्य श्रीमान् अमरसिंह मुनि महाराज की यह पट्टावलि तो  
प्रकृष्ट रूप के प्रदीप्त गन्ध के पुष्पो की माला समय से खिंची हुई अब तक  
विद्यमान है ।

( २ )

मुनि प्रसिद्धोऽमरसिंहनामा, मरोर्धरायां जिनधर्मवृक्षम् ।  
समूलमारोपयिताऽद्वितीयः, नवार्हताचार्यवरो बभूव ॥

अन्वयः—मरो धराया समूल जिनधर्मवृक्षम् आरोपयिता प्रसिद्ध  
अमरसिंह नामा मुनि अद्वितीय नवार्हताचार्यवर बभूव ।

अर्थ—मारवाड की भूमि में जड के साथ जिनधर्म के वृक्ष को रोपने वाले  
प्रसिद्ध श्री अमरसिंह नाम अनुपम नूतन आर्हताचार्य हुए ।

( ३ )

प्रसुप्तलोकान् सुगमां विलोक्य, सृतिं यथाचारविलुप्तबुद्धीन् ।  
जिनप्रबुद्धादृतसाधुमार्गो, व्यबोधयत्तान् मुनिरेव सत्याम् ॥

अन्वयः—मुनि एव तान् यथाचारविलुप्तबुद्धीन् प्रसुप्तलोकान्  
विलोक्य जिनप्रबुद्धादृतसाधुमार्गो सुगमा सत्या सृतिं व्यबोधयत् ।

अर्थ—श्री मुनि महाराज ने ही जैसा चाहिये ऐसे आचार की विलुप्त हो  
गई है बुद्धि जिनकी ऐसे गाढनिद्रित लोगो को केवल प्रज्ञप्त होने से आदृत, साधु  
मार्ग में सुगम, सच्चा रास्ता बताया ।

० सर्गोऽस्मिन् 'उपेन्द्रवज्रा ज्ती ज् गो ग् ।'

( ४ )

अतोऽस्य संघः परमप्रतिष्ठः मरोर्धरायां प्रथमोऽग्रयायी ।  
ततान श्वेताम्बरजैनधर्मे, सदोरकर्णाश्रितवक्त्रवस्त्रः ॥

अन्वयः—अत अस्य श्वेताम्बरजैनधर्मे मरो धराया प्रथम अग्रयायी परमप्रतिष्ठ सदोरकर्णाश्रित वक्त्रवस्त्र सघ ततान ।

अर्थ—इसलिए आपश्री का, मारवाड की धरती पर श्वेताम्बर जैनधर्म मे पहला अग्रगामी परम आदृत डोरे के साथ कानो के सहारे मुख पर वस्त्र वाला सघ विस्तार प्राप्त कर सका ।

( ५ )

ततः प्रभृत्येव मुनेस्तुनाम्ना, स्वतः प्रसिद्धोऽमरसम्प्रदायः ।  
प्रवर्त्तते सम्प्रतिसोऽप्यतीते, विशेषकाले स्थिति कालबोधा ॥

अन्वयः—मुने नाम्ना स्वतः प्रसिद्ध अमरसम्प्रदायः ततः प्रभृति विशेषकाले अतीते अपि स्थितिकालबोधा सः प्रवर्त्तते एव ।

अर्थ—मुनिश्री जी के शुभनाम से अपने आप प्रसिद्ध हुआ अमर सम्प्रदाय उस समय से आज तक काफी समय बीतने पर भी स्थिति और काल को वहन करता हुआ प्रवृत्त ही है ।

( ६ )

अयं महावीरविभोजिनस्य, अतस्तदैकं दश चेति सख्याम् ।  
सुपञ्चकृत्व पुनरेव संख्याम्, प्रपूर्य पट्टस्य स्वतोऽधिकारी ॥

अन्वयः—जिनस्य महावीरविभो, अत एक च दश चेति सख्या पुनः पञ्चकृत्व प्रपूर्य अर्थात् पञ्च पञ्चाशत पूरणीकृत्य, पञ्चपञ्चाशत्तमस्य पट्टस्य अयम् अधिकारी स्वतः अस्ति ।

अर्थ—प्रभु जिनेश्वर महावीर के पचपनवे पाट के आपश्री गणना-क्रम से अपने आप अधिकारी थे । क्योंकि ११ सख्या को पाँच वार आवृत्ति के साथ पूरण प्रत्ययान्त करने पर पञ्च पञ्चाशत्तम (५५) वन्ता है ।

( ७ )

दिवं प्रयाते मुनिनायकेऽस्मिन् पुनस्तदा श्री तुलसीमुनीशः ।  
अशोभताचार्यपद मुनीनाम्, गते रवौ चन्द्र इवातिशेते ॥

अन्वय — अस्मिन् मुनिनायके दिव प्रयाते सति तदा पुन श्री तुलसी मुनीश मुनीनाम् आचार्यपदम् अशोभत, रवौ गते चन्द्र इव अतिशेते ।

अर्थ—इन आचार्यश्री के स्वर्गारोहण पर तब फिर श्री तुलसीजी महाराज ने मुनियों के आचार्यपद को सुशोभित किया, रवि के अस्त हो जाने पर जैसे चन्द्रमा शोभा पाता है ।

( ८ )

अयं हि मेवाड वसुन्धरायाः, प्रतापसिंहाधिपपालितायाः ।  
गृहे फकीरेन्दुमहाजनस्य, जनिं प्रपेदे जुनियाख्यवासे ॥

अन्वय — अय हि प्रतापसिंहाभिद्य पालितायाः मेवाडवसुन्धरायाः जुनियाख्यवासे फकीरेन्दु महाजनस्य गृहे जनिं प्रपेदे ।

अर्थ—ये श्री तुलसीमुनि महाराज महाराणा प्रतापसिंहजी राजा के द्वारा सरक्षित मेवाड-भूमि के ग्राम जुनियां मे महाजन श्री फकीरचन्द्रजी के घर मे उत्पन्न हुए थे ।

( ९ )

विवाहित सन्नपि रागरीतिम् विहाय वव्रे परमां विरक्तिम् ।  
अतोऽयमन्ते मुनिदेवसिंहात्, अवाप्य दीक्षां महिमानमाप ॥

अन्वयः—विवाहित सन् अपि अय रागरीतिं विहाय परमा विरक्तिं वव्रे । अत अन्ते मुनिदेवसिंहात् दीक्षाम् अवाप्य महिमानम् आप ।

अर्थ—विवाहित होते हुए भी आपने राग-रति को छोड़ परम विरक्ति को स्वीकार किया था । अत आचार्य श्रीमान् अमरसिंह मुनि महाराज से दीक्षा ग्रहण कर महत्व प्राप्त किया ।

( १० )

महोत्तमं देवसमं गुणीशम्, मुनिं सदावन्दितपादपद्मम् ।  
महोपकारी गुरुदेवसिंहः, तदैनमाचार्ययुवानमाह ॥

अन्वयः—तदा महोपकारी गुरुदेवसिंह महोत्तम सदावन्दितपादपद्म देवसम गुणीश मुनि (श्रीतुलसीम्) एनम् आचार्ययुवानम् आह ।

अर्थ—उस समय परम उपकारी गुरुदेवसिंह श्रीअमरहिंसजी महाराज ने परम उत्तम सदागुरुमक्ति मे लीन रहने वाले देवतुल्य मर्वथा योग्य मुनि श्रीतुलसीजी को युवाचार्य बना दिया ।

( ११ )

अतोऽयमग्रे निपुणोऽधिकर्त्ता, बभूव भव्येऽमरसम्प्रदाये ।  
प्रभावमस्याधिकमेव मत्त्वा, नमन्ति सर्वे मुनयो मुनीशम् ॥

अन्वयः—अतः अग्रे अयं निपुण अधिकर्त्ता भव्ये अमरसम्प्रदाये बभूव । अस्य अधिक प्रभाव मत्त्वा एव सर्वे मुनयः मुनीश (श्रीतुलसीमहाराज) नमन्ति ।

अर्थ—इसलिए आगे चलकर ये निपुण अधिकारी, भव्य अमरसम्प्रदाय मे सिद्ध हुए । इनके अधिक प्रभाव को मानकर सभी मुनिजन (श्रद्धा से) झुक जाते थे ।

( १२ )

अयं प्रसिद्धस्तुलसीमुनीशः, विभिन्नदेशेषु विहृत्य धर्मम् ।  
विबोध्य जैन विततायुरन्ते, विभुज्य सस्तारपद विरेमे ॥

अन्वयः—अयं प्रसिद्ध तुलसीमुनीश विभिन्नदेशेषु विहृत्य जैन धर्म विबोध्य अन्ते विततायुः सन् सस्तारपद विभुज्य विरेमे ।

अर्थ—ये प्रख्यात श्रीतुलसीजी आचार्य विभिन्न स्थानों पर विहार कर जैन धर्म को समझाकर अन्त मे लम्बे आयुष्य होने पर सथारा पचख कर विराम प्राप्त किया ।



( १३ )

तदाऽस्य शिष्यो विनयोन्नतोऽसौ, कृताधिशान्तिर्यमिना वरिष्ठः ।  
सुजानमल्लो विदुषां विशिष्ट, जातस्तृतीयोऽमरपट्टधारी ॥

अन्वय — तदा अस्य असौ विनयोन्नत, कृताधिशान्ति, यमिना वरिष्ठ, विदुषा विशिष्ट., शिष्य सुजानमल्ल तृतीयः अमरपट्टधारी जातः

अर्थ—श्रीतुलसीमुनि महाराज के काल कर जाने पर उम समय इनके वे परम विनयी, शान्त, परमजितेन्द्रिय, विशिष्टविद्वान शिष्य श्रीसुजानमलमुनिजी महाराज तृतीय अमरपट्टधारी आचार्य हुए ।

( १४ )

ततस्तदाचार्य इवातिशोभी, गुरुर्वभूवामरसम्प्रदाये ।  
मुनिव्रजे शीर्षमणिर्यथायम्, व्यराजत ख्यातिधरे यशस्वी ॥

अन्वयः—ततः अमरसम्प्रदाये आचार्य अतिशोभी गुरु इव वभूव । अय ख्यातिधरे मुनिव्रजे यशस्वी शीर्षमणि यथा राजते, तथा व्यराजत ।

अर्थ—तदनन्तर अमरसम्प्रदाय मे ये आचार्य श्रीसुजानमलमुनिजी महाराज अतिशोभाघरी बृहस्पति के समान हुए । ये परमयशस्वी मुनियो के समुदाय मे चमकती शिरोमणि जैसे शोभा पाती है, उसी प्रकार आपश्री शोभा पाते थे ।

( १५ )

जनिं नगर्यां सरवाडनाम्न्याम्, सुपत्तनस्याजयमेरुनाम्नः ।  
गतोऽस्ति भण्डारिण एव नाम्नः, सियाजुजानेर्विजयादिचन्द्रात् ॥

अन्वय — (अय) सियाजुजाने विजयादिचन्द्रात् भण्डारिण. नाम्न. सुपत्तनस्य अजयमेरुनाम्न सरवाडनाम्न्याम् नगर्यां जनि गत अस्ति ।

अर्थ — आपश्री सियाजुनाम की पत्नी वाले श्री विजयचन्द्रजी भण्डारी से, जिला अजमेर की सरवाड़ नगरी मे, उत्पन्न हुए थे ।

( १६ )

अयं जगाम श्रमणाधिराजः, समण्डलं केवलमेव देशान् ।  
विकासशून्यान् गृहविप्रकृष्टान्, विशालमालव्यभुवो मरोश्च ॥

अन्वय—अयं समण्डल. श्रमणाधिराज. केवलं मरो विशालमालव्य-  
भुव विकास शून्यान् गृहविप्रकृष्टान् देशान् एव जगाम ।

अर्थ—ये मण्डल के साथ आचार्यश्री केवल मरुभूमि के और विशाल मालव्य  
की भूमि के अविकसित दूर-दूर घरवाले स्थानों को गए थे ।

( १७ )

अतस्ततस्तया मनुजाः समस्ता, गतेऽपि कालेऽप्यधुना च नाम्ना ।  
सुजानमल्लं मुनिमण्डलेशम्, सदैवमन्तं करणे स्मरन्ति ॥

अन्वय—अत ततस्तया समस्ता मनुष्या काले गतेऽपि मुनिमण्ड-  
लेश सुजानमल्लं सदा नाम्ना एवम् अन्तं करणे अधुना अपि स्मरन्ति ।

अर्थ—इसलिए वहाँ के निवासी सभी मनुष्य समय बीतने पर भी आचार्य  
श्रीमुनिसुजानमलजी महाराज को नाम से सदा उसी प्रकार हृदय में अब भी स्मरण  
करते चले आ रहे हैं ।

( १८ )

महोपकर्ताममुं मुनीशम्, न केवलं जैनजनाः स्मरन्ति ।  
तथा हि चान्ये सकला मनुष्या, सुजानमल्लं तमपि स्मरन्ति ॥

अन्वयः—न केवलं जैनजना हि अमुं महोपकर्तारं मुनीशं सुजानमल्लं  
स्मरन्ति, अन्ये च सकला मनुष्या तथा स्मरन्ति ।

अर्थ—न केवलं जैनजन ही उन महोपकारी आचार्य श्रीसुजानमलजी महाराज  
को दूसरे सभी मनुष्य उसी प्रकार स्मरण करते रहे हैं ।

( १९ )

अय मुनीशोऽमरपट्टधारी, सुजानमल्लोऽपि तथैवमन्ते ।  
विशेषसंस्तारपद विभुज्य, गत सहर्ष स्वमुनीन् विहाय ॥

अन्वय —अयम् अमरपट्टधारी मुनीश सुजानमल्ल अपि अन्ते तथा  
एव विशेषसंस्तारपद विभुज्य स्वमुनीन् विहाय सहर्ष गत ।

अर्थ—ये अमरपट्टधारी आचार्य श्रीसुजानमलजी महाराज भी उसी प्रकार  
अन्त मे प्रशस्त सत्कारा प्राप्तकर अपने मुनियो को छोड़ सहर्ष चले गए ।

( २० )

सुजानमल्ले मुनिसंघपूज्ये, दिवं प्रयातेऽमरपट्टधारी ।  
वभूव तस्यैव मुनेश्च शिष्यः, चतुर्थ आचार्यवर जितेशः ॥

अन्वय — मुनिसंघपूज्ये सुजानमल्ले दिव प्रयाते सति तस्य च मुने  
एव शिष्य जितेश अमरपट्टधारी चतुर्थ आचार्यवर वभूव ।

अर्थ—आचार्य श्रीसुजानमलजी महाराज के स्वर्गारोहण होने पर उन मुनि-  
महाराज के ही शिष्य श्रीजीतमलजी मुनिराज अमरपट्टधारी चतुर्थ आचार्य हुए ।

( २१ )

अय विशिष्टो विविधक्रियासु, कलाधरोऽभूज्जितमल्लदेवः ।  
महाचमत्कारपरासु स्रष्टा, सुलेखनासु प्रथितो मुनीशः ॥

अन्वय —अय विविधक्रियासु विशिष्ट कलाधर महाचमत्कारपरासु  
सुलेखनासु प्रथितः स्रष्टा मुनीश जितमल्लदेव अभूत् ।

अर्थ—ये विविधक्रियाओ मे विशिष्ट कलाधर अत्युत्कृष्ट सुन्दर लेखनाओ मे  
यशस्वी स्रष्टा आचार्य श्री जीतमलमुनि महाराज हुए ।

( २२ )

अथास्य वैशिष्ट्यमशक्नुवन्तः, जना नरेशं गमयन्ति सन्तम् ।  
अतो नरेशोऽपि मरोर्धरायाः, परीक्षितु त समुपागमत् सः ॥

अन्वयः—अथ जना अस्य वैशिष्ट्यम् अशक्नुवन्त नरेश सन्तम् गम-  
यन्ति । अत मरो धराया स नरेशः अपि त परीक्षितु समुपागमत् ।

अर्थ—तदनन्तर मनुष्यो ने इनके वैशिष्ट्य को सहन न करते हुए राजा को  
सन्तश्री के पास पहुँचा दिया । इस प्रेरणा के कारण वह मारवाड की भूमि का  
राजा भी उनकी परीक्षा करने के लिए आया था ।

( २३ )

जैनानिमान् प्रहसितुं कपटोद्भवं तत् ,  
राजानमित्यपि पुनर्जलविन्दुवृत्तम् ।  
जीवा भवन्ति शतशो निशितेषुपृक्ते ,  
विन्दौ वदन्ति मुनय पिशुना ब्रुवन्ति ॥

अन्वयः—इमान् जैनान् प्रहसितु पिशुनाः 'मुनय वदन्ति, यत् निशि-  
तेषु पृक्ते विन्दौ शतश जीवा भवन्ति' तत्जलविन्दुवृत्त कपटोद्भवम् इति  
राजान ब्रुवन्ति ।

अर्थ—इन जैनजन की हँसी उड़ाने के लिए चुगलखोर—'ये मुनिजन कहते हैं  
कि तीखे वाण के अग्र भाग पर लगी हुई एक बूँद में शतश जीव होते हैं—वह जल-  
विन्दु वृत्त कपट से उत्पन्न हैं'—ऐसा राजा को कहने लगे ।

( २४ )

उक्तं सविस्मयमिदं सहसा निशम्य ,  
 ज्ञातु किमस्ति किमुवा मुनयो वदन्ति ।  
 इत्थ विचार्यं च पुनर्मुनिमेव गत्वा ,  
 पृच्छेयमेवमिति तत्स्वयमागतोऽहम् ॥

अन्वयः—राजा कथयति—यत् इदम् उक्तं सविस्मय निशम्य किम् अस्ति ? किमु वा मुनय वदन्ति ? पुन च गत्वा मुनिम् एव तत् एव पृच्छेयम् इति इत्थ विचार्यं अह ज्ञातु सहसा स्वयम् आगत. (अस्मि) ।

अर्थ—राजा कहता है कि इस कहे गये को सुनकर कि क्या है ? क्या मुनि-जन कहते हैं ? और फिर जाकर मुनिमहाराज से ही वह ऐसा पूछ लूं, ऐसा इस प्रकार सोचकर मैं जानने के लिए एक साथ स्वय आया हूँ ।

( २५ )

राज्ञस्तदोच्चरितमेवमिमं निशम्य ,  
 प्रश्नं मुनि. स्वयमयं वदतीति तथ्यम् ।  
 जीवा भवन्ति शतश पुनरेकविन्दौ ,  
 वारो भवन्तमपि सत्यमिदं ब्रवीमि ॥

अन्वय.—तदा एव राज्ञ इमम् उच्चरित प्रश्न निशम्य अय स्वय मुनि. वदति, यत् वार एकविन्दौ शतश जीवा भवन्ति इति तथ्यम् (अस्ति) पुन अहम् अपि इद सत्यम् इति भवन्त ब्रवीमि ।

अर्थ—उम समय इस प्रकार राजा के इस उक्त प्रश्न को सुनकर ये स्वय मुनिश्री कहने लगे कि पानी की एक बूंद में सैकड़ों जीव होते हैं, यह तथ्य है । फिर मैं भी यह मत्वृहै, ऐसा आपको बताता हूँ ।

( २६ )

सत्य तथाप्यवनिप ! स्वयमेवमेव ,  
चित्रे विलिख्य करिण परिदर्शयामि ।  
तस्मादिम भवत एव तु संशय तम् ,  
शक्तो भवेयमहमित्यपि दूरमेतुम् ॥

अन्वयः—एव सत्यम् (अस्ति) । तथापि हे अवनिप ! स्वयम् अहम् एव (एकस्मिन्) चित्रे करिण निलिख्य (भवन्त) परिदर्शयामि । तस्मात् भवत तु इम त संशयम् अपि अह दूरम् एतु शक्त इति भवेयम् ।

अर्थ—यद्यपि इस प्रकार सत्य है, तथापि राजन् ! स्वय मैं ही एक चित्र मे हाथियो को चित्रित कर आपको दिखलाता हूँ । जिससे आपके तो इसी सन्देह को भी मैं दूर करने के लिए समर्थ हो ही सकूंगा ।

( २७ )

चित्रं विलिख्य करिणां मुनिरेव विन्दौ ,  
राजानमाह पुनरेवमिमे समेते ।  
जीवा. स्थिता अपि तु सूक्ष्मशरीरहेतोः ,  
विन्दौ स्थितानपि वय विषयान् न कुर्म ॥

अन्वय —(अय) मुनि. एव विन्दौ करिणा चित्र विलिख्य राजानम् आह—यत् इमे समे (करिण ) (सन्ति) किन्तु सूक्ष्मशरीरहेतो वय (इमान् करिण न पश्याम ), एव पुन जीवा स्थिता अपि (सन्ति), किन्तु सूक्ष्म-शरीरहेतो विन्दौ स्थितान् जीवान् अपि वय (चक्षुप.) विषयान् न कुर्म अर्थात् तान् न पश्याम ।

अर्थ—इन मुनिजी ने विन्दु मे हाथियो के चित्र बनाकर राजा से कहा कि ये सब हाथी हैं, किन्तु सूक्ष्मकाय के कारण से हम इन हाथियो को नही देख पाते, इसी प्रकार फिर विन्दु मे रहे हुए जीवो को भी हम आँख का विषय नही कर पाते, अर्थात् उन जीवो को देख नही पाते ।

( २८ )

आश्चर्यमेवमपहाय धराधिपोऽयम् ,  
 वक्तुं कठोरवचनानि जनान् प्रवृत्तः ।  
 तत्र स्थितो मुनिरय क्षमते जनांस्तान् ,  
 राजानमप्यविनयं क्षमितुं प्रयुङ्क्ते ॥

अन्वयः—अय धराधिप. एवम् आश्चर्यम् अपहाय जनान् कठोर-  
 वचनानि वक्तु प्रवृत्त , तत्र अय स्थित. मुनि. तान् जनान् क्षमते राजानम्  
 अपि अविनय क्षमितु प्रयुङ्क्ते ।

अर्थ—इन जोधपुर-नरेश ने इस प्रकार अपने आश्चर्य को दूरकर मनुष्यों  
 को फटकारना शुरू किया तो वहाँ पर इन विराजित मुनिश्री ने उन मनुष्यों को  
 क्षमा किया और जोधपुर-नरेश को भी उनके अविनय को क्षमा कर देने के लिए  
 अपने मामर्थ्य का प्रयोग किया ।

( २९ )

सुजानमल्लस्य गुरोरपीदम्, यशो मुनीशस्य प्रसारयन्त्य. ।  
 मुनिर्विशिष्टार्जित चित्रविद्य , जात. प्रसिद्धोऽधिमरुप्रदेशम् ॥

अन्वय.—मुनीशस्य सुजानमल्लस्य गुरो अपि इद यश प्रसारयन्  
 अय विशिष्टार्जित चित्रविद्य प्रसिद्ध अधिमरुप्रदेश जात. ।

अर्थ—आचार्य श्रीसुजानमलजी गुरुदेव के भी इस यश को फैलाते हुए ये  
 प्रमुख प्राप्त चित्र विद्यावाले श्रीजीतमलजी महाराज मरुघर देश में प्रसिद्ध हुए ।

( ३० )

सुजानमल्लात् सुपितुः सुपुत्रः, सुमातरि जातसुभद्रिकायाम् ।  
 मरौ प्रसिद्धो जितमल्लदेव , वभूव चित्रेश मुनीश्वरोऽयम् ॥

अन्वय —अय मरौ प्रसिद्ध चित्रेशमुनीश्वर जितमल्लदेव. सुजान-  
 मल्लात् सुपितु. जातसुभद्रिकाया सुमातरि सुपुत्र. वभूव ।

अर्थ—ये मारवाड में चित्र ज्ञानी आचार्य श्री जीतमलजी महाराज सुपिता  
 श्रीसुजानमलजी साहब से जानी-मानी श्रीमती सुमद्रादेवीजी की गोद में सुपुत्र हुए ।

( ३१ )

न कोऽपि शक्तोऽस्ति जगद् विजेतुम्, तथापि सन्तं जयिन वदाम् ।  
न हेतुरन्यो जगति प्रशस्तेः, वयं गुणाना गणनां भजामः ॥

अन्वय—क अपि जगत् विजेतु शक्त न अस्ति, तथापि (वयम्) इम सन्त (जगत ) जयिन वदाम । जगति प्रशस्ते हेतु अन्य (कोऽपि) न अस्ति गुणात् ऋते । (अत ) वय गुणाना गणना भजाम ।

अर्थ—कोई भी जगत् को जीतने के लिए समर्थ नहीं हैं, तो भी हम इन मुनि महाराज को विजयी कहते हैं । इसका कारण जगत् मे प्रशसा के अतिरिक्त कोई दूसरा हेतु नहीं हैं । इससे हम गुणो की गणना करते हैं, अर्थात् जो गुणी हैं, वह जयी है, विजेता है ।

( ३२ )

अतो महान्त गुणिन जयन्तम्, गणं गुणानां गणनीयगुण्यम् ।  
श्रयामहे त जितमल्लदेवम्, जितेन्द्रियं ज्ञाननिधि मुनीशम् ॥

अन्वयः—अत वय त गुणाना गणनीयगुण्य गण जयन्त जितेन्द्रिय-ज्ञाननिधि महान्त गुणिन मुनीश जितमल्लदेव श्रयामहे ।

अर्थ—इन सब कारणो से हम उन गुणो के गणना करने योग्य गुणो से युक्त, मुनियो के ज्ञान के कोप, महान् गुणी आचार्य श्री जीतमलजी महाराज को आश्रय मानते हैं, भजते हैं ।

( ३३ )

दिव गते श्रीजितमल्लदेवे, विशेषशोभाधरपण्डितेऽस्मिन् ।  
ततोऽस्य शिष्यो मुनिशेखरोऽसौ, विशिष्टगीज्ञानमलो बभूव ॥

अन्वय —अस्मिन् विशेष शोभाधरपण्डिते श्रीजितमल्लदेवे दिव गते सति तत अस्य असौ विष्टिगी शिष्य ज्ञानमल मुनिशेखर बभूव ।

अर्थ—इन कलाधरो मे कुशल श्री जीतमलजी महाराज के काल पूरा करने पर उनके पीछे आपके वे प्रभावीवक्ता शिष्य श्री ज्ञानमलजी मुनि आचार्य हुए ।



( ३४ )

गुणाग्रणीर्धीरमुनिप्रवीण , सतां विशिष्टोऽपि सुवागधीरः ।  
अयं गभीरोऽमरपट्टधारी, विराजतेऽद्यापि यशश्शरीरः ॥

अन्वयः—अय सता विशिष्ट सन् अपि सुवाक्, अधीर सन् धीरमुनि प्रवीण गुणाग्रणी सन् गभीर यशश्शरीर सन् अमरपट्टधारी अद्य अपि विराजते ।

अर्थ—ये सन्तश्रेष्ठ शुभ वचन बोलते थे, अधीर होते हुए भी धीरमुनियो मे प्रवीण थे, गुणो के प्रमुख होते हुए भी गभीर थे, यश के शरीर वाले होकर भी अमरपट्टधारी बन आज भी विराजमान हैं ।

( ३५ )

अयं सुपुत्रोऽभवदग्रगण्यः, शुभैपिणोः पूतयशः सुपित्रो ।  
सुमान जोरावरमल्लनाम्नो, सुसेतरावाँस्थ-गुलेच्छशस्त्यो ॥

अन्वयः—अयं सुसेतरावाँस्थ-गुलेच्छशस्त्यो शुभैपिणो पूतयश सुपित्रो. सुमानजोरावरमल्ल नाम्नो अग्रगण्य सुपुत्र अभवत् ।

अर्थ—ये सुन्दर सेतरावाँ (मारवाड) के गुलेच्छकुल के शुभेच्छु पवित्र कीर्ति वाले अच्छे माता-पिता शोभन मानदेवी और जोरावरमल्ल नामवालो के अग्र-गण्य सुपुत्र थे ।

( ३६ )

सुलक्षणाया प्रयशास्तु गर्भे, यदास्थितः श्रीमति मानदेव्याः ।  
अय च जोरावरमल्लपित्रा, प्रमाणितः स्वप्नसुखेन मातु ॥

अन्वयः—यदा च अय सुलक्षणाया मानदेव्या श्रीमते गर्भे स्थित, तदा मातु स्वप्नसुखेन जोरावरमल्लपित्रा तु प्रयशा प्रमाणित (कृत) ।

अर्थ—और जब आपथ्री सुलक्षणा श्री मानदेवी के पवित्र गर्भ मे स्थित हुए तभी माता के स्वप्न के सुख को देखकर श्री जोरावरमल्लजी पिता ने तो अत्यन्त यशस्वी बालक होगा, यह प्रमाणित कर दिया था ।

( ३७ )

विचारका मातुरिहैवमित्थम्, वदन्ति यस्मिन्समये महात्मा ।  
सुगर्भमागत्य विराजतेऽसौ, सदा मुख वद्धंत एव शृणुमः ॥

अन्वय —इह विचारका (जना ) इत्थ वदन्ति, यस्मिन् समये असौ महान् आत्मा मातु सुगर्भम् आगत्य विराजते, तदा सुखम् एव वद्धंते, एवम् (वय) शृणुम ।

अर्थ—यहाँ विचारवान् मनुष्य इस प्रकार बताते हैं, कि जिस समय माता के पवित्र गर्भ मे पहुँचकर वह महान् आत्मा विराजित होती है, तब सुख ही सुख बढ़ता है । ऐसा हम सुनते हैं ।

( ३८ )

अतो वयं न्यायमुखेन विद्मः, यदा शुभ जन्म धृत भवेत् स ।  
अवश्यमेव सुखमागत स्यात्, यतः समे ते सुखभोगिनः स्युः ॥

अन्वय —यदा स शुभ जन्म धृत भवेत्, तदा एव सुखम् आगत स्यात्, यत ते समे सुखभोगिनः स्युः । अत (एतत्सर्वं) वय उक्तेन न्यायमुखेन विद्म ।

अर्थ—जब उन्होने शुभ जन्म धारण किया हो, तो अवश्य ऐसा आनन्द आया होगा, जिससे वे सब आनन्दित हुए हो । इसलिए यह सब हम उक्त न्याय द्वारा समझ सकते हैं ।

( ३९ )

प्रमीयतेऽनेन सुखेन दुःखम्, यदा पितृभ्यामिह दुःखमूढम् ।  
भवेदिदं यूनि गते विरक्तिम्, कथं तदेतन् न हि तर्कयेम ॥

अन्वय —विरक्ति गते यूनि सति इह पितृभ्या दुःखम् ऊढ तत् इदं दुःख सुखेन अनेन प्रमीयते, किन्तु तत् कथं भवेत् इति वक्तु न शक्नुम इत्येव केवल न हि, अपितु (वय) न तर्कयेम ।

अर्थ—युवा पुत्र के विरक्त होने पर माता-पिता ने दुःख उठाया, वह दुःख इस सुख से समझा जा सकता है । किन्तु वह कैसा होगा, यह कहा नहीं जा सकता । यह केवल इतना ही नहीं, अपितु हम उस दुःख को अनुमान से भी नहीं जान सकते ।

( ४० )

तथापि दीक्षानुमतिं ददाते, सुताय तौ यौ पितरौ विमुग्धौ ।  
कथं भवेद् दाढ्यमहं विरक्ते, सुतस्य तन् नानुमितिं दधामि ॥

अन्वयः—तथापि तौ पितरौ सुताय दीक्षानुमतिं ददाते, यौ पितरौ विमुग्धौ भवेताम् । तस्य सुतस्य विरक्ते दाढ्यं कथं भवेत् । तत् अहं तु अनुमितिं न दधामि ।

अर्थ—तो भी वे माता-पिता दीक्षा की अनुमति दे देते हैं, जो माता-पिता पूर्ण मुग्ध हो । उस पुत्र की विरक्ति की कौसी दृढता होगी, उसका मैं तो अनुमान भी नहीं लगा सकता ।

( ४१ )

क्रमेण वैशिष्ट्यमुपेत्य यामे, गुरुः पुनः पञ्चमपट्टधारी ।  
यतोऽमरेन्द्रस्य मुनेः सभायाम्, स्तुतिं दधन्मृत्युमवाप्य नाकम् ॥

अन्वय — (पुन ) अयं क्रमेण मुनेः अमरेन्द्रस्य पञ्चमपट्टधारी गुरुः श्रीज्ञानमल्ल सयमे वैशिष्ट्यम् उपेत्य सभायां स्तुतिं दधत् मृत्युम् अवाप्य नाकं गतः ।

अर्थ—फिर ये क्रम से मुनि अमरेन्द्र के पञ्चम पाट के धारक आचार्यश्री ज्ञानमल्लजी महाराज सयम के विषय में गौरव धारण कर भक्तों की सभा में उपदेशार्थ पाट पर विराजे हुए भक्तामरादिस्तोत्र पढते हुए मृत्यु प्राप्तकर स्वर्गाधिकारी हुए ।

( ४२ )

गुरुः प्रयाते दिवमेष पृष्ठः, प्रशस्तसंस्तारमये स्तुतान्ते ।  
कृते मुनौ ज्ञानमलेऽमरस्य, स्थितो हि पट्टे मुनिपूर्णमेशः ॥

अन्वयः—प्रशस्तसंस्तारमये स्तुतान्ते कृते सति ज्ञानमले मुनौ दिवः प्रयाते अमरस्य पट्टे पृष्ठः गुरुः हि एष मुनिपूर्णमेशः स्थितः (अभवत्) ।

अर्थ—प्रशस्तसंस्तार युक्त स्तुति करते-करते अन्त हो ऐसे संस्तार के किए जाने पर श्रीज्ञानमल्लजी मुनि महाराज के स्वर्गारोहण के पीछे मुनिश्री अमरसिंहजी महाराज के पाट पर छठे आचार्य ये ही मुनि श्रीपूनमचन्द्रजी महाराज स्थित हुए ।

( ४३ )

अय मुनि पूर्णिमचन्द्रनामा बभूव देवेन्द्र इव प्रशस्त ।  
महायशा पूर्णिमचन्द्र एवम्, विराजते साधुविहायसीन ॥

अन्वयः—अयम् ईन पूर्णिमचन्द्रनामा मुनि देवेन्द्र इव प्रशस्त बभूव । महायशा सन् एव पूर्णिमचन्द्र साधुविहायसि विराजते ।

अर्थ—ये समर्थ श्री पूनमचन्द्रजी नाम के मुनि इन्द्र के समान प्रशसनीय थे । महायश वाले होने से साक्षात् पूर्णिमा के चन्द्र बन मुनियो के आकाश मे सोहते थे ।

( ४४ )

अयं तु जालोर पदाधिवासि—, प्रसिद्धगान्धीकुलजान्महार्यात् ।  
जनि गतोऽभूदुमजीपितु सः, सुशील-फूलाँजननीशुभाङ्के ॥

अन्वयः—अय स जालोरपदाधिवासि प्रसिद्ध गान्धी कुलजात् महार्यात् उमजीपितु सुशील फूलाँजननी शुभाङ्के जनि गत अभूत् ।

अर्थ—ये ही जालोर स्थान के रहने वाले प्रसिद्ध गान्धी वंश के महाजन श्रीउमजी नाम के पिता से सुशील फूलाँ नाम की माता की पावन गोद मे उत्पन्न हुए थे ।

( ४५ )

अनेक देशेषु विशेषदृष्टिम्, स्वयं समाधाय ततः प्रतस्थे ।  
विहृत्य धर्मस्य विविच्य रूपम्, मुनीश इद्वेषु जनान् प्रवक्तुम् ॥

अन्वयः—तत स्वय विशेषदृष्टि समाधाय धर्मस्य रूप विविच्य (अय) मुनीश इद्वेषु अनेकदेशेषु विहृत्य जनान् प्रवक्तु प्रतस्थे ।

अर्थ—तदनन्तर स्वय विशेष दृष्टि को समाहित कर धर्म का विवेचन कर ये आचार्य श्रीपूनमचन्द्रजी महाराज सम्पन्न अनेक स्थानो मे विहार कर श्रावको को प्रवचन देने के लिए एक स्थान से दूर स्थान पर पहुँचे ।

( ४६ )

जना समेतं विबुधेशतुल्यम्, महान्तमाचार्यमगाध धैर्यम् ।  
महोपकर्त्तारमिवादिनाथम्, नमन्ति सत्कृत्य दिवोकसस्ते ॥

अन्वयः—ते जना विबुधेशतुल्य अगाधधैर्यं महान्तम् आचार्यम्,  
समेत महोपकर्त्तारम् आदिनाथ दिवोकस इव सत्कृत्य नमन्ति ।

अर्थ—वे श्रावक इन्द्र तुल्य अगाधधैर्यशाली महान् आचार्य को, आते हुए  
महोपकारी भगवान् आदिनाथ को देवता जैसे सत्कार कर अभिवन्दन करते हैं, वैसे  
ही सत्कार कर प्रणाम करते थे ।

( ४७ )

तत. प्रयाते दिवमेव तस्मिन्, मुनीश्वरे पूर्णिमचन्द्रदेवे ।  
विशिष्टशिष्यो मुनिजेठमल्ल बभूव तत्पट्टपदाधिकारी ॥

अन्वयः—तत तस्मिन् मुनीश्वरे पूर्णिमचन्द्र देवे दिव प्रयाते सति  
तत्पट्टपदाधिकारी विशिष्टशिष्य मुनिजेठमल्ल एव बभूव ।

अर्थ—तत्पश्चात् उन आचार्य श्री पूनमचन्द्रजी महाराज के स्वर्गारोहण पर  
उनके पाट के अधिकारी प्रमुख शिष्य श्रीजेठमल्लजी मुनि महाराज हुए ।

( ४८ )

यतोऽस्य शिष्याः परमा विशिष्टा, गुणोत्तरा पञ्च बभूवुरत्र ।  
तथापि पञ्चस्वयमेव वृद्ध, बभूव पट्टस्य ततोऽधिकर्त्ता ॥

अन्वयः—यत अस्य परमाः विशिष्टा गुणोत्तरा पञ्च शिष्या  
बभूवु । तथापि अत्र पञ्चसु अयम् एव वृद्ध, तत पट्टस्य अधिकर्त्ता अय-  
मेव बभूव ।

अर्थ—क्योंकि इन श्री पूनमचन्द्रजी आचार्यश्री के बड़े होनहार पाँच शिष्य  
थे, तो भी इन पाँचों में वृद्ध श्रीजेठमल्लजी मुनि महाराज ही थे, इससे इनको ही  
पाट का अधिकारी बनाया गया ।

( ४६ )

गुणाग्रणी सिद्धिपदोन्नतश्री , स्वतोविशिष्टोऽमरसम्प्रदाये ।  
महामुनिः सोऽयमलकृत श्री , विराजते भक्तगणस्य मौली ॥

अन्वय —स अय गुणाग्रणी , सिद्धिपदोन्नतश्री , अमरसम्प्रदाये स्वत  
विशिष्ट , अलकृतश्री , महामुनि भक्तगणस्य मौली विराजते ।

अर्थ—वे ही गुणविशिष्ट सिद्धि के स्थान की शोभा बढ़ाने वाले मुनि  
श्रीअमरसिंहजी महाराज के सम्प्रदाय मे स्वय प्रमुख शोभा की भी शोभावाले ये  
आचार्य श्रीजेठमलजी मुनिराज श्रावक समुदाय के मस्तक पर शोभित हैं ।

( ५० )

कथा अनेका परमा विचित्रा , मुने प्रशस्तस्य तु जीवनस्य ।  
प्रचर्चिताः सन्ति तथापि तासाम्, परा कथा मृत्युदिनस्य तस्य ॥

अन्वयः—मुने प्रशस्तस्य जीवनस्य तु परमाः विचित्रा अनेका कथा  
प्रचर्चिता सन्ति, तथापि तासा (कथाना) तस्य मृत्युदिनस्य कथा परा  
(विद्यते) ।

अर्थ—आत्मार्थी श्रीजेठमलजी मुनि के प्रशस्त जीवन की तो बड़ी अनोखी  
कथाएँ अथवा कहानियाँ काफी चर्चाओ का कारण बनी हुई है, तो भी उन कहानियो  
मे से मृत्यु के दिन की कहानी बड़ी अनोखी है ।

( ५१ )

स्वघोषिते मृत्युदिने समस्ताः, जना समायान्ति दिदृक्षवस्ते ।  
प्रतीक्षमाणा वचसो विशेषम्, निरीक्ष्य तेऽन्ते स्मयमेव जग्मु ॥

अन्वयः—ते दिदृक्षव समस्ता जना स्वघोषिते मृत्युदिने वचस  
विशेष प्रतीक्षमाणा (आसन्) । अन्ते ते वचस विशेष निरीक्ष्य स्मयम् एव  
जग्मु ।

अर्थ—वे सभी दिदृक्षु मनुष्य स्वघोषित मृत्यु के दिन के विषय मे बात की  
सचाई की प्रतीक्षा करते हुए थे, अन्त मे वे बात की सचाई देखकर आश्चर्य चकित  
हो गए ।

( ५२ )

यत स्वय तेन दिनत्रयस्य, शुभस्य संस्तारमिमं विहर्तुम् ।  
प्रभाषितं ज्येष्ठमलेन लब्धम्, भविष्यत श्रेष्ठफलं यथोक्तम् ॥

अन्वय—यत तेन ज्येष्ठमलेन शुभस्य दिनत्रयस्य इम संस्तार विहर्तुं स्वय प्रभाषितम् (आसीत्) । (पुन) तेनैव भविष्यत यथोक्त श्रेष्ठफल लब्धम् ।

अर्थ—क्योकि उन आत्मार्थी श्रीजेठमलजी मुनि महाराज ने स्वय कहा था कि मैं तीन दिन का सयारा करने के लिए हूँ । फिर जैसा भी उन्होंने कहा था, वैसा ही भविष्य का श्रेष्ठफल उन्होंने पाया ।

( ५३ )

अतो जनास्ते धृतसाक्ष्यभावाः, परस्पर यान्ति विवक्षवोऽमी ।  
अहो यथोक्त चरित सदास्य, न याति मिथ्यावचनं मुनीनाम् ॥

अन्वयः—अतः ते धृतसाक्ष्यभावा जना, अमी परस्पर विवक्षव यान्ति, अहो ! अस्य चरित यथोक्त विद्यते । यतोहि मुनीनां वचन मिथ्या न याति ।

अर्थ—इनलिए वे सब कुछ साक्ष्य के अनुभवी मनुष्य परस्पर मे कहते हुए चले जा रहे हैं कि क्या ही उत्तम इन मुनिराज का चरित्र है ! कुछ कहते नहीं बनता । क्योकि मुनियो का कहा हुआ कभी गलत नहीं होता ।

( ५४ )

महामुनेस्तस्य यश. प्रशस्तम्, विभाति भूमाविह भक्तिमत्सु ।  
सदा जनेषु क्षणश. स्मरत्सु, समक्षमक्षण. फलमाप्नुयामः ॥

अन्वयः—तस्य महामुनेः प्रशस्त यश इह भूमौ क्षणश स्मरत्सु भक्ति मत्सु विभाति । वयम् अक्षण समक्ष फलम् सदा आप्नुयाम ।

अर्थ—उन महामुनि श्री का प्रशस्त यश, इस भूमि पर क्षण भर के लिए स्मरण करते हुए भक्तिमान् पुरुषो मे देदीप्यमान है । हम आँख के सामने परिणाम सदा प्राप्त कर सकते हैं ।

( ५५ )

इमं मुनिं वर्णयितुं पुनर्यते, न चेतसस्तोषमहं यतो लभे ।

गुणा अनेके पुनरेकलो मुने, वदेयमित्येवमृते मुने कथम् ॥

अन्वय—यत अह चेतस तोष न लभे, (अत) पुन इम मुनि वर्ण-  
यितु यते । मुने अनेके गुणा सन्ति पुन (अहम्) एकल अस्मि, पुनरपि  
अह वर्णयितुमिच्छामि—अह वदेयम् इति एवम् ऋतेमुने अह कथ वदेयम्-  
इति भवन्त स्वत तर्कयन्तु इति व्यङ्ग्योऽर्थ ।

अर्थ—इन मुनिराज का गुण-वर्णन करते हुए हृदय को सन्तोष नहीं होता,  
क्योंकि गुण तो अनेक हैं, और मैं अकेला हूँ । अत उन मुनिराज की कृपा के बिना  
मैं कैसे यह कार्य कर सकता हूँ ।

( ५६ )

अतोऽस्य शेष चरितस्य मे मुने, पिपूर्मि सर्गे समयेन सङ्गतम् ।

अधीत्य जानन्तु विशेषतां मुने, अह मुनेभृद्भ्र इवाद्भ्रिपद्मयो ॥

अन्वयः—अत अस्य मुने चरितस्य शेष समयेन सर्गे सङ्गत पिपूर्मि ।  
भक्ता सङ्गत शेषम् अधीत्य मुने विशेषता जानन्तु । अह तु मुने अद्भ्रि-  
पद्मयो भृद्भ्र इव (अस्मि) । किमह वदेयमधिकम् ।

अर्थ—इसलिए इन मुनिमहाराज के वर्णन के शेष को समय से सर्ग मे सङ्गत  
जिस प्रकार हो, वैसा कर पूरा कर रहा हूँ । श्रावकजन सङ्गत शेष को समझकर  
मुनिमहाराज की विशेषता को पहिचानने का प्रयत्न करें । मैं तो मुनिराज के चरण  
कमलो का भ्रमर हूँ और अधिक क्या बताऊँ ।

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
उपाध्याय पदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
श्रीमदाचार्यामरसिंह महाकाव्ये

एकादश. सर्ग.



## द्वादशः सर्गः

( १ )

नमो नमस्ते प्रभवे मुनीनाम्, चमत्कृतेर्जेठमलाय कर्त्ते ।

वृतव्रताय श्रितसयमाय, प्रशस्तगुप्ते समितेश्च पत्ये ॥

अन्वय —ने मुनीना प्रभवे, श्रितसयमाय, वृतव्रताय, प्रशस्तगुप्ते समिते च पत्ये, चमत्कृते कर्त्ते जेठमलाय नम नम (अस्तु) ।

अर्थ—उन मुनियों के प्रभु, मयमी, व्रती, प्रशस्त गुप्ति और समिति के धारक और चमत्कृति के कर्त्ता श्रीजेठमलजी मुनिराज के लिए बार-बार प्रणाम हो ।

( २ )

अय विशिष्टो मुनिषु क्रियासु, प्रवीण एव प्रथितोऽद्भुतेऽपि ।

विधौ धृतश्रीरमरस्य सघे, प्रत्यूयतेऽसौ मुनिभि समस्तै ॥

अन्वयः—अय (श्रीज्येष्ठमल्लो मुनि) मुनिषु विशिष्ट, क्रियासु प्रवीण, अद्भुतेऽपि विधौ प्रथित, असौ धृतश्री समस्ते मुनिभि अमरस्य सङ्घे प्रस्तूयते ।

अर्थ—ये श्रीज्येष्ठमल्लजी मुनिराज, जो अमर सम्प्रदाय के सघ के नेता थे, मुनियों में असाधारण, क्रियाओं में प्रवीण, अद्भुत कृति के विषय में विख्यात और श्रीवर, वे समस्त मुनिमहाराजों के द्वारा श्रीअमरमिहमुनि महाराज के सघ में प्राथित हैं । अर्थात् सभी मुनिजन उनकी स्तुति करते हैं और उनको आदर्श मुनि के रूप में प्रस्तुत करते हैं ।

( ३ )

अथ प्रभाते मुनिषु प्रभुं तम्, नमन्ति भक्ता परमप्रसन्नाः ।

समाप्नुवन्ति प्रभुतां प्रभूताम्, न कोऽपि नैराश्यफलं दधाति ॥

अन्वय —अथ प्रभाते परमप्रसन्ना भक्ता त मुनिषु प्रभु नमन्ति । ते भक्ता प्रभूता प्रभुता समाप्नुवन्ति, क अपि (च) नैराश्यफल न दधाति ।

अर्थ—मूर्वप्रथम प्रभात में उन आत्मारथी श्री को परमप्रसन्न भक्त प्रणाम करते हैं, और वे ही प्रसाद प्राप्त करने पर अत्याकर्षक प्रसुत्व को प्राप्त करते हैं अथवा उमकी समाप्ति करते हैं । देखा गया है कि उनका कोई भी भक्त आज तक निराश नहीं हुआ ।

( ४ - )

अहन्तु पश्यामि मरोर्धराया , सुराजवंश्या अपि राजपुत्रा ।  
गुरुं स्वकीय मुनिमेव मत्त्वा, विशेषभक्त्या परमादरन्ति ॥

अन्वय —अह तु पश्यामि यत् मरो धराया सुराजवश्या राजपुत्रा  
अपि (एन) मुनि स्वकीय गुरुं मत्त्वा विशेषभक्त्या परम् आदरन्ति ।

अर्थ—मैं देखता हूँ कि मारवाड की भूमि के अच्छे राजघरानो के राजपूत सरदार भी इन मुनि महाराज को अपना गुरु मानकर विशेष भक्ति से (आपश्री का) बड़ा आदर करते थे ।

( ५ )

कियन्महत्त्व ननु तस्य नाम्न , जपेऽस्ति तावद् यदि दृश्यता तत् ।  
न केवल प्रत्यय एव वाच., जपे फलप्रत्यय एव हेतुः ॥

अन्वयः—ननु तस्य नाम्न , जपे कियत् महत्त्वम् अस्ति । तावत् यदि  
(तत् न दृश्यते) (तहि) तत् दृश्यताम् । केवल वाच प्रत्यय एव न (अस्ति) ।  
जपे सति फलप्रत्यय हेतु (अस्ति) ।

अर्थ—आत्मारथी श्रीजेष्ठमल्लजी अथवा श्रीजेठमलजी मुनि महाराज के नाम के जप मे कितना क्या महत्त्व है, ऐसी शङ्का हो कि वह नहीं देखा जाता, तो फिर देखिए, केवल कहने का विश्वास नहीं है, तो नाम जप कीजिए—जप करने पर फल का विश्वास ही हेतु है, अर्थात् फल अवश्य प्राप्त होगा ।

( ६ )

अतः शुभां तस्य मुने स्तुतिं ताम्, करोम्यह भक्तजनैः सहैभिः ।  
शिव भवेद् येन मनीषित तत्, यतो गुरुर्देवदयालुरेषः ॥

अन्वयः—यत एप गुरु देवदयालु (अस्ति) । अत अह तस्य मुने  
ता शुभा स्तुतिम् एभि भक्तजनै सह करोमि, येन तत् मनीषित शिव भवेत् ।

अर्थ—क्योंकि ये गुरु महाराज देवो के समान दयालु है । इससे मैं उन मुनि-  
राज की उस मङ्गलमय स्तुति को इन भक्त पुरुषो के साथ करता हूँ, जिससे कि वह मनचीता फल प्राप्त हो ।

( ७ )

भजतु निरन्तरमति कलिवीरम् ।

वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः - हे भक्त ! भवान् अतिकलिवीरं वचन-सिद्ध-गुरुदेवगभीरं भजतु ।

अर्थ—अजी भक्तजी ! आप कलिसमय के वीर अर्थात् मुनिजन को अतिक्रमण न करते हुए वचनसिद्ध गुरुदेवो मे गम्भीर मुनिवर श्रीजेठमलजी महाराज को भजिए ।

( ८ )

ज्येष्ठमल्ल गुरुवरमतिकूपम् । सिद्धं भवति कठिनतररूपम् ।

भजतु निरन्तरमति कलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वय —अतिकूप कार्यं पुन कठिनतररूपम् अपि भवेत्, तत् सिद्धं भवति अत हे भक्त ! भवान् ज्येष्ठमल्लगुरुवरम् अतिकलिवीर गुरुदेव-गभीरं भजतु ।

अर्थ—कुए की गहराई को मात करने वाला कार्य फिर कठिन से कठिन रूप का क्यों न हो । वह सिद्ध हो जाता है । अत अजी भक्तजी ! आप श्री जेठमलजी गुरुश्रेष्ठ जो कलिसमय के वीर वचनसिद्ध हुए हैं, उनको भजिये ।

( ९ )

कार्यं किमपि न दुष्करमेवम् । स्मरति सन्ततं यो गुरुदेवम् ।

भजतु निरन्तरमति कलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः - य. सन्ततं गुरुदेव स्मरति, (तस्य कृते) कार्यं किम् अपि एव न अस्ति, यत् दुष्कर भवेत् । अत हे भक्त. ! भवान् अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेव गभीरं भजतु ।

अर्थ - जो निरन्तर गुरुदेव का स्मरण करता है, उसके लिए कार्य कोई भी ऐसा नहीं है, जो न हो सके अथवा कठिन हो । इसलिए अजी भक्तजी ! आप कलिसमय के वीर गुरुदेवो मे गम्भीर श्रीजेठमलजी मुनि महाराज को भजिए ।

( १० )

नाम्न सत्यमेवमुपगीतम् । क्षयति कष्टमतिशयि प्रतीतम् ।

भजतु निरन्तरमति कलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वय — यस्य नाम्न सत्यम् एवम् उपगीतम् (अस्ति) । य अति-शयि प्रतीत कष्ट क्षयति । अत हे भक्त ! भवान् अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेवगभीर भजतु ।

अर्थ—जिनके नाम की सचाई इस प्रकार वन गई है कि बड़े से बड़ा समझे जाने वाले कष्ट को नष्ट कर देता है । अत ओ भक्तवर ! आप कलिसमय के वीर वचनसिद्ध गुरुदेवो मे गम्भीर श्रीजेठमलजी मुनिराज को भजिए ।

( ११ )

जपति नाम यो गुणशृङ्गारम् । श्रयति सन्ततं सुखभण्डारम् ।

भजतु निरन्तरमति कलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेव गभीरम् ॥

अन्वय — य तस्य नाम जपति, स सन्तत सुखभण्डार श्रयति । अत हे भक्त ! भवान् निरन्तरम् अति कलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर गुण-शृङ्गार श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु ।

अर्थ—जो उनके नाम को जपता है, वह सदा आनन्द ही आनन्द भोगता है । अत ओ भक्तवर ! आप कलिसमय के वीर वचनसिद्ध गुरुदेवो मे गम्भीर गुणो के शृङ्गार श्रीजेठमलजी मुनि महाराज को भजिए ।

( १२ )

कुरुते राजमान्यजनसूच्यम् । नित्यं यः श्रयते मुनिपूज्यम् ।

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वय — य (भक्त) नित्य मुनिपूज्य श्रयते, त भक्त राजमान्य-जन सूच्य कुरुते । अत हे भक्त ! भवान् अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेवगभीर मुनिपूज्य श्रीज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु ।

अर्थ—जो भक्त नित्य मुनियो से पूज्य गुरुदेव का आश्रय लेता है, उसको गुरुदेव राजमान्य पुरुषो का अभिवन्दनीय बना देते हैं । अत ओ भक्तवर ! आप कलिसमय के वीर वचनसिद्ध गुरुदेव श्रीजेठमलजी मुनि महाराज को भजिए ।

( १९ )

प्रातर्नित्यं नाम गृहीतम् । नवनिधितुल्यं फल प्रभूतम् ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः—नित्य प्रात गृहीत तम्य नाम नवनिधितुल्य प्रभूत फल ददाति । अत हे भक्त ! अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिमहाराज भवान् भजतु ।

अर्थ—नित्य प्रात लिया हुआ उनका नाम नवनिधि के समान बहुत फल देता है । अत ओ भक्तवर ! अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज का भजन कीजिए ।

( २० )

श्रयति न चित्रं देवसभायाः । पारं याति न गुरोः कृपायाः ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वय. कोऽपि देवसभाया चित्र न श्रयति । एवमेव गुरो कृपाया अपि पार न याति । अत हे भक्त ! अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर भजतु ।

अर्थ—कोई भी देवो की सभा का आश्चर्य नहीं मानता, क्योंकि वे चाहे जैसा कर डालते हैं । इसी प्रकार गुरुदेव की कृपा का कोई पार नहीं पा सकता । इसलिए हे भक्तवर ! आप अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गभीर श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज की सेवा कीजिए ।

( २१ )

मुरलिध्वनति शमो दिनरात्रम् । ज्येष्ठगुरोर्यदि करुणापात्रम् ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः—यदि कोऽपि भक्त ज्येष्ठगुरो करुणापात्र विद्यते, तर्हि तस्य गृहे दिनरात्र शम मुरलि ध्वनति । अत हे भक्त ! भवान् अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु ।

अर्थ—यदि कोई भक्त श्रीजेठमलजी गुरुदेव का कृपापात्र बन जाता है, तो उसके घर पर रात दिन मुख की मुरली झनकार देने लगती है । इसलिए ए भक्तवर ! आप अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेव गभीर श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज की सेवा कीजिए ।

( २२ )

ताराचन्द्रगुरोः करुणाया । पुष्कर एकः शिष्यसभाया ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वय — ताराचन्द्रगुरो करुणाया शिष्यसभाया अहमेकः पुष्करः अस्मि । अत हे भक्त ! भवान् अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्री मन्त मुनिराज ज्येष्ठमल्ल महाराज निरन्तर भजतु ।

अर्थ— गुरुदेव श्रीताराचन्द्रजी महाराज की कृपा से उत्पन्न शिष्यो के मण्डल का एक शिष्य पुष्कर हूँ, जो गुरुदेव श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज का भक्त हूँ । अत ओ भक्तवर ! आप और मैं अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गम्भीर श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज की सेवा करें ।

( २३ )

लब्ध्वा तस्य कृपासम्भारम् । तर्हि तारयन्नेमि सुपारम् ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः—तस्य कृपासम्भार लब्ध्वा अह तर्हि तारयन् सुपारम् एमि । अत हे भक्त ! भवानपि अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु ।

अर्थ—गुरुदेव श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज की कृपा के सम्भार को प्राप्त कर मैं जीवन नौका को तैराता हुआ ही पार पहुँच रहा हूँ ।

( २४ )

ओमिति पूर्वं यदि शुभमन्त्रम् । ज्येष्ठ गुरुं जपति सहतन्त्रम् ॥

जपन सफलं भवति जनानाम् । सुफलं कथनं साधुजनानाम् ॥

अन्वयः—यदि (य. भक्त ) ओम् इतिपूर्वं (कृत्वा) सहतन्त्र शुभमन्त्र गुरु ज्येष्ठ ज्येष्ठमल्ल जपति, तदा जनाना जपन सफल भवति—इति साधु-जनाना कथनम् (अस्ति) । अत सुफल भवेत् ।

अर्थ—यदि जो भक्त ओम् पहले लगाकर तन्त्र के साथ शुभमन्त्र 'ओ ज्येष्ठ गुरु नमामि' को जपता है तो भक्तजन का जाप सफल होता है—ऐसा साधुसन्तो का कथन है ।

( १३ )

ज्येष्ठमल्लगुरुदेवं श्रयते । भक्त जनोविजनोऽपि विजयते ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्ध गुरुदेव गभीरम् ॥

अन्वय — य ज्येष्ठमल्लगुरु व श्रयते, स विजन अपि भक्तजन विजयते । अत हे भक्त । भवान् अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर भजतु ।

अर्थ—जो श्रीजैठमलजी गुरुदेव को आश्रय समझता है, वह एकाकी ही भक्त पुन्य विजय प्राप्त करता है । इसलिए ओ भक्तवर ! आप कलिममय के वीर वचनसिद्ध गुरुदेव श्री जैठमलजी मुनि महाराज को भजिये ।

( १४ )

महिमान लभते रमणीयम् । श्रिया शरण्यं गुणभजनीयम् ॥

भजतु निरन्तर मतिकलिवीरम् । वचनसिद्ध गुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वय — य भक्त गुणभजनीय शरण्य भजते, स रमणीय श्रिया महिमान लभते । अतः हे भक्त ! अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर भजतु ।

अर्थ—जो भक्त गुणों में भजन करने योग्य शरण्य मानता है, वह अतिरमणीय लक्ष्मी के गौरव को प्राप्त करता है । अत ओ भक्तवर ! आप कलिममय के वीर वचनसिद्ध गुरुदेव श्रीजैठमलजी मुनिराज को भजिए ।

( १५ )

रोगान् क्षणशो नाशयितारम् । प्रेतभूतवाधा दमितारम् ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्ध गुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वय — य भक्ताना रोगान् नाशयति, प्रेतभूतवाधा च दमति, त रोगान् क्षणश नाशयितारम्, प्रेतभूतवाधा (च) दमितारम् निरन्तरम् अतिकलिवीरम् वचनसिद्ध गुरुदेवगभीर हे भक्त ! भवान् भजतु ।

अर्थ—जो भक्तों के रोगों को क्षणमात्र में नष्ट कर देता है और उनकी प्रेत-भूत की वाधाओं को दवा देता है, ऐसे उस रोगों को क्षण में नष्ट करने वाले और प्रेतभूत की वाधा को दवाने वाले अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गभीर श्री जैठमलजी मुनिराज को, ए भक्तवर ! आप भजिए ।

( १६ )

ज्येष्ठमल्ल-गुरुदेवं भजताम् । विजने विपिने मङ्गलमवताम् ।  
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्ध गुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वय.—भक्त ज्येष्ठमल्लगुरुदेव भजताम्, विजने विपिने मङ्गलम् अवताम् । हे भक्त ! भवान् निरन्तरम् अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेव गभीरम् श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु ।

अर्थ—भक्त श्रीजैठमलजी गुरुदेव का भजन करें और सूने वन में मङ्गल का लाम उठाएँ । इसलिए हे भक्त ! आप सदा अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गम्भीर श्री मुनिराज को भजिए ।

( १७ )

जन्मजन्मनां पापसमूहम् । क्षिपति जनस्य प्रतिदिनमूहम् ॥  
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः—(तस्य नामजप जनस्य जन्मजन्मना पापसमूहम् प्रतिदिन क्षिपति, इति वयम् ऊह कुर्म । अत हे भक्त ! भवान् अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु ।

अर्थ—उनका नाम जप मनुष्य के जन्म जन्म के पापसमूह को प्रतिदिन हटाता है, यह हम तर्क करते हैं । इसलिए ओ भक्तवर ! आप अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेवगभीर श्रीजैठमलजी मुनिमहाराज को भजिए ।

( १८ )

नाममात्रमत्यद्भुतफलदम् । जपतु निरन्तरमत. शर्मदम् ॥  
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः—तस्य मुने नाममात्रम् अत्यद्भुतफलदम् (अस्ति) । अत तस्य शर्मद नाम भवान् भक्त जपतु । अत हे भक्त ! भवान् अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु ।

अर्थ—उन मुनिश्री का केवल नाम ही अद्भुतफल देने वाला है । इसलिए उनके कल्याणकारक नाम को आप जपिए । अत हे भक्त ! आप अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमान् मुनिराज को भजिए ।



( १९ )

प्रातर्नित्य नाम गृहीतम् । नवनिधितुल्यं फलं प्रभूतम् ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः—नित्य प्रातः गृहीत तस्य नाम नवनिधितुल्य प्रभूत फल ददाति । अतः हे भक्त ! अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिमहाराज भवान् भजतु ।

अर्थ—नित्य प्रातः लिया हुआ उनका नाम नवनिधि के समान बहुत फल देता है । अतः ओ भक्तवर ! अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीज्येष्ठमलजी मुनिमहाराज का भजन कीजिए ।

( २० )

श्रयति न चित्र देवसभायाः । पारं याति न गुरोः कृपायाः ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः—कोऽपि देवसभायाः चित्रं न श्रयति । एवमेव गुरोः कृपायाः अपि पारं न याति । अतः हे भक्त ! अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर भजतु ।

अर्थ—कोई भी देवों की सभा का आश्चर्य नहीं मानता, क्योंकि वे चाहे जैसा कर टालते हैं । इसी प्रकार गुरुदेव की कृपा का कोई पार नहीं पा सकता । इसलिए हे भक्तवर ! आप अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गभीर श्रीज्येष्ठमलजी मुनिमहाराज की सेवा कीजिए ।

( २१ )

मुरलिध्वनति शमो दिनरात्रम् । ज्येष्ठगुरोर्यदि करुणापात्रम् ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः—यदि कोऽपि भक्तः ज्येष्ठगुरोः करुणापात्रं विद्यते, तर्हि तस्य गृहे दिनरात्रं शमो मुरलि ध्वनति । अतः हे भक्त ! भवान् अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु ।

अर्थ—यदि कोई भक्त श्रीज्येष्ठमलजी गुरुदेव का कृपापात्र बन जाता है, तो उसके घर पर रात दिन मुख की मुरली अनन्तर बजने लगती है । इसलिए हे भक्तवर ! आप अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेव गभीर श्रीज्येष्ठमलजी मुनिमहाराज की सेवा कीजिए ।

( २२ )

ताराचन्द्रगुरो करुणायाम् । पुष्कर एक शिष्यसभायाम् ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वय — ताराचन्द्रगुरो करुणायाम् शिष्यसभायाम् अहमेक पुष्कर अस्मि । अत हे भक्त ! भवान् अतिकलिवीरं वचनसिद्धगुरुदेवगभीरं श्री मन्त मुनिराज ज्येष्ठमल्ल महाराज निरन्तर भजतु ।

अर्थ— गुरुदेव श्रीताराचन्द्रजी महाराज की कृपा से उत्पन्न शिष्यो के मण्डल का एक शिष्य पुष्कर हूँ, जो गुरुदेव श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज का भक्त हूँ । अत ओ भक्तवर ! आप और मैं अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गम्भीर श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज की सेवा करें ।

( २३ )

लब्ध्वा तस्य कृपासम्भारम् । तर्हि तारयन्नेमि सुपारम् ॥

भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम् । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम् ॥

अन्वयः—तस्य कृपासम्भार लब्ध्वा अह तर्हि तारयन् सुपारम् एमि । अत हे भक्त ! भवानपि अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीरं श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु ।

अर्थ—गुरुदेव श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज की कृपा के सम्भार को प्राप्त कर मैं जीवन नौका को तैराता हुआ ही पार पहुँच रहा हूँ ।

( २४ )

ओमिति पूर्वं यदि शुभमन्त्रम् । ज्येष्ठ गुरुं जपति सहतन्त्रम् ॥

जपन सफल भवति जनानाम् । सुफलं कथनं साधुजनानाम् ॥

अन्वयः—यदि (य भक्त) ओम् इतिपूर्वं (कृत्वा) सहतन्त्र शुभमन्त्र गुरु ज्येष्ठ ज्येष्ठमल्ल जपति, तदा जनाना जपन सफल भवति—इति साधु-जनाना कथनम् (अस्ति) । अत सुफल भवेत् ।

अर्थ—यदि जो भक्त ओम् पहले लगाकर तन्त्र के साथ शुभमन्त्र 'ओ ज्येष्ठ गुरु नमामि' को जपता है तो भक्तजन का जाप सफल होता है—ऐसा साधुसन्तो का कथन है ।

( २५ )

दिव गते ज्येष्ठगुरौ गुभेऽस्मिन्, महामुनौ श्रीस्थविरप्रशस्तिः ।

महातपास्तारकचन्द्रकोऽसौ, मुनिर्वभूवास्य पदस्य योग्य ॥

अन्वयः - अस्मिन् गुभे महामुनौ ज्येष्ठगुरौ दिव गते सति अस्य पदस्य योग्य श्रीस्थविरप्रशस्ति महातपा असौ तारकचन्द्रक अर्थात् श्रीताराचन्द्र. मुनि वभूव ।

अर्थ - इन कल्याणकारी आत्मार्थी श्रीजैठमलजी गुन्देव के स्वर्गाग्रेहण पर आप श्री के स्थान के योग्य महास्थविर परमतपस्वी वे ताराचन्द्र मुनिमहाराज हुए ।

( २६ )

सतीर्थ्य एवायमथातिसेवी, गुणाग्रणीधीरवरस्तपस्वी ।

वभूव शक्तोऽमरपट्टधारी, तदाऽष्टमस्तारकचन्द्र एषः ॥

अन्वय - अथ अय सतीर्थ्य, गुणाग्रणी, धीरवर, अतिसेवी, तपस्वी, शक्त मन् एष ताराचन्द्र मुनि एव अष्टम अमरपट्टधारी वभूव ।

अर्थ - क्योंकि ये सतीर्थ्य अर्थात् गुरुभाई, गुणविशिष्ट, महावीर, अतिसेवा-वृत्तिपरायण तपस्वी एव समर्थ होकर मुनिश्रीनाराचन्द्रजी महाराज ही आचार्य श्रीअमरसिंहजी महाराज के आठव पाठ के अधिकारी हुए ।

( २७ )

प्रसिद्धगुन्देचकुलप्रसूते, महाजनात् श्रीशिवलालनाम्न ।

अय हि लेभे जनिमेवमङ्गे, सुमातृकाज्ञानकुमारिकाया ॥

अन्वय - अय हि प्रसिद्धगुन्देचकुलप्रसूते महाजनात् श्रीशिवलालनाम्न सुमातृकाज्ञानकुमारिकाया अङ्गे एव जनि लेभे ।

अर्थ - आपश्री ने प्रसिद्ध गुन्देचा कुल में उत्पन्न हुए महाजन श्रीशिवलालजी से पवित्र माता ज्ञानकुमारो की गोदी में जन्म प्राप्त किया था ।

( २८ )

महाजनोऽय गिवलालनामा, वभूव वम्बोरपुरोऽधिवासी ।

प्रसिद्धमेवाडधराधिपस्य, प्रतार्पासिहस्य तदास्य भूमे ॥

अन्वय - अय श्रीगिवलालनामा महाजन अस्य प्रसिद्धमेवाडधराधिपस्य प्रतार्पासिहस्य भूमे तदा वम्बोरपुर अधिवासी वभूव ।

अर्थ - ये गिवलालजी गुन्देचा ओमवाल महाजन प्रख्यात मेवाडभूमि के महाराज प्रतार्पासिह की भूमि की उस वम्बोरा नगरी के अधिवासी थे ।

( २६ )

महामुनेरस्य सुशासनेवा, सुशिक्षणे द्वौ परमौ सुशिष्यौ ।  
बभूवतु पुष्करहीरकौतौ, सुविप्रसु क्षत्रियजातिसूतौ ॥

अन्वयः—अस्य महामुने सुशामने वा सुशिक्षणे द्वौ परमौ सुशिष्यौ यौ  
ब्राह्मणक्षत्रियजातिसूतौ तौ पुष्करहीरकौ बभूवतु ।

अर्थ—इन महास्थविर श्रीताराचन्द्रजी महाराज के सुशासन मे अथवा सुशि-  
क्षण मे तो दो बड़े शिष्य जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति मे उत्पन्न वे पुष्करमुनि और  
हीरामुनि हुए ।

( ३० )

परन्तु शिष्यास्त्रय एवमासन्, मुनेस्तु ताराशशिनो गुरोर्मे ।  
क्रमेण नामानि वदामि चैवम्, सुपुष्करो हीरक एव भैरु ॥

अन्वयः—परन्तु मे ताराशशिन मुने गुरो एव तु त्रय शिष्या  
आसन् । अह क्रमेण (त्रयाणा शिष्याणा) नामानि एव वदामि—सुपुष्कर,  
हीरक भैरुश्च (इति) ।

अर्थ—परन्तु मेरे श्रीताराचन्द्र मुनिजी गुरुदेव के वास्तव मे तो तीन शिष्य  
थे । मैं क्रम से तीनों शिष्यों के नाम ऐसे बताता हूँ कि पुष्कर मुनि, हीरामुनि और  
भैरुमुनि ।

( ३१ )

अय मुनिर्भैरवशुद्धनामा, महातपस्वी गुरुदेव भक्तः ।  
विभुज्य दीर्घायुरतीव सोऽन्ते, दिव प्रयातः सहसाक्षणेन ॥

अन्वयः—अय भैरवशुद्धनामा महातपस्वी गुरुदेवभक्त च (आसीत्)  
अन्ते स अतीव दीर्घायु विभुज्य क्षणेन सहसा दिव प्रयात ।

अर्थ—ये भैरव शुद्ध नामवाले मुनिजी बड़े तपस्वी और गुरुदेवश्री के भक्त  
थे । अन्त मे वे दीर्घायु को भोगकर कुछ ही क्षणों के साथ सहसा स्वर्गवासी हुए ।

( ३२ )

अयं कनीयान् मुनिरेव चासीत्, गुरो प्रिय शिष्यगणे तपस्वी ।  
दिव प्रयान्त प्रसमीक्ष्य सन्तम्, मनस्विनोऽन्ये मुनयो विषेदुः ॥

अन्वयः—अय मुनि शिष्यगणे कनीयान् एव किन्तु गुरो तपस्वी सन् प्रिय आसीत् । सन्त दिव प्रयान्त प्रसमीक्ष्य अन्ये मनस्विन मुनय विषेदु ।

अर्थ—ये मुनि शिष्यो के समुदाय मे सबसे छोटे थे, किन्तु गुरुदेवश्री को तपस्वी होने के कारण प्रिय थे । उनको काल करते हुए देखकर दूसरे मुनिजन भावुकतावश दु खी हुए ।

( ३३ )

यतो हि सस्तारपथा प्रयान्तम्, मुनिं न सन्त. परिदेवयन्ति ।  
निरीक्ष्य सन्तं सहसा प्रयान्तम्, गुरोः प्रियायास्ति विषाद-हेतुः ॥

अन्वय —यतो हि सन्त. सस्तारपथा प्रयान्त मुनिं न परिदेवयन्ति । (किन्तु परिदेवनस्य कारणमन्यत्)—स हि गुरो. प्रिय आसीत्—अत. सहसा प्रयान्त मुनिं निरीक्ष्य गुरोः प्रियाय विषाद-हेतु अस्ति ।

अर्थ—क्योकि मुनिजन सस्तारमार्ग से स्वर्गारोहण करने वाले मुनि के लिए कोई परिदेवन नही करते । किन्तु परिदेवन का कारण कोई और था—वे मुनि गुरुदेव के लिए प्रिय थे । अत यह विषाद का कारण था ।

( ३४ )

अय मदीय परम सतीर्थ्य., मुनिस्तपस्वी समधीरवृत्ति ।  
सुमध्यमो हीरक एव सत्सु, ततो गुरुस्तं मुनिहीरमाह ॥

अन्वय —अय मदीय परम सतीर्थ्य, सत्सु समधीरवृत्ति तपस्वी सुमध्यम हीरामुनि एव विद्यते । (अतएव) तत त गुरु मुनिहीरम् आह ।

अर्थ—ये मेरे बडे सतीर्थ्य हैं और मुनियो मे समधीरवृत्ति, तपस्वी और मेरे गुरुदेवश्री के तीन शिष्यो मे से मध्यम हैं । अतएव इन कारणो से गुरुदेव इनको मुनिहीर अर्थात् मुनियो मे हीरा कहते थे ।

( ३५ )

गुरुस्तु हीरामुनिमेवमेवम्, मुनिं मदीयं गुरुबन्धुमेनम् ।  
समाह्वयन्नेवमृवाच नाम्ना, ततोऽहमेव वचसा ब्रवीमि ॥

अन्वयः—एव गुरु तु हीरामुनिम् एव मुनिहीरम् एवम् उवाच, तत अहम् एन मदीय गुरुबन्धु मुनिहीर समाह्वयन् हीरामुनिम् एव वचसा ब्रवीमि ।

अर्थ—इस प्रकार गुरुदेवश्री तो हीरामुनिजी को मुनिहीरा इस प्रकार कहते ही पुकारा करते थे, किन्तु मैं भी इन अपने गुरुबन्धु को हीरामुनि को मुनिहीरा पुकारते हुए ही इस प्रकार वाणी से व्यक्त करता हूँ ।

( ३६ )

दिवं प्रयाते मम देवतुल्ये, गुरौ मुनौ तारकचन्द्रदेवे ।  
अहं वरिष्ठो गुरुशिष्यसघे, ततोऽभव शिष्यजनेषु पूज्यः ॥

अन्वय —मम देवतुल्ये गुरौ तारकचन्द्रदेवे मुनौ दिव प्रयाते तत गुरुशिष्यसघे वरिष्ठ अहं शिष्यजनेषु पूज्य अभवम् ।

अर्थ—मेरे देवतुल्य गुरु महाराज श्रीताराचन्द्र मुनिराज के स्वर्गारोहण पर तदनन्तर गुरुदेव के शिष्यो के समुदाय मे वरिष्ठ होने से मैं ही शिष्यजन का आदरणीय हुआ ।

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
उपाध्याय पदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
श्रीमदाचार्यामरसिंह महाकाव्ये

द्वादश सर्गः

## त्रयोदश; सर्गः

( १ )

महान्तमर्हन्तमिम जितेन्द्रियम्, तपस्विनं केवलिन सुशासनम् ।  
प्रतिक्षण वीरमर्हिसकं विभुम्, नमाम्यहं सन्मतिवर्द्धमानम् ॥

अन्वय —अहम् इम महान्त वीरम् अर्हन्त जितेन्द्रिय तपस्विनविभुम्  
अहिसक केवलिन सन्मति-वर्द्धमानक प्रतिक्षण नमामि ।

अर्थ—मैं इन महान् वीर अर्हन् जितेन्द्रिय तपस्वी व्यापक अहिसक केवली  
श्री सन्मति वर्द्धमान स्वामी को प्रतिक्षण नमन करता हूँ ।

( २ )

इयतु रीतिर्जिनशासनेऽस्मिन्, क्षमो भवेद्यः कुशलः क्रियासु ।  
सुदीक्षितश्चापि गुरोः प्रियोऽसौ, महामुनिर्गण्यत एव सङ्घे ॥

अन्वय.—अस्मिन् जिनशासने तु इय रीति (अस्ति) य गुरो  
प्रिय, क्रियासु कुशल, सुदीक्षित, क्षमश्च अपि भवेत्, असौ एव सघे महा  
मुनि अथवा आचार्य वा पूज्य गण्यते ।

अर्थ—इस जिनशासन मे तो यह रीति है, कि जो अपने गुरुदेव का प्रिय,  
क्रियाओ मे निपुण, सुदीक्षित और समर्थ भी हो, वह सघ के विषय मे आचार्य गिना  
जाता है ।

( ३ )

क्रमेण सम्प्राप्तविशेषदृष्टि, गुरोः प्रियः शिष्यगणे विशिष्टः ।  
अतोऽभवं संघविधायकोऽहम्, स्थितोऽस्मि पट्टे नवमोऽमरस्य ॥

अन्वय —अत गुरो प्रिय शिष्यगणे सम्प्राप्तविशेषदृष्टि विशिष्ट  
सन् अह सघ-विधायक अभवम् । क्रमेण अहम् नवम (अधिकर्ता) अमरस्य  
पट्टे स्थित अस्मि ।

अर्थ—उक्त रीति के आधार पर, गुरुदेवश्री का प्रिय अधिकृत विषयो का  
ज्ञाता विशेष शिष्ट होकर सघ का विधायक बना । एव क्रम से मैं नवम अधिकर्ता  
के रूप मे आचार्य श्री अमरसिंहजी महाराज के पाट पर स्थित हूँ ।

( ४ )

ममास्य संघस्य समेऽपि सन्तः, इमे महान्तो मुनिवृत्तिनिष्ठाः ।  
निरन्तर संयमिनोऽनुरक्ताः, वशंवदा ज्ञानरताश्च सन्ति ॥

अन्वय.—अस्य मम सङ्घस्य इमे समे सन्त महान्त सयमिन निरन्त-  
रम् अनुरक्ता अपि मुनिवृत्तिनिष्ठा, वशवदा अपि ज्ञानरता सन्ति ।

अर्थ—और इस मेरे सघ के ये सभी सन्त बड़े सयमी हैं । निरन्तर अनुरक्त  
रहते हुए भी मुनिवृत्ति मे निष्ठा रखते हैं, आज्ञाकारी रहते हुए भी ज्ञान मे लगे  
रहते हैं ।

( ५ )

समे विनीता मुनयो ममैते, सदा श्रुतज्ञानविधौ निमग्नाः ।  
उपासतेऽमी जिनधर्मतत्त्वम्, भवन्तु शक्ता अपि भक्तिमन्तः ॥

अन्वय —मम एते समे मुनय विनीता सन्ति । अमी सदा श्रुत-  
ज्ञानविधौ निमग्ना जिनधर्मतत्त्वम् उपासते । (येन) भक्तिमन्त अपि (जैन-  
बन्धव ) (जिनधर्मतत्त्वे) शक्ता भवन्तु ।

अर्थ—मेरे ये सभी सन्त विशेष नम्र हैं । ये सदा श्रुत के ज्ञान की विधि के  
विषय मे तल्लीन रहकर जिनधर्म के तत्त्वों की उपासना करते रहते हैं । (जिससे कि)  
भक्तिमान रहते हुए जो जैनबन्धु जिनधर्म के तत्त्व को नहीं जानते, वे जिनधर्म के  
तत्त्व के विषय मे समर्थ हो ।

( ६ )

क्रियारतास्ते विधिमेत्य सेच्छम्, विशेषतः पुस्तकलेखनेऽपि ।  
प्रचारपत्रेष्वपि जैनधर्मम्, निबन्धदानेन विवर्द्धयन्ते ॥

अन्वय —क्रियारता अपि ते सेच्छ विधिम् एत्य पुस्तक विशेषत  
पुस्तक लेखने (सलग्ना सन्ति) अन्ये च ते मुनय प्रचारपत्रेषु अपि निबन्ध-  
दानेन जैनधर्मं विवर्द्धयन्ते ।

अर्थ—मुनिक्रियाओं मे रत रहते हुए भी वे मुनिजन इच्छा से जैनधर्म की,  
विशेष पुस्तकों के लेखन मे लगे रहते हैं और दूसरे मुनिजन जैनधर्म के प्रचार के  
समाचार पत्रों मे भी निबन्ध देकर जैनधर्म को वर्द्धिगत करते रहते हैं ।



( ७ )

तथाप्यहं मे मनसि स्मरंस्तु, प्रसिद्धसिद्धे सकलान् गुरोस्तान् ।  
गुणान् यथानुक्रममेव वक्तुम्, लभे न सन्तोषममुं विनाऽहम् ॥

अन्वय — प्रसिद्धसिद्धेः गुरो तान् सकलान् गुणान् अह मे मनसि स्मरन् अपि तु सन्तोष तथापि न लभे । अत अमु सन्तोष विना अह स्थातु न शक्नोमि, अत यथानुक्रमम् तान् गुणान् वक्तुं स्थित अस्मि इतिशेष ।

अर्थ— प्रसिद्ध है सिद्धि जिनकी ऐसे गुरुदेव के उन सभी गुणों को मैं अपने मन में याद करता हुआ भी सन्तोष को फिर भी प्राप्त नहीं कर पाता । इसलिए उस सन्तोष के बिना मैं रुकने के लिए उद्यत नहीं हूँ । इससे अनुक्रम के साथ उन गुणों को कहने के लिए उठ बैठा हूँ ।

( ८ )

अतोऽहमेवं विवृणोमि सेवाम्, गुरोर्मदीयस्य तपस्विनोऽस्य ।  
परोपकाराय धृतव्रतस्य, शुभस्य ताराशशिनो मुनीनाम् ॥

अन्वय — अत अह मुनीनाम् अस्य परोपकाराय धृतव्रतस्य तपस्विनः शुभस्य मदीयस्य गुरो ताराचन्द्रस्य एवम् अह सेवा विवृणामि ।

अर्थ—इसलिए मैं मुनियों के बीचमें इन पर-उपकार के लिए व्रत धारण करने वाले तपस्वी कल्याणकारी मेरे गुरुदेव श्रीताराचन्द्र जी महाराज की सेवा-शुश्रूषा को विवृत करता हूँ ।

( ९ )

यदा शिवाणागढजन्मभूमेः, सतस्तपस्याचरणात् कठोरात् ।  
मुनेस्तदा हिन्दुमलस्य भारम्, समुह्य तत्स्थानमवाप सोऽयम् ॥

अन्वय — यदा शिवाणागढजन्मभूमे हिन्दुमलस्य मुने कठोरात् तपस्याचरणात् तस्य सत भार समुह्य अय स ताराचन्द्र मुनिः एव तत्स्थानम् अवाप ।

अर्थ—जब शिवाणागढ के श्रीहिन्दुमलजी मुनि के कठोर तपस्या करने के कारण वे इतने दुर्बल हो गए थे कि वे चल-फिर नहीं पाते थे, अतः उन सन्त के भार को ढोकर उनके स्थान पर आप श्री ताराचन्द्रजी महाराज ने ही पहुँचाया ।

( १० )

यतः स आसीद् गुरुबन्धुरेष , कथ हि मार्गो परिवर्जनीयः ।

अतः स्वय कष्टमवाप्य सेवाम्, तदा विधातुं परितः प्रवृत्तः ॥

अन्वयः—यतः स एष गुरुबन्धु आसीत्, अतः मार्गो हि परिवर्जनीयः कथ भवेत् । अत (अय) स्वय कष्टम् अवाप्य तदा परित सेवा विधातु प्रवृत्त (अभवत्) ।

अर्थ—क्योकि ये ही श्रीहिन्दुमलजीमुनि गुरुमाई थे । इसलिए उनको मार्ग मे तो कैसे छोडा सकता था ? अत स्वय कष्ट उठाकर उस समय सेवा करने के लिए उद्यत हुए ।

( ११ )

न केवलं मे गुरुदेव एष, शुभं हि सन्तं पृथुलां सकेन ।

समूढवान् हिन्दुमलं मुनिं तम्, स्वयं सिषेवे खलु पञ्चवर्षम् ॥

अन्वयः - एष मे गुरुदेव न केवल त शुभ सन्त हिन्दुमल मुनि पृथुला-सकेन हि समूढवान्, अपि तु स्वय खलु पञ्चवर्ष सिषेवे ।

अर्थ—इन मेरे गुरुदेवश्री ने न केवल उन शुभ हुए श्रीहिन्दुमलमुनिजी को मोटे कन्वे से ही ढोया, अपितु स्वय ने उनकी पाँच वर्ष तक सेवा की ।

( १२ )

यतो मुनिःस स्थिरवास आसीत्, न्युवास पुय्यां समदारिकायाम् ।

गुरुर्मदीय प्रविहाय चिन्ताम्, असेवतायं मुनिजीवनान्तम् ॥

अन्वयः—यत स (हिन्दुमलमुनि) स्थिरवास आसीत्, म च सम-दारिकाया पुय्यां न्युवास । मदीय अय गुरु चिन्ता विहाय मुनिजीवनान्तम् असेवत ।

अर्थ—क्योकि वे श्रीहिन्दुमलमुनिजी महाराज स्थिरवास थे अत वे समदडी पुरी मे रहे थे । मेरे इन गुरुदेवश्री ने चिन्ता को छोड मुनि हिन्दुमलजी महाराज जब तक जीवित रहे, तब तक सेवा की ।

( १३ )

अथायमन्यानपि ताननेकान्, गुरुर्मुनीन्मे समसेवतालम् ।  
विहाय भावं परकीयमन्त,—गण न चिन्तन्ति तपस्विनोऽन्ये ॥

अन्वय.—अथ अय मे गुरु. तान् अनेकान् अन्यान् मुनीन् परकीयम् अन्तर्गण भाव विहाय अलम् असेवत । अन्ये तपस्विन परकीय न चिन्तन्ति ।

अर्थ— इसके पश्चात् भी इन मेरे गुरुदेव ने उन अनेक दूसरे मुनियो की पर्याप्त सेवा की । कभी आपने दूसरे गण के भाव को नहीं सोचा । क्योंकि दूसरे तपस्वी परकीय की चिन्ता नहीं करते ।

( १४ )

न नाम नाम्नां गणनां विधातुम् सतामहं स्यां गुरुसेवकः सन् ।  
परोपकारव्रतमानसस्य, स्वयं गुरोर्गौरिवमेव हन्मि ॥

अन्वयः—सता नाम्ना गणना विधातु गुरुसेवक. सन् अह नाम न स्याम् । यदि अह नाम्ना गणना विधातु भवेयम् तर्हि अह स्वय परोपकार-व्रतमानसस्य गुरो गौरवम् एव हन्मि ।

अर्थ—सन्तो के नामो की गणना करूँ कि उन-उन सन्तो की सेवा मेरे गुरु-देव ने की, तो मैं गुरुभक्त होकर सन्तो के नामो की गिनती करने के लिए तैयार होता हूँ, तो परोपकार के व्रत के हृदय वाले गुरुदेव के गौरव को नष्ट करूँगा । क्योंकि जब उन्होंने ही सेवा के विषय मे अपने-तेरे की चिन्ता नहीं की तो मुझे फिर उनके नाम गिनाने की क्या आवश्यकता है ।

( १५ )

नमः सुमन्त्रस्य सपादकोटे, जपं विधायापि जपन् सुमन्त्रम् ।  
कदापि काल व्यतिवाहयन् मे, न जातु शान्तो गुरुरेवमासीत् ॥

अन्वय —सपादकोटे नम सुमन्त्रस्य जप विधाय अपि सुमन्त्र जपन् आसीत् । मे गुरु कदापि काल व्यतिवाहयन् एव जातु शान्त न (अभवत्) ।

अर्थ—सवा करोड नमस्कार मन्त्र को जप को करके भी इस सुमन्त्र को जपते ही रहे । मेरे गुरुदेव कभी समय को अतिवाहित करते हुए कभी शान्त रहे ही । ऐसा कभी नहीं देखा ।

( १६ )

महोपकर्त्तरिममु गुरुं मे, स्मरन्नहं यामि निराश एष ।

सपर्ययाऽलकृतमानसं तम् गुरुं न पश्यामि हसन्तमेनम् ॥

अन्वयः—अहमेप मे अमु महोपकर्त्तरि गुरु स्मरन् निराश यामि ।

(यत) सपर्यया अलकृतमानस तम् एन गुरु हसन्तम् अह न पश्यामि ।

अर्थ—यह मैं मेरे परम उपकारी गुरुदेव की याद करता हुआ निराश हो जाता हूँ । क्योंकि सत्कार से अलकृत हृदय के उन गुरुदेव को हँसते हुए इनको अब नहीं देख पाता ।

( १७ )

तथापि मे मानसिकं सुकायम्, गुरोरदो वर्त्तत एव नित्यम् ।

तदेव रूपं ननु चक्षुषोर्मै, सदैव चित्रायित मेवमस्ति ॥

अन्वयः—तथापि मे गुरो अद मानसिक सुकाय नित्यम् एव वर्त्तते,

मे चक्षुषो. ननु तत रूप वर्त्तते । वस्तुत सदा एव तत् गुरो सुकायम् एव चित्रायितम् अस्ति ।

अर्थ—तो भी मेरे गुरुदेव का वह मानसिक सुन्दर शरीर सदा ही मेरी आँखों में रहता है और वही रूप मेरी आँखों में समाया रहता है । वास्तव में सदा ही गुरुदेव का सुन्दर शरीर ऐसा हो गया है जैसे कोई चित्र हो ।

( १८ )

अहं गुरोरेव सदाशिषा मे, निरन्तरं ध्यानविधिं दधामि ।

जिनप्रभोः शासितमेव धर्मम्, प्रवक्तुमेव विहरामि देशे ॥

अन्वयः—अह मे गुरो एव आशिषा निरन्तर ध्यानविधिं दधामि, एव सदा जिनप्रभो शासित धर्मम् एव प्रवक्तु देशे विहरामि ।

अर्थ—मैं मेरे गुरुदेव के आशीर्वचन से ही निरन्तर ध्यान की विधि को पोषण दे रहा हूँ, और इसी प्रकार सदा भगवान् जिनके शासित धर्म का ही प्रवचन करने के लिए स्थान-स्थान पर विहार कर पहुँच रहा हूँ ।

( १९ )

विहारमुद्दिश्य गुरोः प्रसङ्गम्, स्मराम्यह यद् घटितं दहल्याम् ।  
जगामवान्यैर्मुनिभिः सहायम्, जवाहरं दर्शयितुं गुरुर्मे ॥

अन्वय—अहं विहारम् उद्दिश्य यद् दहल्या घटित गुरो. प्रसङ्ग स्मरामि । अयम् मे गुरु अन्यै मुनिभि सह मन्त्रिण जवाहरम् दर्शयितुं जगाम ।

अर्थ—मैं विहार के उद्देश को लेकर जो दिल्ली में घटित हुआ ऐसे गुरुदेव के प्रसङ्ग का स्मरण कर रहा हूँ । आप श्री अन्य मुनियों के साथ प्रधानमन्त्री श्री प० जवाहरलालजी को दर्शन देने को पधारें ।

( २० )

गुरुं निरीक्ष्यैव जवाहरोऽयम्, प्रसन्नचेता कुरुतेऽभिलाषम् ।  
भवादृशाऽह मुनिना सहैव, लषामिकाष्टुं प्रतिबिम्बचित्रम् ॥

अन्वयः—अयं जवाहर गुरुं निरीक्ष्य एव प्रसन्नचेता सन् अभिलाषं कुरुते यत् अहं भवादृशा मुनिना सहैव एव प्रतिबिम्बचित्रं काष्टुं लषामि ।

अर्थ—इस प० जवाहरलालजी प्रधानमन्त्री ने गुरुदेव को देखते ही प्रसन्नचित्त होकर इच्छा प्रकट की कि मैं आप जैसे मुनिराज के साथ फोटो खिंचाने के लिए चाहता हूँ ।

( २१ )

यतो गरुस्तं कुरुते निषेधम्, मुने कृते चित्रमिदं निषिद्धम् ॥  
अतस्त्वयाऽह न हि शोचनीयः, भवेयमेवं मुनिधर्मवृत्ते ॥

अन्वयः—अस्मिन् समये गुरु तं निषेधं कुरुते, यत् मुने कृते इदं चित्रं निषिद्धं वर्त्तते । अतस्त्वया अहं मुनिधर्मवृत्ते शोचनीयं न भवेयम्—इति गुरु स्पष्टयति ।

अर्थ—इस समय गुरुदेव श्री ने उनको मना कर दिया, और बताया कि यह फोटो खिंचाना मुनि के लिए निषिद्ध है । इसलिए आपके द्वारा मैं मुनिधर्म के व्यवहार के कारण अफसोस करने के योग्य नहीं हो सकूंगा । अतः आप कोई अन्यथा न मोचें ।

( २२ )

घृतस्मयो नेहरुरेवमूचे, महानयं साधुषु साधुरेक ।  
अणुव्रती चित्रमुपेतुमीदृक्, समेत्यसौ मे तुलसीमुनीश ॥

अन्वयः—घृतस्मय नेहरू (जवाहरलाल प्रधानमंत्री) एवम् ऊचे, यत् अय साधुषु महान् एक. साधु (अस्ति) । (अन्यथा तु) मे असौ अणुव्रती तुलसीमुनीश ईदृक् चित्रम् उपेतु समेति ।

अर्थ—आश्चर्यचकित प्रधानमंत्री श्री जवाहरलालजी नेहरू इस प्रकार कहने लगे कि ये साधुओ मे से महान एक साधु हैं । अन्यथा तो मेरे वे अणुव्रती वाले तुलसीजी आचार्य ऐसे फोटो के लिए आते रहते हैं ।

( २३ )

अथ प्रसङ्गादनुवर्णयामि, प्रधानमन्यच्चरितं गुरोर्मे ।  
अहो ममाग्रे निखिलात्मवृत्तम्, समालुलोचैष गुरुर्मदीय. ॥

अन्वयः—अथ प्रसङ्गात् मे गुरो. अन्यत् प्रधान चरितम् अनुवर्णयामि । अहो एष मदीय गुरु. मम अग्रे निखिलात्मवृत्त समालुलोच ।

अर्थ—अब प्रसङ्ग को लेकर मैं अपने गुरुदेव का दूसरा मुख्य चरित अनुवर्णित कर रहा हूँ कि इन मेरे गुरुदेव ने मेरे ही सामने सम्पूर्ण आत्मवृत्त की समालोचना की ।

( २४ )

अयं स्वयं मृत्युमबोधयन्माम्, यतो य आयाति मरिष्यतीति ।  
अतो मदीय खलु जीवनान्तम्, भवेदवश्यं ननु मास्सु षट्सु ॥

अन्वयः—अय स्वय मा मृत्युम् अबोधयत्—यत य आयाति खलु स मरिष्यति इति—अत मदीय जीवनान्ते ननु मास्सु षट्सु अवश्य भवेत् ।

अर्थ—इन गुरुदेव ने स्वय मुझे अपनी मृत्यु को बताया था कि जो उत्पन्न होता है, वह निश्चय के साथ मृत्यु प्राप्त करेगा—ऐसा है, इससे मेरे जीवन का अर्थात् मृत्यु निस्सन्देह छह मांसो मे अवश्य होगी ।

( ३१ )

अयं तदाचार्यवरो गणेशः, स्वयं गुरुं मे समशसतालम् ।

सुनिस्स्पृहं तारकचन्द्रदेवम्, तदेतदन्येऽपि विदन्ति वृत्तम् ।

अन्वयः—तदा अयम् आचार्यवर, गणेश स्वयं मे गुरु-तारकचन्द्रदेव सुनिस्स्पृह (मत्त्वा) अल समशसत । (सहेव आचार्यवर उक्तवान्—) तत् एतत् वृत्त तु अन्ये अपि विदन्ति ।

अर्थ—तब इन उपाचार्यवर श्रीगणेशीलालजी महाराज ने स्वयं मेरे गुरुदेव श्रीतारकचन्द्रजी महाराज को परम निस्स्पृही मानकर पर्याप्त प्रशंसा की, और साथ ही यह भी आचार्य वर ने फरमाया कि इस सबको तो और दूसरे भी जानते हैं ।

( ३२ )

अहो किमेते ननु वर्णिता ये, त एव सन्तीति गुणा न चान्ये ।

न चेत्तदैवं न हि तर्कयेयु गुणा गुरोर्मे बहवो भवेयुः ॥

अन्वय —ननु ये गुणा वर्णिता सन्ति, ते एव अहौ किम् एते सन्ति न च अन्ये इति चेत् तदा भवन्त एव न तर्कयेयु, यतो हि मे गुरो बहव गुणा भवेयु । साम्प्रत यान् अहम् अस्मार्सम् तानेव अवर्णयामिति भाव ।

अर्थ—क्या ये ही गुण, जो वर्णित हुए हैं वे ही सब गुण आपके गुरुदेव के हैं और दूसरे नहीं ? यदि आप सब ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं सोचिए । क्योंकि मेरे गुरुदेव के और अनेक गुण हो सकते हैं । अब मैं जिन गुणों को उमरण कर पाया, उनको बतला पाया हूँ, यह व्यङ्ग्यार्थ है ।

( ३३ )

मया तु पूर्वं कथितं यदुक्तम्, यथाधि किञ्चिन्ननु वक्तुमीहे ।

तथापि दोष समुपैति कस्मिद्, ममैव सोऽस्तीति विचारयन्तु ॥

अन्वय —मया तु पूर्वं कथितं यत् किञ्चित् ननु उक्तं विद्यते, तत् यथाधि वक्तुम् ईहे इति कृत्वा उक्तम् । तथापि वर्णने यदि कस्मिद् दोष समुपैति, स ममैव दोष अस्ति, इति भवन्तो विचारयन्तु ।

अर्थ—मैंने तो पहले ही कह दिया है कि वर्णन यथामति किया चाहता हूँ । अतः इममे फिर भी कोई दोष रहता है तो मेरा ही दोष समझना चाहिये, न कि वर्णन का ।

( ३४ )

ततोऽप्यहं वच्मि गुरोगुणान् मे, प्रशंसनीयान् मम धर्म एव ।  
महानुभावैर्गुरुभिः सदेयम्, गुणेषु शिष्यस्य मतास्ति भक्ति ॥

अन्वयः—तत. अपि अह मे गुणो प्रशंसनीयान् गुणान् वच्मि मम (अय) धर्म एव (अस्ति) । शिष्यस्य गुणेषु महानुभावैर्गुरुभिः सदा इय भक्ति मत. अस्ति ।

अर्थ—तदनन्तर भी मैं अपने गुरुदेव के प्रशंसा के योग्य गुणों का वर्णन करता हूँ तो यह मेरा धर्म ही है । (जहाँ तक मैं समझता हूँ), एक शिष्य के गुणों में महानुभाव गुरुदेवों ने सदा यह भक्ति मानी है ।

( ३५ )

गुरोः प्रसादादुपलब्धकीर्त्ति, भ्रमामि सद्भिः सह भारतेऽस्मिन् ।  
प्रभोर्महावीर जिनेश्वरस्य, प्रणोदितं धर्ममिमा दिशन्नहम् ॥

अन्वयः—गुरो प्रसादात् उपलब्धकीर्त्ति अह सद्भिः सह अस्मिन् भारते प्रभो महावीरजिनेश्वरस्य प्रणोदितम् इम धर्म दिशन् भ्रमामि ।

अर्थ—गुरुदेवश्री के प्रसाद से प्रसिद्ध होकर मैं मेरे सन्तों के साथ इस भारत में श्रमण भगवान् महावीर के द्वारा प्रज्ञप्त इस धर्म का उपदेश करता हुआ धूमता रहता हूँ ।

( ३६ )

इमे मदीया मुनय प्रशस्ता, प्रदीक्षिताः सन्ति गुरोरनुग्रहात् ।  
सुशिक्षिता धर्मधुरन्धरास्ते, जिनप्रभो. शासनमावहन्ति ॥

अन्वयः—गुरो अनुग्रहात् इमे मदीया प्रदीक्षिता सुशिक्षिता प्रशस्ता मुनय सन्ति । सम्प्रति ते धर्मधुरन्धरा सन्त जिनप्रभो शासनम् आवहन्ति ।

अर्थ—गुरुदेवश्री के अनुग्रह से ये मेरे प्रदीक्षित, सुशिक्षित और प्रशस्त मुनिजन हैं । अब वे धर्म के दायित्व को सँभालते हुए जिनेश्वर भगवान् के शासन को महका रहे हैं ।



( २५ )

अयं तु सन्तं मदनादिलालम्, न्यवेदयन्मृत्युदिनं मिषेण ।

अतो मुनिं त स्वयमेव पूर्वम्, न भावि मृत्योरभिभाषणं श्वः ॥

अन्वयः—अय मिषेण मदनादिलाल (मदनलाल) सन्त तु मृत्युदिन-न्यवेदयत्—अत. असौ मृत्यो पूर्व स्वयमेव उक्तवान् यत् श्व अभिभाषण न भावि विद्यते ।

अर्थ—इन्होंने मुनि श्री मदनलालजी महाराज को वहाने से निवेदन कर दिया कि कल व्याख्यान भावी नहीं है । इसलिए उन्होंने मृत्यु से पूर्व स्वय ही कहा था । अर्थात् मेरी कल मृत्यु हो जायेगी, अत व्याख्यान नहीं होगा । यह दूसरी बात है कि वे समझ पाये या नहीं । किन्तु दूसरे दिन जब उन्होंने सुना कि महाराज काल कर गए, तो वे समझे कि कल व्याख्यान नहीं होगा, इसका अर्थ मुनिश्री का आज मृत्युदिन है ।

( २६ )

अहं मदीयस्य गुरोर्महत्त्वम्, व्यवर्णय हेतुपरं परन्तु ।

अतोऽप्यनेके ननु सन्त्युदन्ता, भवेयुरन्येऽपि तु तर्कयेयं ॥

अन्वय—अह मदीयस्य गुरो हेतुपर महत्त्व व्यवर्णयम्, परन्तु अत. अपि अनेके उदन्ता सन्ति । अन्ये अपि उदन्ता भवेयु इति तु भवन्त (एव) तर्कयेयु ।

अर्थ मैंने अपने गुरुदेवश्री का कारणपरक महत्त्व वर्णित किया । परन्तु इनसे भी अनेक उदन्त हैं । दूसरे भी उदन्त हो सकते हैं, यह तो अब आप ही तर्क करेंगे ।

( २७ )

अतोऽहमन्ते कथनीयमेकम्, कथानकं ख्यामि यथाश्रुतं तत् ।

यतः स्वय सिद्धयति निस्स्पृहत्वम्, गुरोर्मदीयस्य महात्मनोऽस्य ॥

अन्वय—अत अहम् अन्ते एक तत् कथनीय यथाश्रुत कथानक ख्यामि । यत अस्य महात्मन मदीयस्य गुरो निस्स्पृहत्व स्वय सिद्धयति ।

अर्थ—अब मैं अन्त मे एक उस कहने के योग्य जैसा कि सुना गया है, कथानक बताता हूँ । जिससे इन महात्मा मेरे गुरुदेव का निस्स्पृहत्व स्वय सिद्ध होता है ।

( २८ )

प्रसिद्धवंशे खलु दुग्गडाख्ये, प्रसूत एको धनिको वदान्यः ।

महाजन सोहनलालनामा, समागतोऽभूदथ बङ्गदेशात् ॥

अव्ययः—अथ खलु प्रसिद्धवंशे दुग्गडाख्ये प्रसूत वदान्य एक सोहनलालनामा महाजन बङ्गदेशात् समागत अभूत् ।

अर्थ—अब आगे की बात है कि दुग्गड कहे जाने वाले प्रसिद्ध खानदान मे जन्मे दानी धनाढ्य एक श्रीसोहनलाल नाम महाजन बङ्गाल देश से आये हुए थे ।

( २९ )

विराजमान स्थविरं महान्तम्, गुरुं मदीयं शुभदर्शनार्थम् ।

तत समाकर्ण्य तदाऽगमत्स, पर शुभादेशमथार्थयत्तम् ॥

अन्वयः—अथ त मदीय गुरु महान्त स्थविर विराजमान समाकर्ण्य तदा शुभदर्शनार्थम् आगमत् । स तत पर शुभादेशम् आर्थयत् ।

अर्थ—तदनन्तर उन मेरे गुरुदेव महास्थविर श्रीताराचन्द्र मुनि महाराज को विराजमान सुनकर तब श्रेष्ठिवर सोहनलालजी दुग्गड गुरुदेव के शुभ दर्शन करने के लिए पहुँचे । दर्शन करने के बाद उन्होंने उनसे विशेष सेवा योग्य आदेश के लिए प्रार्थना की ।

( ३० )

गुरोः शुभादेशमयं न लब्ध्वा, तदाग्रहे सत्यपि दानवीर ।

निवृत्य वृत्त घटित ततोऽसौ, न्यवेदयत्त श्रमण गणेशम् ॥

अन्वय—आग्रहे सति अपि अय दानवीर गुरोः शुभादेश न लब्ध्वा तदा तत निवृत्य असौ घटित वृत्त त श्रमण गणेश न्यवेदयत् ।

अर्थ—आग्रह के रहने पर भी ये दानवीर गुरुदेव के मङ्गलमय सेवा योग्य आदेश को न प्राप्त कर पाए तब वहाँ से लौटकर उन्होंने उन उपाचार्य श्री गणेशीलालजी महाराज को जो वहाँ हुआ उस वृत्त को निवेदित किया ।

( ३१ )

अय तदाचार्यवरो गणेशः, स्वय गुरुं मे समशसतालम् ।

सुनिस्स्पृहं तारकचन्द्रदेवम्, तदेतदन्येऽपि विदन्ति वृत्तम् ।

अन्वयः—तदा अयम् आचार्यवर गणेश स्वय मे गुरु-तारकचन्द्रदेव सुनिस्स्पृह (मत्त्वा) अल समशसत । (सहेव आचार्यवर उक्तवान्—) तत् एतत् वृत्त तु अन्ये अपि विदन्ति ।

अर्थ—तव इन उपाचार्यवर श्रीगणेशीलालजी महाराज ने स्वय मेरे गुरुदेव श्रीताराचन्द्रजी महाराज को परम निस्स्पृही मानकर पर्याप्त प्रशंसा की, और साथ ही यह भी आचार्य वर ने फरमाया कि इस सबको तो और दूसरे भी जानते हैं ।

( ३२ )

अहो किमेते ननु वर्णिता ये, त एव सन्तीति गुणा न चान्ये ।

न चेत्तदैवं न हि तर्कयेयु गुणा गुरोर्मे बहवो भवेयु ॥

अन्वय —ननु ये गुणा वर्णिता सन्ति, ते एव अहौ किम् एते सन्ति न च अन्ये इति चेत् तदा भवन्त एव न तर्कयेयु, यतो हि मे गुरो बहव गुणा भवेयु । साम्प्रत यान् अहम् अस्मांसम् तानेव अवर्णयामितिभाव ।

अर्थ—क्या ये ही गुण, जो वर्णित हुए हैं वे ही सब गुण आपके गुरुदेव के हैं और दूसरे नहीं ? यदि आप सब ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं सोचिए । क्योंकि मेरे गुरुदेव के और अनेक गुण हो सकते हैं । अब मैं जिन गुणों को उचरण कर पाया, उनको बता पाया हूँ, यह व्यङ्ग्यार्थ है ।

( ३३ )

मया तु पूर्वं कथित यदुक्तम्, यथाधि किञ्चिन्ननु वक्तुमीहे ।

तथापि दोष समुपैति कस्मिद्, ममैव सोऽस्तीति विचारयन्तु ॥

अन्वय —मया तु पूर्वं कथितं यत् किञ्चित् ननु उक्त विद्यते, तत् यथाधि वक्तुम् ईहे इति कृत्वा उक्तम् । तथापि वर्णने यदि कस्मिद् दोष समुपैति, स ममैव दोष अस्ति, इति भवन्तो विचारयन्तु ।

अर्थ—मैंने तो पहले ही कह दिया है कि वर्णन यथामति किया चाहता हूँ । अतः इसमें फिर भी कोई दोष रहता है तो मेरा ही दोष समझना चाहिये, न कि वर्णन का ।

( ३४ )

ततोऽप्यहं वच्मि गुरोगुणान् मे, प्रशंसनीयान् मम धर्मं एव ।  
महानुभावैर्गुरुभिः सदेयम्, गुणेषु शिष्यस्य मतास्ति भक्ति ॥

अन्वयः—तत अपि अह मे गुणो प्रशंसनीयान् गुणान् वच्मि मम (अय) धर्म एव (अस्ति) । शिष्यस्य गुणेषु महानुभावैर्गुरुभिः सदा इय भक्ति मत अस्ति ।

अर्थ—तदनन्तर भी मैं अपने गुरुदेव के प्रशंसा के योग्य गुणों का वर्णन करता हूँ तो यह मेरा धर्म ही है । (जहाँ तक मैं समझता हूँ), एक शिष्य के गुणों में महानुभाव गुरुदेवों ने सदा यह भक्ति मानी है ।

( ३५ )

गुरोः प्रसादादुपलब्धकीर्त्ति, भ्रमामि सद्भिः सह भारतेऽस्मिन् ।  
प्रभोर्महावीर जिनेश्वरस्य, प्रणोदितं धर्ममिमं दिशन्नहम् ॥

अन्वयः—गुरो प्रसादात् उपलब्धकीर्त्ति अह सद्भिः सह अस्मिन् भारते प्रभो महावीरजिनेश्वरस्य प्रणोदितम् इम धर्म दिशन् भ्रमामि ।

अर्थ—गुरुदेवश्री के प्रसाद से प्रसिद्ध होकर मैं मेरे मन्तो के साथ इस भारत में श्रमण भगवान् महावीर के द्वारा प्रज्ञप्त इस धर्म का उपदेश करता हुआ घूमता रहता हूँ ।

( ३६ )

इमे मदीया मुनय प्रशस्ता, प्रदीक्षिताः सन्ति गुरोरनुग्रहात् ।  
सुशिक्षिता धर्मधुरन्धरास्ते, जिनप्रभोः शासनमावहन्ति ॥

अन्वयः—गुरो अनुग्रहात् इमे मदीया प्रदीक्षिता सुशिक्षिता प्रशस्ता मुनय सन्ति । सम्प्रति ते धर्मधुरन्धरा सन्त जिनप्रभो शासनम् आवहन्ति ।

अर्थ—गुरुदेवश्री के अनुग्रह से ये मेरे प्रदीक्षित, सुशिक्षित और प्रशस्त मुनिजन हैं । अब वे धर्म के दायित्व को सँभालते हुए जिनेश्वर भगवान् के शासन को महका रहे हैं ।

( ३७ )

अहन्तु नामानि वदामि तेषाम्, क्रमेण दीक्षानुनयेन येन ।  
प्रतीतिवैशिष्ट्यगुणेन साकम्, जना मुनीस्तान् परिचेतुमेयु ॥

अन्वय —अह तेषा नामानि दीक्षानुनयेन क्रमेण वदामि । येन जना प्रतीतिवैशिष्ट्यगुणेन साक तान् मुनीन् परिचेतुम् एयु ।

अर्थ—मैं उनके नाम दीक्षा के अनुनय के क्रम से बता रहा हूँ । जिमसे कि कौन-किस प्रकार की योग्यता रखता है, इसके साथ उन मुनियो से परिचित हो सके ।

( ३८ )

मुनी तु देवेन्द्रगणेशमुख्यौ, मुनी रमेशश्च मुनिर्दिनेशः ।  
समे मिलित्वा मुनयो विनीताः, भवन्ति शिष्या अधुना समैते ॥

अन्वयः—अधुना मम समे मिलित्वा तु एते, देवेन्द्रगणेशमुख्यौ मुनी, रमेश मुनि दिनेश मुनि च, विनीता मुनय मम शिष्या भवन्ति ।

अर्थ—अब मेरे सब मिलकर तो ये देवेन्द्रमुनि, गणेशमुनि, रमेशमुनि और दिनेशमुनि ये विनीत मुनिजन मेरे शिष्य हैं ।

( ३९ )

अय तु देवेन्द्रमुनिर्विनीतः, निरन्तरं सम्प्रति साधकोऽसौ ।  
विशालसाहित्यसुधासमुद्रम्, शनैर्विमथनल्लभते प्रवालम् ॥

अन्वयः—अयम् असौ विनीत देवेन्द्रमुनिः सम्प्रति साधकः सन् विशालसाहित्यसुधासमुद्रं शनैर्विमथनन् निरन्तरं प्रवालं लभते ।

अर्थ—ये ही विनीत देवेन्द्रमुनि है, जो अब साधक होकर विशाल साहित्य-सुधा के समुद्र को धीरे-धीरे निरन्तर मथते हुए मोती को ढूँढ ही लेते है ।

( ४० )

अथास्य वैशिष्ट्यमहं वदेयम्, जना अवश्यं कथयेयुरन्यत् ।  
परन्तु याथार्थ्यनिगूहन किम्, कदापि तत्स्तुत्यमह न मन्ये ॥

अन्वय —अथ अहम् अस्य (यदि) वैशिष्ट्य वदेयम् तदा जना अवश्यम् अन्यन् कथयेयु । परन्तु किं याथार्थ्यनिगूहन स्तुत्य (भवेत्) ' अह कदापि तत् न मन्ये ।

अर्थ—अब मैं इनकी विशेषता बताऊँ तो लोग अवश्य ही कुछ कहेंगे । परन्तु क्या वास्तव को छिपाना स्तुत्य होगा ? कभी स्तुत्य नहीं हो सकता । अत मैं कभी वास्तव को छिपाना स्तुत्य नहीं समझता ।

( ४१ )

दिवानिशं यो रमतेऽधिसेवम्, ममैव नैवं कथयेयमित्थम् ।  
परन्तु मन्ये मम सेवयालम्, स सेवते ग्रन्थपथा मुनीस्तान् ॥

अन्वय —य दिवानिश मम एव अधिसेव रमते, मम् अहम् एव न कुरु इत्थ कथयेयम् ? अर्थात् न हि । परन्तु ममसेवया अलम् इत्थम् अहं कथयेयम्—इति अह मन्ये । यत स ग्रन्थपथा तान् (बहून्) मुनीन् सेवते ।

अर्थ—जो दिनरात मेरी ही सेवा मे तल्लीन रहते हैं, उनको मैं ही ऐसा कहूँ कि ऐसा न करो —ऐसा मैं कह नहीं सकता । परन्तु मेरी सेवा करने से कोई कार्य नहीं हो सकता—ऐसा मैं कह सकता हूँ । यह मैं मानता हूँ । क्योंकि वे ग्रन्थ-लेखन के मार्ग से सभी मुनियों की सेवा कर रहे हैं ।

( ४२ )

न केवलं स्वीयगुरुं तथायम्, परन्तु सर्वानपि साधुवर्ष्यान् ।  
परे समे सत्यसूतेः प्रशस्ता, समीक्षका एवमिमां नमन्ति ॥

अन्वय.—न केवल स्वीयगुरु तथा (सेवते), परन्तु अय सर्वान् साधु-वर्ष्यान् अपि सेवते । (अतः) एवम् परे समे सत्यसूते प्रशस्ता समीक्षका. (सन्ति), ते (तु साहित्य दृष्ट्वा) इम नमन्ति ।

अर्थ—न केवल वे सब मुनियों की सेवा कर रहे हैं, परन्तु ये सब जैनजन की सेवा कर रहे हैं । इस सबसे ही दूसरे सब सत्य के मार्ग के प्रशस्त गवेषक इनका अभिनन्दन कर रहे हैं ।

( ४३ )

क्रियानय प्रेमवशो विरक्तः, सुसयमी किन्तु सदाऽनुरक्तः ।

क्रियासु नित्य क्षमते प्रसक्तः, गुरौ तु सेवानियमस्य भक्तः ॥

अन्वय—अहो अय देवेन्द्र प्रेमवश सन् अपि विरक्त कियान् अस्ति । किन्तु अनुरक्त सन् अपि सुसयमी क्रियासुप्रसक्त नित्य क्षमते । गुरौ तु सेवानियमस्य भक्त अस्ति एव ।

अर्थ—अरे ये देवेन्द्रमुनि प्रेम के वश मै रहते हुए भी विरक्त है । किन्तु अनुरक्त होकर भी सच्चे सयम के साथ मुनि क्रियाओं मे लगे रहते हैं और नित्य ही सब सहते रहते हैं । गुरु के विषय मे सेवा के नियम के भक्त तो वे है ही ।

( ४४ )

अयं गणेशोऽपि समुन्नतश्ची, कवि प्रवक्ता रचनाप्रवीणः ।

सता गणे लब्धयशा मनस्वी, विराजते चन्द्र इवाधितारम् ॥

अन्वयः—अय गणेश. अपि समुन्नतश्ची कवि, रचनाप्रवीण, प्रवक्ता च (अस्ति) । अय मनस्वी सन् सता गणे लब्धयशाः अधितार चन्द्र इव राजते ।

अर्थ—ये गणेशमुनि भी पूर्णउन्नत होकर कवि, परमलेखक, प्रभावी प्रभाषक सब कुछ हैं । ये मनस्वी रहकर सन्तो के समुदाय मे यगस्त्री हैं । अतएव ये तारागण मे चन्द्रमा के समान शोभा पा रहे हैं ।

( ४५ )

ममाज्ञयाऽय सुसतां गणेशः, करोति धर्मस्य पथा प्रचारम् ।

विहृत्य दूर लभते प्रसिद्धिम्, प्रभापणादस्य परं प्रसन्नः ॥

अन्वय —अय सुसता गणेश गणेश मुनि मम आज्ञयापथा धर्मस्य प्रचार करोति, दूर च विहृत्य प्रसिद्धि लभते, तस्मात्तु अह प्रसन्नोऽस्म्येव), किन्तु अस्य प्रभापणात् अहम् तत अपि पर प्रसन्न. (अस्मि) ।

अर्थ—ये सच्चे सन्तो के मध के स्वामी गणेश मुनि मेरे आदेश से ही मार्ग से धर्म को दीप्त कर रहे हैं और लम्बे-लम्बे विहार कर स्थान-स्थान पर पहुँच, यश प्राप्त कर रहे हैं । इसमे तो पहले मैं प्रसन्न हूँ ही, किन्तु व्याख्यान की विशेष उपलब्धि से मैं उममे भी अधिक प्रसन्न हूँ ।

( ४६ )

अयं रमेशो मुनिरेव नित्यम्, नयेन शास्त्रस्य चिनोति तत्त्वम् ।  
जिनस्य धर्मस्य विवेकपूर्णं, प्रतत्त्वसूत्रेण दृढीकरोति ॥

अन्वय —अय रमेश मुनि नित्यम् एव नयेन शास्त्रस्य तत्त्व चिनोति विवेकपूर्णं सन् अय जिनधर्मस्य तत्त्व प्रतत्त्वसूत्रेण दृढीकरोति ।

अर्थ—ये रमेशमुनि सदा न्यायशास्त्र के द्वारा शास्त्र के तत्त्वो को एकत्र करते हैं, और नैपुण्य के साथ ये उस चुने हुए तत्त्व को तत्त्वार्थसूत्र से कसकर के मजबूत बना देते हैं ।

( ४७ )

असौ प्रबुद्धोऽतिघृतागमश्रीः, यशोधर स्तोक कलाविलासे ।  
विराजते शिष्यगणे प्रसन्न, तपस्विधाराधर एव धर्म ॥

अन्वय —असौ प्रबुद्ध अतिघृतागमश्री, स्तोक कलाविलासे यशो-धर, धर्म शिष्यगणे प्रसन्न सन् तपस्विधाराधर. एव राजते ।

अर्थ—ये ही जाग्रत आगम के ज्ञाता हैं और थोकडो की कला के विलास में विशेषज्ञ है । मेरे शिष्यो के समुदाय में धर्म के विषय में गरज-गरज कर बरसनेवाले तपस्वी मेघ ही हो ऐसी शोभा पा रहे है ।

( ४८ )

न केवल तोषमुपैति तावत्, न यावदायाति पुरोऽस्य हेतु ।  
स्वयं प्रसन्नो रमते विचारे, न कोऽपि तं ज्ञातुमत प्रपन्न ॥

अन्वयः—अय तावत् केवलं तोष न उपैति, यावत् अस्य पुर हेतु न आयाति । स्वयंप्रसन्न अय विचारे रमते, अत कोऽपि त ज्ञातु प्रपन्न न भवति ।

अर्थ—ये मुनिजी तब तक सन्तोष नहीं लेते, जब तक कि इनके सामने कारण उपस्थित नहीं होता, क्योंकि ये बिना कारण के किसी बात को ठीक नहीं मानते । इसलिए आपके सन्तोष के लिये केवल हेतु है । दूसरे आत्मराम होकर अपने विचार में रमते रहते हैं । इसलिए कोई भी इनको जानने का अधिकारी नहीं हो पाता ।



( ४९ )

विचारदृष्ट्या सरलो विनोदी, हितैषिता वाचि न चेतसैव ।  
न छद्मवृत्तिं जनमीक्षतेऽयम्, पुनर्भवेत्कोऽपि भयङ्करोऽसौ ॥

अन्वयः—(अय) विचारदृष्ट्या सरल विनोदी वर्तते । अस्य हितै-  
षिता वाचि न विद्यते, किन्तु चेतसा हितम् अनुभूय तद्वत् एव आचरति येन  
हित जायते । अर्थात् अय हितम् आचरति, किन्तु न वदति । अय छद्मवृत्तिं  
जन न ईक्षते, पुन असौ कोऽपि भयङ्कर भवेत् अर्थात् तस्मात् न विभेति ।

अर्थ—विचार की दृष्टि से भोले विनोदी हैं । इनकी भलाई की चाह कहने  
में नहीं है, अपितु हृदय से ही अनुभव करने में है । ये किसी छली को देखना तक  
नहीं चाहते, बात की बात तो दूर है । फिर चाहे वह कितना भी जालिम क्यों  
न हो ।

( ५० )

कविस्वभावः कुशलो निवद्धा, प्रतिष्ठते संस्कृतपण्डितेषु ।  
स्वभावमीनः समये च खिन्नः, सुसेवते मां विनयेन नुन्नः ॥

अन्वयः—अय कविस्वभावः, कुशलः निवद्धा, संस्कृत-पण्डितेषु-  
प्रतिष्ठते । अय स्वभावमीन तिष्ठति, समये च अय खिन्न भवति, किन्तु  
अय विनयेन नुन्न सन् मा सुसेवते ।

अर्थ—ये मुनि कवि जैसे स्वभाव के हैं, कुशल निवन्ध लेखक हैं और संस्कृत  
के पण्डितों में जमकर बैठते हैं अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और ये स्वभाव से मीन  
रहते हैं, तथा ममय-समय पर खिन्न हो उठते हैं, वस्तुतः यह इनका स्वभाव ही है ।  
किन्तु विनय के हेतु से प्रेरित हो मेरी खूब सेवा करते हैं ।

( ५१ )

अयं दिनेशो मुनिरेवमेवम्, समभ्यसन् स्तोककदम्बकं न ।  
उपैति सम्यक् जिनधर्मबोधम्, शनैः शनैरेति मुनिप्रभावम् ॥

अन्वयः—अय दिनेश मुनि एवम्-एवम् नः (अस्माक) स्तोककदम्बक  
समभ्यसन् जिनधर्मबोध सम्यक् उपैति, शनैःशनैः च मुनिप्रभावम् एति ।

अर्थ—ये दिनेशमुनि हैं जो जैसे-तैसे कर हमारे थोकड़ों को गिनते हुए जिन-  
धर्म के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और धीरे-धीरे मुनिवृत्ति को जगाते चल रहे हैं ।

( ५२ )

अयं तु देवेन्द्रमुने सुशिष्य , महाविनीतोऽपि विचारधीरः ।  
सुसेवको मे प्रियप्रौत्रकोऽसौ, बुधेषु राजेन्द्र इवाधिकोऽस्ति ॥

अन्वय—अयं तु (राजेन्द्रमुनि) देवेन्द्रमुने सुशिष्य महाविनीत अपि विचारधीर मे प्रियपौत्रक. सुसेवक (अस्ति) असौ बुधेषु इव अधिक अस्ति ।

अर्थ—ये तो राजेन्द्रमुनि हैं, जो प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीदेवेन्द्रमुनि के सुशिष्य हैं, अत्यन्त विनीत होते हुए भी काफी अच्छे विचारवान् है । वे मेरे प्रिय पौत्रमुनि होते हैं और बहुत ही सेवापरायण हैं और वस्तुतः ज्ञाताओं में अधिक के समान जैसे ही हैं । स्पष्ट विशेषण इसलिए कहना नहीं चाहता, क्योंकि सेवक, लेखक, व्याख्यानी और अध्ययनरत हैं । अतः मेरी दृष्टि में अभी अधिक विशेषण उपयुक्त जमा सो कह दिया ।

( ५३ )

सुलेखको ग्रन्थचयस्य वाग्मी, विभुः प्रभाविष्वपि सज्जनेषु ।

प्रभाषको धर्मसभासु नीतौ, उदीयमानो मुनिरेव सोऽयम् ॥

अन्वयः—(अयं) ग्रन्थचयस्य सुलेखकः, सज्जनेषु वाग्मी प्रभाविषु अपि विभु, धर्मसभामु प्रभाषक, स अयम् एव य नीतौ उदीयमान मुनि. (अस्ति) ।

अर्थ—ये अनेक पुस्तकों के अच्छे लेखक हैं, सज्जनों में वाग्मी हैं, प्रभावियों में व्यापक हैं, धर्म की सभाओं में प्रवक्ता है और वे ही ये मुनि हैं, जो नीति के विषय में होनहार मुनि हैं ।

( ५४ )

अयं मुनी राष्ट्रियतत्त्वदर्शी, हितं परं वेत्ति सुमानवीयम् ।

दृष्टौ मुनेर्धर्ममुपास्यमेवं, निधाय राजेन्द्रमुनि स्थितोऽसौ ॥

अन्वयः—अयं मुनि सन् राष्ट्रियतत्त्वदर्शी विद्यते, अयं सुमानवीय परहित वेत्ति, असौ राजेन्द्रमुनि दृष्टौ मुने उपास्यम् एव धर्म निधाय स्थित (विद्यते) ।

अर्थ—ये मुनि रहते हुए राष्ट्रीय तत्त्व के द्रष्टा हैं, ये जनता के विशिष्ट हित को पहचानते हैं । धर्म की दृष्टि के विषय में उपास्य मुनिधर्म, जैसा कि चाहिए, को स्थिर करके मुनिधर्म के पालन में तत्पर हैं ।

( ५५ )

यमी, श्रमी, वीरमुनिर्विनीत, गुरुं स्वकीयं प्रति भावभक्तिम् ।  
दधाति मां प्रत्यपि निर्विशेषम्, ममाशिषायुष्यमशेषमेतु ॥

अन्वय — अयं यमी, श्रमी, वीरमुनि विनीतश्च अस्ति । अयं स्वकीय-  
य गुरु प्रति एव मा प्रति अपि भावभक्ति निर्विशेष दधाति । (अतः) अहं  
हृदयेन प्रसन्नोऽस्मि) मम आशिषा अयम् अशेषम् आयुष्यम् एतु ।

अर्थ — ये सयम-शील के पालक, विद्याभ्यास में रत, दृढश्रद्धा के सन्त और  
अत्यन्त नम्र हैं । अपने गुरुदेव के प्रति एव मेरे प्रति भी बिना किसी भेदभाव के  
श्रद्धा-सेवा का सदा ध्यान रखते हैं । अतः मैं हृदय से प्रसन्न हूँ—मेरे आशीर्वचन  
से चाहता हूँ कि ये अशेष आयुष्य प्राप्त करें ।

( ५६ )

इमौ गणेशस्य मुने सुशीलौ, प्रियौ हि तौ सम्प्रति शिष्यकौरत ।  
तयोस्तनुसंज्ञे गणयामि मुन्योः, यतो भवन्तोऽवगता भवेयुः ॥

अन्वय — सम्प्रति गणेशस्य हि मुने तौ सुशीलौ प्रियौ शिष्यौ स्त ।  
तयो मुन्यो तु अहं संज्ञे गणयामि । यतः भवन्तः अवगता भवेयुः ।

अर्थ—सम्प्रति श्री गणेशमुनिजी के वे सुशील, और प्रिय दो शिष्य हैं । उन  
दोनों मुनियों के नाम गिनाता हूँ । जिससे कि आप अवगत हो सकें ।

( ५७ )

मुनिर्जिनेन्द्रः प्रथमस्तपस्वी, मुनिर्द्वितीयोऽस्त्यपरः प्रवीणः ।  
इमौ मिलित्वा च समौ तथैतौ, मुनेर्गणेशस्य मुनी भवेताम् ॥

अन्वयः—मुनि जिनेन्द्रः प्रथम अस्ति, अपर मुनिः तपस्वी प्रवीणः  
अस्ति । तथा इमौ मिलित्वा एतौ समौ (अर्थात् द्वावेव) गणेशस्य मुनेः मुनी  
भवेताम् ।

अर्थ—मुनि जिनेन्द्रजी प्रथम हैं और दूसरे मुनि तपस्वी प्रवीणजी द्वितीय  
हैं । इस प्रकार ये मिलकर के समान ही होते हैं अर्थात् द्विवचन होने से दो ही होते  
हैं । ये ही दोनों मुनि श्रीगणेशमुनिजी के शिष्य हैं ।

( ६१ )

केवल काव्यसौख्याय, सोविध्यायाथवा सताम् ।  
ताराचन्द्रमुने शिष्य, पुष्करोऽहं व्यवर्णयम् ॥

अन्वयः—अहं ताराचन्द्र मुने शिष्य पुष्कर केवल काव्यसौख्याय अथवा सता सौविध्याय व्यवर्णयम् ।

अर्थ—श्री ताराचन्द्र मुनि महाराज का शिष्य पुष्कर मुनि, यह जो गुरुदेव का वर्णन किया है, वह केवल काव्य आनन्द के लिए तथा मुञ्जत्रनो की सुविधा की दृष्टि से किया है । वास्तव में उनका उदात्त चरित शब्दों द्वारा अवर्णनीय ही है ।

इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन  
उपाध्यायपदालङ्कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते  
श्रीमदाचार्यामरसिंह महाकाव्ये अन्तिमः

त्रयोदशः सर्ग

—शुभम्—



